

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 अप्रैल 2015—चैत्र 13, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2015

क्र. ई-1-104-2015-5-एक.—श्री मनीष रस्तोगी, भाप्रसे (1994), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की सेवाएं लोक निर्माण विभाग को सौंपते हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम पदस्थ किया जाता है तथा उन्हें पदेन सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग भी घोषित किया जाता है।

2. उपरोक्तानुसार श्री मनीष रस्तोगी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे (1994), प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण

विभाग एवं सचिव मुख्यमंत्री (अतिरिक्त प्रभार) तथा आयुक्त-सह-संचालक संस्थागत, वित्त (अतिरिक्त प्रभार), केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के कार्यभार से मुक्त होंगे एवं उनकी मूल पदस्थापना आयुक्त-सह-संचालक, संस्थागत वित्त मानी जाएगी। श्री अग्रवाल सचिव, मुख्यमंत्री (अतिरिक्त प्रभार) का कार्य पूर्ववत् संपादित करते रहेंगे।

3. उपरोक्त पद-1 के अनुक्रम में श्री मनीष रस्तोगी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंतोनी डिसा, मुख्य सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2015

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-4262-014.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्याक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतदद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 34, 81-ए और 105 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएँ :—

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	सिविल जिले (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम (4)
2	अलीराजपुर	अपर सेशन न्यायाधीश, जोबट.	श्री रूप सिंह अलावा, अपर सेशन न्यायाधीश, जोबट.
34	खण्डवा	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.	श्री अक्षय कुमार द्विवेद प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.
81-ए	सागर	अपर सेशन न्यायाधीश, बीना.	श्री प्रमोद कुमार, अपर सेशन न्यायाधीश, बीना.
105	उज्जैन	अपर सेशन न्यायाधीश, खाचरौद.	श्री व्ही. के श्रीवास्तव, अपर सेशन न्यायाधीश, खाचरौद.

F. No. 17(E)-83-03-XXI-B(one)-4262-014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment's in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I, dated 24th September 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial

numbers 2, 34, 81-A & 105 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District (1)	Name of Special Court (2)	Name of the Judge of the Special Court (4)
2.	Alirazpur	Additional Sessions Judge, Jobat.	Shri Roop Singh, Alawa, Additional Sessions Judge, Jobat.
34	Khandwa	1st Additional Sessions Judge, Khandwa.	Shri Akshay Kumar Dwivedi, 1st Additional Sessions Judge, Khandwa.
81-A	Sagar	Additional Sessions Judge, Bina.	Shri Pramod Kumar, Additional Sessions Judge, Bina.
105	Ujjain	Additional Sessions Judge, Khachord.	Shri V. K. Shrivastava Additional Sessions Judge, Khachord.

फा. क्र. 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-4262-014.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्याक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अधिसूचना एफ क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में, दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 34 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएँ :—

सारणी

अनु- क्रमांक (1)	सिविल जिले (2)	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार) (4)
34	खण्डवा	प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.	सिविल जिला खण्डवा का संपूर्ण विद्युत् क्षेत्र.

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अन्तरित हो जायेंगे।

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1)4262-014.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial numbers 34 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court Session Judge	Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
34	Khandwa	Ist Additional Session Judge	All Electricity area of Civil District Khandwa

Note.—The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2015

फा. क्र. 1-अ-1-15-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन निम्नलिखित अधिवक्ताओं को महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में उनके नाम के समक्ष दर्शाएं गए पद एवं निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर महाधिवक्ता के परामर्श से उच्च न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए आदेश जारी होने के दिनांक 7 मार्च 2015 से दिनांक 7 मार्च 2016 तक एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करता है। उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे :—

महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर
अतिरिक्त महाधिवक्ता

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री पुरुषेन्द्र कौरव	अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर.
2	श्री करमजीत सिंह बाधवा	अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर.

उप महाधिवक्ता पद हेतु

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री आशोष पाठक	उप महाधिवक्ता
2	श्री संजय द्विवेदी	उप महाधिवक्ता
3	श्री समदर्शी तिवारी	उप महाधिवक्ता

विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री दिवेश जैन	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
2	श्री पुरुषेन्द्र यादव	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
3	श्री गिरीश कैकरे	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
4	श्री स्वपनिल गांगुली	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
5	श्रीमती शाहिन फतिमा	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
6	श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
7	श्री दीपक अवस्थी	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
8	श्री ब्रह्मदत्त सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
9	श्री व्यंकटेश पाण्डेय	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
10	श्रीमती दिव्य कीर्ति बोहरे	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
11	श्री अमित सेठ	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.
12	श्री अजय प्रताप सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.

(1)	(2)	(3)
13 श्री अखिलेन्द्र सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.	
14 श्री अविनाश जारगर	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.	
15 श्री पियुश धर्माधिकारी	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.	
16 श्री आशीष आनन्द बर्नाड	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.	
17 श्री अजय शुक्ला	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.	
18 श्री प्रदीप सिंह	विधि अधिकारी/शासकीय अधिवक्ता.	

उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता

क्रमांक	अधिवक्ता का नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1 श्री हरप्रीत रूपराह	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.	
2 श्री सिद्धार्थ सिंह चौहान	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.	
3 सुरभि निगम	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.	
4 श्री जाहान्वी पंडित	उप विधि अधिकारी/उप शासकीय अधिवक्ता.	

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों के वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2015

फा. क्र. 1033-इक्कीस-ब (दो)2015.—राज्य शासन, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में राज्य शासन के विरुद्ध प्रस्तुत प्रकरणों में, शासन के पक्ष समर्थन हेतु अधिवक्ता श्री विजय शंकर पाण्डेय को स्थायी अधिवक्ता नियुक्त करता है। श्री विजय शंकर पाण्डेय को रुपये 57,500/- (सत्तावन हजार पाँच सौ रुपये) केवल मासिक पारिश्रमिक, वास्तविक अन्य व्यय एवं यात्रा व्यय नियमानुसार देय होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दी गई सहमति क्रमांक 43-ई1-35-2009-5-1, दिनांक 18 मार्च 2015 के परिपालन में श्री विजय शंकर पाण्डेय द्वारा देयक प्रस्तुत करने पर उनके पारिश्रमिक एवं अन्य वास्तविक व्ययों का भुगतान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा।

फा. क्र. 1 (अ)4-इक्कीस-ब-(दो) 2008.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15-1-2009 एवं समय-समय पर जारी किये गये आदेश के द्वारा श्री शशांक शेखर, अधिवक्ता को शासकीय अधिवक्ता (स्टेंडिंग कॉर्सिल) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में नियुक्त किया गया था।

श्री शशांक शेखर, अधिवक्ता को राज्य शासन द्वारा आदेश जारी होने के दिनांक से तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2015

फा. क्र. 1-7-81-इक्कीस-ब-(एक)-575-2015.—मध्यप्रदेश डैकेती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (1), (1-क) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-7-81-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 19 मई 1981 जो उसी दिन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई थी, को, जहां तक कि उसका संबंध भिण्ड में विशेष न्यायालय के गठन से है, अंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नीचे अनुसूची के कालम (2) में उल्लिखित विशेष न्यायालयों का, उक्त अनुसूची के कालम (3) में यथादर्शित क्षेत्र के अधीन आने वाले मामलों के विचारण के संबंध में गठन करती है, अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	विशेष न्यायालय	क्षेत्रीय अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
“2.	विशेष न्यायालय, भिण्ड	राजस्व जिला भिण्ड (अनुक्रमांक 2-क एवं 2-ख की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर)।

2क. विशेष न्यायालय, गोहद की क्षेत्रीय अधिकारिता।

2ख. विशेष न्यायालय, लहार भिण्ड। लहार की क्षेत्रीय अधिकारिता।”

टिप्पणी।—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे।

F. No. 1-7-81-XXI-B (One)-575-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1)-(1-A) & (2) of Section 6 of the Madhya Pradesh Dakaiti Aur

Vyapaharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981), and in partial supersession of this department's Notification F. No.1-7-81-XXI-B (1) dated 19th May 1981 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) on the same day, as far as it relates to the constitution of Special Court at Bhind, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh hereby constitutes the Special Court mentioned in column (2) of the Schedule below for the purposes of the said Act in relation to the trial of the cases falling under areas as shown in column (3) of the said Schedule namely:—

SCHEDULE

S. No.	Special Court (1)	Territorial jurisdiction (2)	(3)
“2.	Special Court, Bhind	Revenue District, Bhind (Excluding the Territorial jurisdiction at serial No. 2-A and 2-B).	
2A.	Special Court, Gohad, Bhind.	Territorial jurisdiction of Gohad .	
2B.	Special Court, Lahar, Bhind.	Territorial jurisdiction of Lahar.”	

Note.—The pending cases of the Special Court shall stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

फा. क्र. 859-इककीस-ब-(दो)2015.—राज्य शासन, श्री आदित्य शंकर, स्थायी अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उन्हें आवंटित समस्त कार्य श्री सी.डी. सिंह, स्थायी अधिवक्ता नई दिल्ली द्वारा किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2015

फा. क्र. 1 (बी)-42-2004-इककीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए धार सत्र खण्ड के धार राजस्व के लिये एतद्वारा, नियुक्त करता है। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि

समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

क्रमांक	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री सुरेश चन्द्र जलोदिया	शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक, धार।
2	श्री कैलाश यादव	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, धार।
3	श्री शरद कुमार पुरोहित	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, धार।
4	श्री सतीश ठाकुर	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, धार।
5	श्री वीरेन्द्र शर्मा	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, धार।
6	श्री दिग्मिजय सिंह राठौर	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील सरदारपुर, जिला धार हेतु।
7	श्री अनिल कुमार सेन	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील मनावर, जिला धार हेतु।
8	श्री आर. के गुप्ता	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील कुक्षी, जिला धार हेतु।

फा. क्र. 1 (बी)-06-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के झाबुआ सत्र खण्ड के झाबुआ राजस्व के लिये एतद्वारा, नियुक्त करता है। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

क्रमांक	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री मान सिंह भूरिया	- शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, झाबुआ।
2	श्री जुवान सिंह डाबर	- अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, झाबुआ।
3	श्री दीपक भण्डारी	- अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, झाबुआ।

फा. क्र. 1 (बी)-14-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए छिन्दवाड़ा सत्र खण्ड के छिन्दवाड़ा राजस्व के लिये एतद्वारा, नियुक्त करता है। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

क्रमांक	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री संतोष कुमार चौधरी	- अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा।

(1)	(2)	(3)
2	श्री शक्रचन्द्र साहू	- अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा।
3	श्री हरिओम प्रकाश बागे	- अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा।

4	श्री संजय गुर्जर	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा।
5	श्री सुनील सिंधिया	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, छिन्दवाड़ा।

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2015

फा. क्र. 1 (बी)-16-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए खरगौन सत्र खण्ड के खरगौन राजस्व के लिये एतद्वारा, नियुक्त करता है। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

क्रमांक	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
1	श्री सचिन्द्र उपाध्याय	- शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, खरगौन।
2	श्री सिद्धार्थ मोयदै	- अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, तहसील बड़वाह जिला खरगौन हेतु।

- | | |
|--------------------------|--|
| 3 श्री राज कुमार अत्रे | - अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, खरगौन. |
| 4 श्री अशोक कुमार गुप्ता | - अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, खरगौन. |
| 5 श्री युवराज गुजराथी | - अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, खरगौन. |

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2015

फा. क्र. 1 (बी)-25-2004-इक्कीस-ब(दो)-2015.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, 1. श्री के. जी. वर्मा, अधिवक्ता, उज्जैन को शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, उज्जैन तथा 2. श्री के. के. शर्मा, अधिवक्ता, उज्जैन, 3. श्री रविन्द्र कुमार कुशवाह, अधिवक्ता, उज्जैन, 4. श्री मिश्री लाल चौधरी, अधिवक्ता, उज्जैन, 5. श्री मनीष गोयल, अधिवक्ता, उज्जैन, 6. श्री राजलोटन मिश्रा, अधिवक्ता, उज्जैन, 7. श्री राकेश गहलोत, अधिवक्ता, उज्जैन एवं 8. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता, उज्जैन को उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से एक वर्ष की पुनर्नियुक्ति के लिये जिला उज्जैन सत्र खण्ड, उज्जैन राजस्व जिले के लिए एतद्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला उज्जैन नियुक्त करता है। यह पुनर्नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताए किसी भी समय उन्हें सूचना दिये बिना समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(सी)-4-2015-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत श्री सुखेन्द्र प्रसाद द्विवेदी अधिवक्ता सीधी को जिला सीधी में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है। उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी। यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 (सी)-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

फा. क्र. 1(सी)-4-2015-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार सागर जिले के विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4 (1) के अनुसार श्री रमाशंकर दुबे, अधिवक्ता को जिला सीधी में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है। उक्त नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ता को कार्य जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा।

नियुक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता को शुल्क का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 (सी)-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अन्तर्गत विकलनीय होगा। जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा।

फा. क्र. 1 (बी)-12-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री सुधीर कुमार पिहानी पुत्र स्व. श्री कैलाश बिहारी लाल, अधिवक्ता, तहसील लहार जिला भिण्ड को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला भिण्ड सत्र खण्ड तहसील लहार भिण्ड राजस्व जिले के लिये एतद्वारा, अति. शासकीय अभिभाषक/अति. लोक अभियोजक, तहसील लहार, जिला भिण्ड नियुक्त करता है। यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अति. सचिव,

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2015

क्र. 31-1-स्था-2002-2011.—विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 4 मार्च 2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री रामदयाल मालवीय, सहायक ग्रेड-1, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अनुभाग अधिकारी के पद पर वेतनमान 9300-34800-4200 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक के लिये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति किया जाता है।

इस पदोन्नति में आरक्षण संबंधी प्रचलित नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।

क्र. 31-1-स्था-2002-2009—विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 4 मार्च 2015 में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री गोविन्द लच्छवानी, अनुभाग अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर वेतनमान 15900-39100-5400 में अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक के लिये कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति किया जाता है।

इस पदोन्नति में आरक्षण संबंधी प्रचलित नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है।

एस. एस. बंसल, सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मार्च 2015

क्र. एफ-12-86-2014-बी-1-दो.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2112/370/दो, दिनांक 12 जून 1974 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 सन् 74) की धारा 4 उपधारा (1) के खण्ड (घ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, मध्यप्रदेश भोपाल के अपराध अनुसंधान विभाग के शाखा सतर्कता कोष्ठ को अपराध अनुसंधान विभाग सतर्कता कोष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया था एवं प्रिव्हेन्शन आफ करप्शन एक्ट, 1947

(2 सन् 1947) के अधीन दण्डनीय अपराधों की विवेचना के अधिकार सतर्कता शाखा को दिये गये थे।

प्रिव्हेन्शन आफ करप्शन एक्ट, 1947 अब समाप्त हो गया है। वर्तमान में “भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988” (प्रिव्हेन्शन आफ करप्शन एक्ट, 1988) प्रभावी है।

अतः राज्य शासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 सन् 74) की धारा 4(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना दिनांक 12 जून, 1974 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिसूचना के अंश “ख” में अंकित “प्रिव्हेन्शन आफ करप्शन एक्ट, 1947 (2 जून 1947) के अधीन दण्डनीय अपराधों” के स्थान पर “भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (प्रिव्हेन्शन आफ करप्शन एक्ट, 1988)” प्रतिस्थापित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मदन कुमार, उपसचिव,

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2015

क्र. 1052-151-2015-पचास-2.—विभागीय अधिसूचना दिनांक 7 फरवरी 2014 द्वारा किशोर न्याय बोर्ड शाजापुर में सामाजिक कार्यकर्ता, श्रीमती गायत्री विजयवर्गीय सदस्य तथा श्री भुपेन्द्र सहगल सदस्य को नामांकित किया गया था। राज्य शासन द्वारा श्री जितेन्द्र वर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 2611/2014 पर निर्णय दिनांक 24 नवम्बर 2014 में दिये निर्देशानुसार श्री भुपेन्द्र सहगल सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड शाजापुर की नियुक्ति निरस्त की जाती है।

क्र. 1054-151-2015-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में

यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) क्रमशः (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है अर्थात् :—

अनुसूची

अ.	किशोर न्याय जिले का	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम	
क्र.	बोर्ड और नाम		
	उसका		
	मुख्यालय		
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शाजापुर	शाजापुर	1. श्री जितेन्द्र वर्मा - सदस्य

No. 1054-151-2015-L-2.— In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the

Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.	Name of Jurisdiction	Name of the Honorary
No.	the Juvenile (Revenue	Social Workers
	Justice Board (Revenue	District)
	& its Head	
	Quarter	
(1)	(2)	(3)
1.	Shajapur	1. Shri Jitendra Verma -Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनी उड़के, अपर सचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2015

क्र. एफ. 3-59-2013-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-59-2013-बत्तीस, दिनांक 9 सितम्बर 2014 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना, 2005 में निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण व्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम अचारपुरा एवं मनीखेड़ी कोट	1, 2, 3, 4, 5, 12, 38, 39, 241, 250 259/1, 88/1, 106/9, 109/1/2,	147, 344 में से 144.504 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (अंतर्गत विशेष शिक्षा प्रक्षेत्र) एवं औद्योगिक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		109/2/3,			
		109/2/6,			
		110/2/3, 113.			

योग . . 144.504 हेक्टेयर

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना, 2005 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
विदिशा, दिनांक 11 मार्च 2015

क्र. 556.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ-1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ-2 में दर्शित नाम से तहसील लटेरी, जिला विदिशा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

स्तम्भ-1

भू-भाग का विवरण

स्तम्भ-2

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

क्र.	मूल ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नंबर	पृथक् किया गया क्षेत्रफल	राजस्व ग्राम का नाम	हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	टोंकरा	62	119.610	देहरी	62

क्र. 557.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाए अनुसूची में स्तम्भ-1 में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ-2 में दर्शित नाम से तहसील नटेरन, जिला विदिशा के अन्तर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

स्तम्भ-1

भू-भाग का विवरण

स्तम्भ-2

राजस्व ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का नंबर

क्र.	मूल ग्राम का नाम	पटवारी हल्का नंबर	पृथक् किया गया क्षेत्रफल	राजस्व ग्राम का नाम	हल्का नं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पिपरिया	22	375.170	रामनगर	22
2	रावन	40	541.006	बम्होरी	40

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 17 मार्च 2015

प्रारंभिक सूचना

क्र. 751-2015-प्र.क्र. 01-अ 82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में रणायरा-गर्वावद तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर की फीडर चैनल एवं स्पीड चैनल के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है,

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30, सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची (1)

ग्राम-गर्वावद, तहसील-मल्हारगढ़

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम-गर्वावद	3.940 हे.	0.450 हे.	4.390 हे.
2	ग्राम-रणायरा	0.380 हे.	-	0.380 हे.
		कुल योग . .	4.320 हे.	0.450 हे.
				4.770 हे.

रणायरा-गर्वावद तालाब योजना

ग्राम-गर्वावद, तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर

अनुसूची (2)

रणायरा-गर्वावद तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

ग्राम-गर्वावद की भूमि

1	हरिगिर, रामगिर पिता कचरूगिर, सज्जनबाई बैवा छगन गिर, राजूबाई बैवा मांगू गिर, अर्जुन गिर ना.बा. पिता मांगू गिर ना. बा.सर. माता राजूबाई बैवा मांगू गिर गौसाई.	1668 पै. मीन. 1	1.110	0.900	-	0.900
2	गोविन्दसिंह पिता मोतीसिंह सौंधिया राजपूत	1674 मीन. 2	0.960	0.960	-	0.960
3	कंवरसिंह पिता मोतीसिंह सौंधिया राजपूत	1674 मीन. 3	0.960	0.960	-	0.960

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	निरभयसिंह पिता नाहरसिंह सौंधिया राजपूत	1606 1607	0.110 0.130	0.050 0.050	- -	0.050 0.050
5	रूपसिंह पिता नाहरसिंह सौंधिया राजपूत	1586 मीन.2	0.060	0.060	-	0.060
6	उदयसिंह पिता रूपसिंह सौंधिया राजपूत	1653	0.090	0.050	-	0.050
7	सूरजबाई पति किशनसिंह सौंधिया राजपूत	1605	0.100	0.100	-	0.100
8	कंचबाई बेवा भेरुलाल गायरी	1581 1582 मीन. 1 1582/1 मी. 2	0.060 0.030 0.020	0.060 0.030 0.020	- - -	0.060 0.030 0.020
9	दिलीप द. पु. बापूसिंह सौंधिया राजपूत	1101	0.110	0.090	-	0.090
10	लालसिंह, कानसिंह पिता रामसिंह सौंधिया राजपूत.	1553 मि.1 1553 मि.2 1553 मि.3	0.050 0.370 0.050	0.050 0.370 0.050	- - -	0.050 0.370 0.050
11	उदयसिंह पिता भंवरसिंह सौंधिया राजपूत	1698/1	0.450	0.070	-	0.070
12	भुवानीलाल पिता नानूराम गायरी	1603/3	0.540	0.070	-	0.070
13	मदनलाल पिता मना ढोली	1507 मीन.1 1512	0.140 0.500	- -	0.140 0.020	0.140 0.020
14	कारुलाल पिता कचरुलाल खटीक	1506	0.830	-	0.052	0.052
15	गजरेसिंह, उदयसिंह, मेहताबसिंह पिता देवीसिंह सौ.रा.	1505 1514 1515	1.200 0.410 1.040	0 - -	0.100 0.020 0.040	0.100 0.020 0.040
16	गोर्धनसिंह पिता मेहताबसिंह सौ. रा.	1516/1 मीन.1	0.500	-	0.040	0.040
17	भगवतसिंह पिता देवीसिंह सौंधिया राजपूत	1513	0.600	-	0.038	0.038
(रर्गवद) कुल योग . . .			-	3.940	0.450	4.390

ग्राम-रणायरा की भूमि

1	विनोदसिंह पिता दिलीपसिंह सौ. राजपूत	256	1.170	0.210	-	0.210
2	सूरजबाई बेवा प्रेमसिंह, विक्रमसिंह पिता देवीसिंह बवालसिंह रघुवीरसिंह पिता प्रेगसिंह सौंधिया राजपूत.	110	1.520	0.080	-	0.080
3	नन्दलाल पिता फूलचन्द, सूरजबाई बेवा मदनलाल व विनोद कुमार पिता मदनलाल महाजन नि. बुढ़ा.	111	1.280	0.090	-	0.090
(रणायरा) कुल योग . . .			-	0.380	-	0.380
(रर्गवद+रणायरा) महायोग . . .			-	4.320	0.450	4.770

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
(भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम, 2013)**

कटनी, दिनांक 2 फरवरी 2015

क्र. 1-अ-82-भू.आ.-पहुंच मार्ग-2014-15.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15 (1)-2004-सात-शा.2-A, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित किया गया है, के द्वारा जिले के कलेक्टरों को समुचित सरकार माना गया है तथा भू-अर्जन प्रकरणों में 10,000 हे. (दस हजार हे.) से कम के प्रकरणों में जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित है, में निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश जो कि भारत का राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है। अध्यादेश में नया अध्याय IIIA लागू किया गया है जिसके अंतर्गत धारा 10 (A) के अनुसार समुचित सरकार (जो कि अधिनियम की धारा 3 (e) के अनुसार राज्य शासन है) को यह अधिकार दिया गया है कि वह उल्लेखित परियोजनाओं में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानों से विमुक्त कर सकती है।

कटनी जिले में दगोह-कटनी राजमार्ग क्र. 14 में तह, रीठी में घनी आबादी बसाहट के अंदर से बने सड़क मार्ग को आम जीवन सुरक्षा की दृष्टि, यातायात व्यवस्था हेतु पहुंच मार्ग बनाने हेतु प्रस्तावित स्थल का शीघ्र अर्जन किया जाना आवश्यक हो गया है तथा इस मुख्य मार्ग के अन्य स्थानों का निर्माण भी पूर्ण हो चुका है। अतः अनुसूची में दर्शाये जा रहे प्रस्तावित प्रकरणों में भू-अर्जन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा भू-अर्जन संबंधी जारी अध्यादेश में निहित व्यवस्था तथा राज्य शासन के अधिकृत क्षमता अनुसार प्रकरणों में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किया जाता हैः—

अनुसूची

प्रकरणों का विवरण इस प्रकार हैः—

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि रक्कबा (हे.मे.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कटनी	रीठी	रीठी, प.ह.नं. 23, नं.बं. 355.	7.382	दगोह-कटनी राजमार्ग क्र. 14 में घनी आबादी से बाहर पहुंच मार्ग निर्माण हेतु।
कटनी	रीठी	मामर, प.ह.नं. 24, नं.बं. 317	0.931	
कटनी	रीठी	धनियां, प.ह.नं. 24, नं.बं. 114.	4.614	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

कटनी, दिनांक 24 फरवरी 2015

क्र. अ-82-भू.अ.-ब.व्यप.-2014-15.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15 (1)-2014-सात-शा.2-A, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित किया गया है, के द्वारा जिले के कलेक्टरों को समुचित सरकार माना गया है तथा भू-अर्जन प्रकरणों में 10,000 हे. (दस हजार हे.) से कम प्रकरणों में जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित हैं, में निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश जो कि भारत का राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है। अध्यादेश में नया अध्याय IIIA लागू किया गया है जिसके अंतर्गत धारा 10 (A) के अनुसार समुचित सरकार (जो कि अधिनियम की धारा 3 (e) के अनुसार राज्य शासन है) को यह अधिकार दिया गया है कि वह उल्लेखित परियोजनाओं में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानों से विमुक्त कर सकती है।

कटनी जिले में बरगी व्यपवर्तन परियोजना शासन की वृहद सिंचाई परियोजना है जिसके दायी तट मुख्य नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण होकर उसकी शाखा, उपशाखा नहरों का निर्माण अपूर्ण होने से अनुसूची में दर्शये जा रहे प्रस्तावित प्रकरणों में भू-अर्जन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा भू-अर्जन संबंधी जारी अध्यादेश में निहित व्यवस्था तथा राज्य शासन से अधिकृत क्षमता अनुसार प्रकरणों में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किया जाता है:—

अनुसूची

प्रकरणों का विवरण इस प्रकार है:—

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि रक्कबा (हे.मै.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कटनी	कटनी	टिकरवारा, उप नं.बं. प.ह.नं. 159,	1.05	बरगी व्यपवर्तन परि. के. अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की पठरा माइनर नं. 1 के निर्माण हेतु।
कटनी	कटनी	पठरा, प.ह.नं. 34, नं.बं. 207.	1.88	पठरा माइनर नं. 2
कटनी	कटनी	पूंछी, प.ह.नं. 34, नं.बं. 34.	0.450	जोबीकला माइनर
कटनी	कटनी	जोबीखुर्द, प.ह.नं. 36, नं.बं. 149	2.66 हे.	सलैया मेरहाई माइनर की जोबीकला सब माइनर।
कटनी	कटनी	कछगवां प.ह.नं. 35, नं.बं. 48.	0.99	कछगवां माइनर
कटनी	कटनी	बिस्तरा, प.ह.नं. 35, नं.बं. 283.	0.06 हे. 2.81 हे. <u>2.87 हे.</u>	बिस्तरा माइनर नं. 1 एवं विस्तर माइनर नं. 2.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कटनी	विजय रा.गढ़	सलैया मेरहाई, प.ह.नं. 02, नं.बं. 122.	1.45	सलैया मेरहाई माइनर
कटनी	कटनी	मझगांव प.ह.नं. 36, नं.बं. 326.	1.07 हे. 2.81 हे. <u>3.88 हे.</u>	सलैया मेरहाई माइनर
कटनी	विजय रा.गढ़	जिजनोड़ी प.ह.नं. 07, नं.बं. 49.	9.34 हे.	जिजनोड़ी वितरक नहर
कटनी	विजय रा.गढ़	जिजनोड़ी प.ह.नं. 07, नं.बं. 49.	1.94 हे.	जिजनोड़ी माइनर नं. 1
कटनी	कटनी	करहिया प.ह.नं. 34, नं.बं. 384.	4.74 हे.	पठरा माइनर क्र. 2 एवं करहिया माइनर
कटनी	कटनी	जोबा प.ह.नं. 35, नं.बं. 147.	2.59 हे.	सलैया मेरहाई माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है।

क्र. अ-82-भू.अ.-ब.व्यप.-2014-15.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15 (1)-2014-सात-शा.2-A, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित किया गया है, के द्वारा जिले के कलेक्टरों को समुचित सरकार माना गया है तथा भू-अर्जन प्रकरणों में 10,000 हे. (दस हजार हे.) से कम प्रकरणों में जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित है, में निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है।

भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश जो कि भारत का राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है। अध्यादेश में नया अध्याय IIIA लागू किया गया है जिसके अंतर्गत धारा 10 (A) के अनुसार समुचित सरकार (जो कि अधिनियम की धारा 3 (e) के अनुसार राज्य शासन है) को यह अधिकार दिया गया है कि वह उल्लेखित परियोजनाओं में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानों से विमुक्त कर सकती है।

कटनी जिले में बरगी व्यपवर्तन परियोजना शासन की वृहद सिंचाई परियोजना है जिसके दायी तट मुख्य नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण होकर उसकी शाखा, उपशाखा नहरों का निर्माण अपूर्ण होने से अनुसूची में दर्शाये जा रहे प्रस्तावित प्रकरणों में भू-अर्जन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा भू-अर्जन संबंधी जारी अध्यादेश में निहित व्यवस्था तथा राज्य शासन से अधिकृत क्षमता अनुसार प्रकरणों में

भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किया जाता है:—

अनुसूची

प्रकरणों का विवरण इस प्रकार है:—

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि रकबा (हे.मै.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कटनी	विजयराघवगढ़	हरदुवाखुर्द, प.ह.नं. 01 नं. बं. 134.	3.51 हे.	बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की हरदुआकला माइनर निर्माण हेतु.
कटनी	विजयराघवगढ़	पड़खुरी, प.ह.नं. 01 नं. बं. 80.	1.58 हे.	हरदुवाकला सब माइनर
कटनी	विजयराघवगढ़	पड़खुरी, प.ह.नं. 01 नं. बं. 80.	2.49 हे.	सलैया मेरहाई माइनर
कटनी	विजयराघवगढ़	पड़खुरी, प.ह.नं. 01 नं. बं. 80.	6.77 हे.	हरदुवाकला माइनर
कटनी	विजयराघवगढ़	हरदुवाकला प.ह.नं. 01 नं. बं. 135.	3.59 हे.	हरदुवाकला माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.

कटनी, दिनांक 17 मार्च 2015

क्र. अ-82-भू.अ.-ब.व्यप.-2014-15.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-16-15 (1)-2014-सात-शा.2-A, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित किया गया है, के द्वारा जिले के कलेक्टरों को समुचित सरकार माना गया है तथा भू-अर्जन प्रकरणों में 10,000 हे. (दस हजार हे.) से कम के प्रकरणों में जो सार्वजनिक प्रयोजन से संबंधित है, में निर्णय हेतु अधिकृत किया गया है.

भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश जो कि भारत का राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 को जारी किया गया है. अध्यादेश में नया अध्याय IIIA लागू किया गया है जिसके अंतर्गत धारा 10 (A) के अनुसार समुचित सरकार (जो कि अधिनियम की धारा 3 (e) के अनुसार राज्य शासन है) को यह अधिकार दिया गया है कि वह उल्लेखित परियोजनाओं में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त कर सकती है.

कटनी जिले में बरगी व्यपवर्तन परियोजना शासन की वृहद सिंचाई परियोजना है जिसके दायी तट मुख्य नहरों का निर्माण कार्य पूर्ण होकर उसकी शाखा, उपशाखा नहरों का निर्माण अपूर्ण होने से अनुसूची में दर्शाये जा रहे प्रस्तावित प्रकरणों में भू-अर्जन कार्यवाही हेतु भारत सरकार द्वारा भू-अर्जन संबंधी जारी अध्यादेश में निहित व्यवस्था तथा राज्य शासन से अधिकृत क्षमता अनुसार प्रकरणों में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III के प्रावधानिक कार्यवाही से विमुक्त किया जाता है:—

अनुसूची

प्रकरणों का विवरण इस प्रकार है:—

जिला	तहसील	ग्राम	निजी भूमि रकबा (हे.मै.)	सार्वजनिक प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कटनी	विजयराघवगढ़	पड़खुरी, प.ह.नं. 01 नं. बं. 80.	5.87 हे.	बरगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत विजयराघवगढ़ शाखा नहर की हरदुआकला सब माइनर निर्माण हेतु.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कटनी	विजयराघवगढ़	गौरहा, प.ह.नं. 07 नं. बं. 545.	6.11 हे.	गौरहा माइनर नं. 2.
कटनी	कटनी	जोबीकला प.ह.नं. 35 नं. बं. 148.	4.68 हे.	जोबीकला माइनर
कटनी	कटनी	जोबीकला प.ह.नं. 35 नं. बं. 148.	3.19 हे.	जोबीकला सब माइ. 1
कटनी	कटनी	जोबीकला प.ह.नं. 35 नं. बं. 148.	2.90 हे.	जोबीकला सब माय. 2

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास सिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उप-सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 मार्च 2015

रा.प्र. क्र. 01-अ-82-2014-2015-भू-अर्जन-2015-2116, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी “आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति” (Consent Land Purchase Policy) के अन्तर्गत सीतांशिर जलाशय के एफ.टी.एल. लाईन पर आने वाली अतिरिक्त ढूब क्षेत्र की निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु म.प्र. शासन, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है। उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से संबंधित कृषकों को प्रारूप क में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप ख में सहमति ले ली गई है।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में सीतांशिर जलाशय के एफ.टी.एल. लाईन पर आने वाली अतिरिक्त ढूब क्षेत्र की निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अनुसूची

भूमि का वर्णन:—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता	खसरा नम्बर	क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
छिन्दवाड़ा	चौरई	ग्राम-हरदुआमाल ब.न.-303 प.ह.न.-29 रा.नि.मं.-चौरई.	1. रामजी पिता मेहतर गोड नि.ग्रा. भूमि स्वामी हरदुआमाल. 2. कोमल पिता कल्लू सिंह नि.ग्रा. भूमि स्वामी हरदुआमाल.	186/2 क 223/2 क 92/2 93/2 193/1 क 217/1 क	0.250 सिंचित 0.080 सिंचित 0.200 सिंचित	सीतांशिर जलाशय के एफ.टी.एल. लाईन पर आने वाली अतिरिक्त ढूब क्षेत्र की निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	अजमेर सिंह	पिता कल्लू सिंह	193/3 क नि.ग्रा. भूमि स्वामी	217/3 क	0.050 सिंचित	
4.	भरत सिंह पिता	मोहन सिंह रघुवंशी	194/2 क नि.ग्रा. भूमि स्वामी	195/3 क	0.453 सिंचित/असिंचित	
5.	मुनीबाई बेवा	मोहन सिंह, नि.ग्रा	भूमि स्वामी	195/2 क	1.064 सिंचित/असिंचित	
6.	प्रीतम सिंह पिता	जगतराम रघुवंशी	200/2 क नि.ग्रा. भूमि स्वामी	201/2 क 202/2 क 203/2 क	0.100 सिंचित	
7.	रिक्खीराम, सुखराम	पिता सहतर, सुमरवती, अमरवती	205/1 गंगोत्री पिता सहतर गोड नि.ग्रा. भूमि	207/1 208/1	0.408 असिंचित 0.351 असिंचित	<u>0.759 हे.</u>
8.	कमलाबाई पति	स्व. श्री देवीसिंह, ज्ञानसिंह, ज्ञानलाल	पिता देवीसिंह, राधा गोदावरी	191/5 क	0.088 असिंचित	
		ज्ञानाबाई, विरजाबाई	पिता शोभे गोड			
		पिता देवीसिंह,	नि.ग्रा भूमि स्वामी			
		राधा गोदावरी				
		पिता शोभे गोड				
		नि.ग्रा भूमि स्वामी				
		हरदुआमाल				
			कुल योग .	<u>03.044</u>		

2. उपरोक्त अनुसची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भूभाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में प्रस्तुत की सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

राज्य शासन के आदेश
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2015

क्रमांक F-२३-३/१५/सा./१९ मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 (1) के निबंधनों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निम्न अनुसूची के खण्ड-अ में वर्णित राज्य राजमार्ग के लिए खण्ड-ब में अंकित भूमि विवरण के अनुरूप भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा की अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित है :-

I)

खण्ड-“अ”

अ.क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले
1	खण्डवा-बड़वानी मार्ग (राजमार्ग क्र.-26)	52.80	बड़वानी

खण्ड -“ब”

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
बड़वानी	राजपुर	बोबलवाड़ी	71, 70, 69, 68, 67, 66, 61, 79, 78, 77, 75, 64/2, 64/1, 63/2, 63/1, 61, 60, 54, 53/2, 53/1, 50, 32, 33, 31, 27/1, 27/2, 13, 15, 57, 24, 25, 22, 17	71, 70, 69, 68, 67, 66, 61, 79, 78, 77, 75, 64/2, 64/1, 63/2, 63/1, 61, 60, 54, 54/3, 54/4, 53/2, 53/1, 50, 32, 33, 31, 27/1, 27/2, 13, 15, 57, 24, 25, 22, 19/3, 19/1/2
बड़वानी	राजपुर	कादवी	98, 97, 191, 93/4, 93/3, 93/2, 92/8, 92/7, 92/6, 92/5, 91/2/2, 91/3, 88/6, 88/2, 91/7, 88/9, 91/8, 80/10, 91/2/3, 91/4, 91/2/1, 88/3/2, 77/5, 77/4, 78, 74/3	98, 97, 191, 93/4, 93/3, 93/2, 92/8, 92/7, 92/6, 92/5, 92/4, 91/2/2, 91/3, 88/6, 88/2, 91/7, 88/9, 91/8, 80/10, 91/2/3, 91/4, 91/2/1, 88/3/2, 77/5, 77/4, 78, 74/2, 74/3
बड़वानी	राजपुर	रुई	277/1, 224, 216, 225, 229/4, 229/3, 229/2, 229/1/2, 229/1/1, 195/3, 195/2, 192/3, 192/2, 192/1, 161, 148/5, 149/2, 149/1, 142, 220, 219/2, 217/3, 198/6, 198/5, 198/4, 198/3, 198/2, 198/1, 199, 158, 97, 96/2, 96/1, 95/3, 95/2, 95/1, 92, 87, 88, 70, 77, 85, 84, 77, 85, 84	277/1, 276/1, 224, 216, 225, 229/4, 229/3, 229/2, 229/1/2, 229/1/1, 195/3, 195/2, 192/3, 192/2, 192/1, 161, 148/5, 149/2, 142, 220, 219/2, 198/6, 198/5, 198/4, 198/3, 198/2, 198/1, 199, 158, 97, 96/2, 96/1, 95/3, 95/2, 95/1, 92, 87, 88, 70, 77, 85, 84, 149/3, 149/4, 99/3, 219/1, 217/1
बड़वानी	राजपुर	भुलगांव	120/6, 119, 118, 111, 106/1, 59, 60/3, 60/2, 60/1, 19, 18, 17	120/6, 119, 118, 111, 106/1, 59, 60/3, 60/2, 60/1, 19, 18, 17, 66/3
बड़वानी	राजपुर	जुलवानिया	30, 29, 84, 217/3, 217/1, 90/4, 90/3, 90/2, 90/1, 87, 88, 211, 213/2, 213/1	30, 29, 84, 217/3, 217/1, 90/4, 90/3, 90/2, 90/1, 87, 88, 211, 213/2, 213/1
बड़वानी	राजपुर	रनगांवबुजुर्ग	234, 117, 116/1, 118, 133, 134/1, 135/1, 135/1, 227/1, 218, 215, 214/1, 196/2, 160/5, 160/1, 163/1, 166, 169	234, 117, 116/1, 118, 133, 134/1, 135/1, 227/1, 218, 215, 214/1, 196/2, 140, 196, 160/5, 160/1, 163/1, 166, 168, 169, 125, 194
बड़वानी	राजपुर	गोडपुरा	61, 66/1, 68/1, 68/2, 68/3	61, 66/1, 68/1, 68/2, 68/3
बड़वानी	राजपुर	सालखेड़ा	11, 12, 13, 17, 19, 25, 28, 36, 65, 66/1, 63, 52, 44/1, 38	11, 12, 13, 17, 19, 25, 28, 31/1, 35/1, 36, 65, 66/1, 63, 52, 44/1, 38
बड़वानी	राजपुर	ऊंची	72/2, 73/1, 86, 84/1, 84/2, 83/4, 83/7, 89/3, 89/4, 89/1, 93/1, 93/2, 93/3, 95/2, 95/1	72/2, 73/1, 86, 84/1, 84/2, 83/4, 83/7, 89/3, 89/4, 89/1, 93/1, 93/2, 93/3, 95/2, 95/1
बड़वानी	राजपुर	राजपुर	232, 230, 228, 213, 214, 200, 251, 236, 252, 253, 261/4, 263,	232, 230, 228, 213, 214, 200, 251, 236, 252, 253, 261/4, 263, 292, 294,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
		कस्बा	292, 294, 4, 5, 413	4, 5, 413
बड़वानी	राजपुर	टेमला बुजुर्ग	106, 107, 108, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 12, 11, 4, 3, 136, 130, 129, 128, 127, 7, 8, 9	106, 107, 108, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 12, 11, 4, 3, 136, 130, 129, 128, 127, 7, 8, 9
बड़वानी	अंजड़	उमरिया	32, 30, 33, 28, 25, 24, 23, 22, 36, 35, 40, 42, 43, 52, 55, 21, 20, 17, 15, 54, 12	32, 30, 33, 28, 25, 24, 23, 22, 36, 35, 40, 42, 43, 52, 55, 21, 20, 17, 15, 54, 12
बड़वानी	अंजड़	भमोरी	212, 211, 210, 198, 216, 215, 217, 219, 190, 191, 192, 196, 197, 185	212, 211, 210, 198, 216, 215, 217, 219, 190, 191, 192, 196, 197, 185
बड़वानी	अंजड़	बिलवा रोड़	74, 73, 72, 68, 67, 65, 38, 37, 36, 35, 34, 8, 7, 5	74, 73, 72, 68, 67, 65, 38, 37, 36, 35, 34, 8, 7, 5
बड़वानी	अंजड़	सज्जवाय	8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 10	8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 10
बड़वानी	अंजड़	पलास्या	11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 23, 22, 19, 17, 16	11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 23, 22, 19, 17, 16
बड़वानी	अंजड़	अंजड़(कस्बा)	277/1, 310, 312, 245/1, 246/1, 248/1, 260, 74, 70, 75, 76, 77, 85/1क, 85/1छ, 87, 88/1, 88/2, 62/4, 62/1, 61, 45	277/1, 310, 312, 245/1, 246/1, 248/1, 260, 259/1, 74, 70, 75, 76, 77, 85/1क, 85/1छ, 87, 88/1, 88/2, 89, 253/1, 253/2, 254/2, 67/2, 65/1, 66/1, 62/4, 62/1, 61, 46, 45, 273, 488, 486, 280
बड़वानी	बड़वानी	बोरलाय	165, 172/2, 147/7, 127/4, 140/4, 140/2, 141/3, 141/2, 141/1, 145/2, 144, 147/3, 184/1, 295/1, 23, 22, 303, 63, 62, 61, 57, 56, 55, 37, 26, 25, 12, 11	165, 172/2, 158/1, 158/3, 158/4, 147/7, 127/4, 135/2, 140/4, 140/2, 141/3, 141/2, 141/1, 145/2, 144, 147/3, 184/1, 295/1, 23, 22, 303, 63, 62, 61, 57, 56, 55, 37, 26, 25, 12, 11, 147/4, 147/5, 147/6, 136, 301/1+301/3
बड़वानी	बड़वानी	तलौन बुजुर्ग	75, 76, 77, 78, 79, 80, 81	75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
बड़वानी	बड़वानी	तलुन खुदू	45, 46, 51, 41, 29, 27, 26, 21	45, 46, 51, 41, 29, 27, 26, 21, 50
बड़वानी	बड़वानी	करी	100/1, 99, 98, 97, 96, 31, 8, 102, 33, 6/1, 6/2	100/1, 99, 98, 97, 96, 31, 8, 102, 33, 6/1, 6/2
बड़वानी	बड़वानी	सेगावा	59/2, 60/2, 61/5, 61/6, 65, 66/2, 68/1, 71, 72/2, 72/1, 73, 74, 105	59/2, 60/2, 61/5, 61/6, 65, 66/2, 68/1, 71, 72/2, 72/1, 73, 74, 105

II)

"खण्ड-अ"

अ. क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले
1	राऊ-महू-मण्डलेश्वर मार्ग (राज्य राजमार्ग क्र.-01)	69.662	इन्दौर-खरगौन

"खण्ड-‘ब’"

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
इन्दौर	महू	पिंगड़म्बर	481, 212, 230/1/2, 230/2, 231, 480/1, 480/2, 479/1, 479/2, 478/1, 478/2, 472/1, 472/2,	481, 212, 230/1/2, 230/2, 231, 480/1, 480/2, 479/1, 479/2, 478/1, 478/2, 472/1, 472/2, 229, 228, 230/1/1, 227, 477
इन्दौर	महू	उमरिया	159, 53/3, 53/2, 53/1/2, 53/1/3, 53/1/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/1, 56/2, 57/5, 57/4, 57/1, 62/1, 62/2, 63/1, 64, 66, 67, 108, 68, 114, 115, 116,	159, 53/3, 53/2, 53/1/2, 53/1/3, 53/1/1, 55/2, 55/3, 55/4, 56/1, 56/2, 57/5, 57/4, 57/1, 62/1, 62/2, 63/1, 64, 66, 67, 108, 68, 114, 115, 116, 117/1, 140, 139, 141/1,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
			117/1, 140, 139, 141/1, 141/2, 143, 144, 156/2, 157/1/1, 157/1/2, 158/1, 158/2, 160/1, 160/2, 161, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 173, 174, 175/1, 175/2, 176/9, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 182/1, 182/2, 182/3, 184, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187/1, 187/2, 182/2, 182/3, 184, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187/1, 187/2, 116, 219/1, 219/2, 219/3, 220/1, 220/2, 221/1, 221/2, 108, 244, 245/1, 245/2, 245/3, 245/4, 245/5, 245/6, 246, 247/1, 247/2, 281/1, 281/2, 79, 80, 154, 173/3, 173/4, 177, 176/3, 176/4, 176/7, 176/8, 179/3, 181, 185, 218, 243/1, 248/1, 282, 172/1, 172/2, 172/3, 176/1, 176/2, 176/5, 176/6, 281/3, 281/4, 281/5, 281/7, 285/1क, 285/1ख, 285/1ग, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6क, 285/6ख, 285/6ग, 285/7, 285/2/2, 282/2/3, 285/2/4, 286/1, 286/2	141/2, 143, 144, 156/2, 157/1/1, 157/1/2, 158/1, 158/2, 160/1, 160/2, 161, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 173, 174, 175/1, 175/2, 176/9, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 182/1, 182/2, 182/3, 184, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187/1, 187/2, 116, 219/1, 219/2, 219/3, 220/1, 220/2, 221/1, 221/2, 108, 244, 245/1, 245/2, 245/3, 245/4, 245/5, 245/6, 246, 247/1, 247/2, 281/1, 281/2, 79, 80, 154, 173/3, 173/4, 177, 176/3, 176/4, 176/7, 176/8, 179/3, 181, 185, 218, 243/1, 248/1, 282, 172/1, 172/2, 172/3, 176/1, 176/2, 176/5, 176/6, 281/3, 281/4, 281/5, 281/7, 285/1क, 285/1ख, 285/1ग, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6क, 285/6ख, 285/6ग, 285/7, 285/2/2, 282/2/3, 285/2/4, 286/1, 286/2
इन्दौर	महू	हरनिया खेडी	125, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 129/5, 119, 126, 127, 128, 118/1, 118/2, 118/3, 116, 115/1, 115/2, 115/3, 1/11, 113/2, 113/1/2, 108, 171, 172, 170/1, 170/2, 168/1, 168/2, 167/1, 167/2, 135/1, 135/2, 164, 134/1, 134/2, 132/1, 132/2, 130/1, 130/2, 129/1, 129/2, 124/6/1, 124/6/2	125, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 129/5, 119, 126, 127, 128, 118/1, 118/2, 118/3, 116, 115/1, 115/2, 115/3, 1/11, 113/2, 113/1/2, 108, 171, 172, 170/1, 170/2, 168/1, 168/2, 167/1, 167/2, 135/1, 135/2, 164, 134/1, 134/2, 132/1, 132/2, 130/1, 130/2, 129/1, 129/2, 124/6/1, 124/6/2, 115/4, 1/10, 124/7, 124/8
इन्दौर	महू	सातेर	66, 65/4, 67, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57/1, 57/2, 50/1, 50/2, 49, 44, 45, 43, 41, 39, 33, 34, 33, 34, 38, 35, 31/1, 69/2, 69/1, 68/1, 68/2, 73/10, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1/1, 74/2, 75/1/1, 75/1/2, 75/2, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 93/1, 93/2, 96/3, 96/2, 96/1/1, 102, 103, 104, 105/3/1, 166, 164, 164, 163	66, 65/4, 67, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57/1, 57/2, 50/1, 50/2, 49, 44, 45, 43, 41, 39, 33, 34, 38, 35, 31/1, 69/2, 69/1, 68/1, 68/2, 73/10, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1/1, 74/2, 75/1/1, 75/1/2, 75/2, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 93/1, 93/2, 96/3, 96/2, 96/1/1, 102, 103, 104, 105/3/1, 166, 164, 163, 56, 52, 51/1/3, 51/2, 40, 32, 36, 37, 31/4, 96/1, 101/1/2, 106, 167, 157/1
इन्दौर	महू	डोगरगांव	260, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 42, 43, 44, 45, 46, 135, 205, 203, 204, 147, 146, 141, 139, 137, 136, 124, 126, 134, 127, 133, 49, 48, 47, 50, 40, 41	260, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 42, 43, 44, 45, 46, 135, 205, 203, 204, 147, 146, 141, 139, 137, 136, 124, 126, 134, 127, 133, 49, 48, 47, 50, 40, 41, 207, 214, 138, 125, 37, 39/3
इन्दौर	महू	गवली पलासिया	802, 805, 804, 803, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 813/10, 813/11, 831, 832, 833, 834, 835, 836/4, 836/2, 836/3, 839/4, 839/5, 839/6, 761, 759/1, 759/2, 758, 757/1, 757/2, 757/3, 756, 755, 750, 749/2, 753/2, 754, 713/3, 713/4, 713/5, 712, 711, 710/3, 709, 703, 702, 701, 700, 60/2, 60/3, 83, 84/2, 84/3, 84/2, 84/3, 1033, 1032, 919, 918, 917, 916, 915, 914, 913, 921, 912, 910, 881, 880, 879/1, 917, 916, 915, 914, 913, 921, 914, 913, 921, 912, 912	802, 805, 804, 803, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 813/10, 813/11, 831, 832, 833, 834, 835, 836/4, 836/2, 836/3, 839/4, 839/12, 841, 740, 839/5, 839/6, 761, 759/1, 759/2, 758, 757/1, 757/2, 757/3, 756, 755, 750, 749/2, 753/2, 754, 713/3, 713/4, 713/5, 712, 711, 710/3, 709, 703, 702, 701, 700, 60/2, 60/3, 83, 84/2, 84/3, 879/2, 859, 844, 843, 842, 699, 695, 691,

जिला	तहसील	ग्राम	मवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
			910, 881, 880, 879/1, 879/2, 859, 844, 843, 842, 699, 695, 691, 690, 689, 688, 687686, 675, 676, 677, 678/2, 679/1, 670/1, 670/2, 671/1, 671/2, 672/1, 672/2, 571, 570, 558/1, 569, 568, 573/2, 573/1, 574, 575, 587, 588/1, 579, 592/1, 592/2, 603/1, 602, 603/2, 604, 605, 606/1, 606/2, 606/3, 514/1, 514/2, 512, 511, 509, 319, 501/1, 501/2, 501/3/1, 501/3/2, 501/3/3, 499, 497, 487/1, 486, 485/1, 485/2, 485/3, 484/1, 1011, 488, 496, 495/1, 513/1, 513/2, 513/3, 614, 613, 590, 591, 589/3, 588/2, 588/3, 586, 1108, 1107, 1106, 1118, 1119, 1121, 1122, 1131, 1123, 1132, 1127, 1179, 1180/2, 1182, 1188, 1199/2, 1199/1, 1198, 1197, 1344/4, 13/1, 13/2, 13/3, 1320, 1324/1, 1325/1, 1325/2, 1343, 1342, 1341, 1326, 1327/1, 1305, 1306, 1310, 1282/1, 1280, 1279, 1278, 1202, 1203/2, 1207, 1208, 1213, 1214/1, 1215, 1235, 1216/1, 1216/2, 1127, 1152, 1129, 1130, 1124, 806/1, 836/1, 839/9, 839/10, 839/11, 839/7, 760/1, 760/2, 753/1, 713/1, 713/2, 710/2, 704, 60/1, 860, 697, 696, 693, 692, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 685, 678/1, 679/2, 558/2, 601/2, 515, 484/2, 484/3, 489/5, 489/4/2, 489/4/1, 490, 495/2, 610/1, 1109, 1183/3, 1183/4, 1314, 1315, 1324/2, 1303/3, 1309, 1282/2, 1281/1, 1209/1, 1212, 1128, 1125	690, 689, 688, 687, 686, 675, 676, 677, 678/2, 679/1, 670/1, 670/2, 671/1, 671/2, 672/1, 672/2, 571, 570, 558/1, 569, 568, 573/2, 573/1, 574, 575, 587, 588/1, 579, 592/1, 592/2, 603/1, 602, 603/2, 604, 605, 606/1, 606/2, 606/3, 514/1, 514/2, 512, 511, 509, 319, 501/1, 501/2, 501/3/1, 501/3/2, 501/3/3, 499, 497, 487/1, 486, 485/1, 485/2, 485/3, 484/1, 1011, 488, 496, 495/1, 513/1, 513/2, 513/3, 614, 613, 590, 591, 589/3, 588/2, 588/3, 586, 1108, 1107, 1106, 1118, 1119, 1121, 1122, 1131, 1123, 1132, 1127, 1179, 1180/2, 1182, 1188, 1199/2, 1199/1, 1198, 1197, 1344/4, 13/1, 13/2, 13/3, 1320, 1324/1, 1325/1, 1325/2, 1343, 1342, 1341, 1326, 1327/1, 1305, 1306, 1310, 1282/1, 1280, 1279, 1278, 1202, 1203/2, 1207, 1208, 1213, 1214/1, 1215, 1235, 1216/1, 1216/2, 1127, 1152, 1129, 1130, 1124, 806/1, 836/1, 839/9, 839/10, 839/11, 839/7, 760/1, 760/2, 753/1, 713/1, 713/2, 710/2, 704, 60/1, 860, 697, 696, 693, 692, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 685, 678/1, 679/2, 558/2, 601/2, 515, 484/2, 484/3, 489/5, 489/4/2, 489/4/1, 490, 495/2, 610/1, 1109, 1183/3, 1183/4, 1314, 1315, 1324/2, 1303/3, 1309, 1282/2, 1281/1, 1209/1, 1212, 1128, 1125
इन्दौर	महू	गांगलिया खेडी	198, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 201, 202, 203, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 216, 217	198, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 201, 202, , 203, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 216, 217, 197, 214, 219, 223
इन्दौर	महू	आशापुरा	27, 31, 33, 8, 97, 96, 95, 83, 81, 34, 35, 37, 39, 70, 41, 41/173, 43, 40, 42, 45, 78, 40, 69, 80	27, 31, 33, 8, 97, 96, 95, 83, 81, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41/173, 43, 40, 42, 45, 78, 40, 69, 80, 85
इन्दौर	महू	बड़गाँवा	272/2, 272/1, 286/2, 286/3, 285/782/1/2, 285/782/2/3, 283/2, 273/1, 273/2, 273/3, 281/1, 281/4, 233/3, 233/1/1, 232/1, 234, 231/2, 231/1, 230/2, 409/1/1, 408/1/2, 410/1/1, 411, 410/2, 424, 423, 430/2, 431, 432/1, 432/2, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 430/1, 431/2, 431/3, 431/4, 431/5, 406, 407, 317/2, 316/1, 315, 314/1, 408, 314/2, 313/1, 313/3, 300/1, 299, 298/2, 298/1, 297/2, 283/1, 285, 285/782/2, 649, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 592, 593, 594, 590, 591, 589, 588, 586, 582, 581/1, 574, 572, 565/1, 565/2, 564/1, 564/2, 722/6, 722/4, 722/3, 722/1, 716,	272/2, 272/1, 286/2, 286/3, 285/782/1/2, 285/782/2/3, 283/2, 273/1, 273/2, 273/3, 281/1, 281/4, 233/3, 233/1/1, 232/1, 234, 231/2, 231/1, 230/2, 409/1/1, 408/1/2, 410/1/1, 411, 410/2, 424, 423, 430/2, 431, 432/1, 432/2, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 430/1, 431/2, 431/3, 431/4, 431/5, 406, 407, 317/2, 316/1, 315, 314/1, 408, 314/2, 313/1, 313/3, 300/1, 299, 298/2, 298/1, 297/2, 283/1, 285, 285/782/2, 649, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 592, 593, 594, 590, 591, 589, 588, 586, 582, 581/1, 574, 572, 565/1, 565/2, 564/1, 564/2, 722/6, 722/4, 722/3, 722/1, 716,

जिला	तहसील	ग्राम	मवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
			590, 591, 589, 588, 586, 582, 581/1, 574, 572, 565/1, 565/2, 564/1, 564/2, 722/6, 722/4, 722/3, 722/1, 716, 717/1, 715, 714/1, 672, 671/1, 673, 670, 668, 667, 675, 739/788, 676, 772, 677, 771, 641, 741, 773, 684/1, 683, 419/1, 724, 725/1/1, 725/1/2, 725/2/1, 700, 725/2/2, 725/3/1, 725/4, 726, 730/2, 730/1, 731/2, 731/3, 740, 731/1, 739, 739/787	717/1, 715, 714/1, 672, 671/1, 673, 670, 668, 667, 675, 739/788, 676, 772, 677, 771, 641, 741, 773, 684/1, 683, 419/1, 724, 725/1/1, 725/1/2, 725/2/1, 700, 725/2/2, 725/3/1, 725/4, 726, 730/2, 730/1, 731/2, 731/3, 740, 731/1, 739, 739/787, 285/7, 82/1/1, 438, 297/5, 297/1, 284/7, 81/3, 653, 654, 655, 603, 582, 583, 584, 578, 577, 576, 575, 287/7
इन्दौर	महू	तिन्छा	1, 54, 135/1, 139/1, 140/1, 140/2, 141, 142, 144/4, 144/5, 151, 152, 153, 155/2, 156/1/1, 156/1/2, 163, 138	1, 54, 135/1, 139/1, 140/1, 140/2, 141, 142, 144/4, 144/5, 151, 152, 153, 155/2, 156/1/1, 156/1/2, 163, 138, 136/1, 136/2, 139/2, 156/2, 144/3
इन्दौर	महू	तेलनबड़ी	18/1, 15/2, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 20, 16/68, 39/64, 40, 41/3, 45, 46/71	18/1, 15/2, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 20, 16/68, 39/64, 40, 41/3, 45, 46/71, 41/1
इन्दौर	महू	मेण	319/1, 150/359/2, 318, 150/1/1, 150/1/2/1, 286, 280/2/1, 280/3, 280/4, 280/2/2, 270, 285/5, 282, 281, 252, 253, 254, 255, 268, 251, 261, 147, 243, 145, 146, 211/12, 211/11, 141/1, 211/4, 211/7, 211/6, 211/1/2, 211/8, 209/6, 209/1/1, 210, 209/1/2, 208, 207, 206, 199/2, 199/1, 189/1, 189/2, 287, 271, 284, 267, 211/5, 209/7, 209/5, 193	319/1, 150/359/2, 318, 150/1/1, 150/1/2/1, 286, 280/2/1, 280/3, 280/4, 280/2/2, 270, 285/5, 282, 281, 252, 253, 254, 255, 268, 251, 261, 147, 243, 145, 146, 211/12, 211/11, 141/1, 211/4, 211/7, 211/6, 211/1/2, 211/8, 209/6, 209/1/1, 210, 209/1/2, 208, 207, 206, 199/2, 199/1, 189/1, 189/2, 287, 271, 284, 267, 211/5, 209/7, 209/5, 193
इन्दौर	महू	मेण मजरा	91/125, 91/108, 91/107/1, 91/107/6, 91/2/3, 91/2/2	91/125, 91/108, 91/107/1, 91/107/6, 91/2/3, 91/2/2
इन्दौर	महू	कदवाली	21/176, 21, 22, 23, 24, 25, 54, 52, 53/2, 55, 56, 60, 53/1, 67, 68, 70/1, 70/2, 82, 80, 77, 76/1, 75/2, 74, 94/1, 95, 93/1, 93/2, 150, 149, 148, 153, 155/1, 147, 146, 145, 129, 133/2, 128, 127/1, 127/2, 127/3, 126/2, 125, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 99, 101/5, 98/3, 96, 73/1, 73/2, 27/3, 26/1, 26/2, 64/1, 64/2, 57, 58, 65, 50/4, 71, 81/3, 79/1, 76/2, 75/3, 75/4, 94/2, 144, 132, 126/1, 123, 100, 98/2, 97	21/176, 21, 22, 23, 24, 25, 54, 52, 53/2, 55, 56, 60, 53/1, 67, 68, 70/1, 70/2, 82, 80, 77, 76/1, 75/2, 74, 94/1, 95, 93/1, 93/2, 150, 149, 148, 153, 155/1, 147, 146, 145, 129, 133/2, 128, 127/1, 127/2, 127/3, 126/2, 125, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 99, 101/5, 98/3, 96, 73/1, 73/2, 27/3, 26/1, 26/2, 64/1, 64/2, 57, 58, 65, 50/4, 71, 81/3, 79/1, 76/2, 75/3, 75/4, 94/2, 144, 132, 126/1, 123, 100, 98/2, 97
इन्दौर	महू	माथोपुरा	2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4/1, 4/2, 4/3, 1, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,	2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4/1, 4/2, 4/3, 1, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5/3, 22
इन्दौर	महू	जामखुर्द	1, 2, 7, 21, 22, 20, 18, 17, 24, 8, 16, 15, 51, 53, 52, 64, 63, 62, 54, 55, 56, 57, 46, 58, 59, 46, 72, 86, 87, 88, 117, 44, 178, 179, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 167, 166, 158, 157, 155, 154, 156, 153, 152, 151, 150, 239, 246, 248, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 146, 147, 148, 134,	1, 2, 7, 21, 22, 20, 18, 17, 24, 8, 16, 15, 51, 53, 52, 64, 63, 62, 54, 55, 56, 57, 46, 72, 86, 87, 88, 117, 44, 178, 179, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 167, 166, 158, 157, 155, 154, 156, 153, 152, 151, 150, 239, 246, 248, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 146, 147, 148, 134, 135, 130, 133, 132, 131, 129, 122, 121,

जिला	तहसील	ग्राम	मवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
			135, 130, 133, 132, 131, 129, 122, 121, 120, 119, 118	120, 119, 118, 6, 31, 9, 32, 33, 50, 58, 84, 85, 168, 165, 164, 159, 160, 243, 244, 245, 249, 256, 258
खरगोन	महेश्वर	बागदरा	189, 190, 183, 184, 185, 188, 125, 138, 132, 136, 133, 137, 124, 134, 126, 127, 128, 129, 135, 139, 141, 142, 116, 123, 122, 121, 120, 119, 143, 144, 145, 107, 106, 109, 105, 103, 102, 101, 100, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 155, 75, 76, 81, 64, 68, 69, 70, 65, 67, 66, 79, 83, 84, 85, 86	189, 190, 183, 184, 185, 188, 125, 138, 132, 136, 133, 137, 124, 134, 126, 127, 128, 135, 139, 141, 142, 116, 123, 122, 121, 120, 119, 143, 144, 145, 107, 106, 109, 105, 103, 102, 101, 100, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 155, 75, 76, 81, 64, 68, 69, 70, 65, 67, 66, 79, 83, 84, 85, 86, 148, 108, 163, 165, 74, 73, 80, 88, 96, 99
खरगोन	महेश्वर	आबाल्या	88, 89, 104/1, 105/1/1, 105/1/2, 111/1/2, 111/1/1, 108/1, 107/1, 100/1/1, 100/1/2, 101/1/1, 103, 93, 106, 112	88, 89, 104/1, 105/1/1, 105/1/2, 111/1/2, 111/1/1, 108/1, 107/1, 100/1/1, 100/1/2, 101/1/1, 103, 93, 106, 112, 110, 109
खरगोन	महेश्वर	काकलाय	66/1, 66/2, 65, 62, 63, 68/2, 68/7	66/1, 66/2, 65, 62, 63, 68/2, 68/7
खरगोन	महेश्वर	सोमखेडी	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 1, 27	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 3, 18, 1, 27
खरगोन	महेश्वर	चिकली	86/2, 87/1/2, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 97/1, 97/2, 96/2, 98, 37/1, 36/1, 35/1, 34, 33, 24, 31, 32, 114/2/1, 100/1, 100/2, 100/3, 103, 102, 37/2, 36/2, 22/3, 113/1/2, 28, 36/2, 22/3, 113/1/2, 28, 29, 40/2, 4, 86/1, 87/1/1, 89/1, 90, 96/1	86/2, 87/1/2, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 97/1, 97/2, 96/2, 98, 37/1, 36/1, 35/1, 34, 33, 24, 31, 32, 114/2/1, 100/1, 100/2, 100/3, 103, 102, 37/2, 36/2, 22/3, 113/1/2, 28, 29, 40/2, 4, 86/1, 87/1/1, 89/1, 90, 96/1
खरगोन	महेश्वर	सुल्याखेडी	149, 152, 153, 151/1, 151/2, 151/3क, 151/3ख, 136, 29/3, 31/1/1, 31/1/2, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 38/2, 45/1/2, 47/1, 47/2, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 50/1/1/क-1, 50/1/1/क-4, 50/2/2, 50/2/1-ख, 53/1, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 70/1, 70/2, 69/1, 69/2, 68, 80/2, 80/1/1, 81/2, 81/1/2, 81/1/1, 82/1/1, 82/1/1, 82/2, 82/1/2, 82/1/3, 82, 83, 85, 86, 89, 119, 134/1/1, 134/1/2, 134/1/3, 134/1/4, 154/1/क, 154/1/ख, 154/1/ग, 154/2, 48/1, 48/2, 49, 50/1/1, 75, 72/1, 148, 150, 30/2/2, 38/1, 72/2, 80/1/2, 84/1, 84/2, 87, 88, 155/1, 155/2/1	149, 152, 153, 151/1, 151/2, 151/3क, 151/3ख, 136, 29/3, 31/1/1, 31/1/2, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 38/2, 45/1/2, 47/1, 47/2, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 50/1/1/क-1, 50/1/1/क-4, 50/2/2, 50/2/1-ख, 53/1, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 70/1, 70/2, 69/1, 69/2, 68, 80/2, 80/1/1, 81/2, 81/1/2, 81/1/1, 82/1/1, 82/2, 82/1/3, 82, 83, 85, 86, 89, 119, 134/1/1, 134/2, 134/1/2, 135, 134/3, 134/4, 154/1/द, 154/1/ख, 154/1/ग, 154/2, 48/1, 48/2, 49, 50/1/1, 75, 72/1, 148, 150, 30/2/2, 38/1, 72/2, 80/1/2, 84/1, 84/2, 87, 88, 155/1, 155/2/1
खरगोन	महेश्वर	चोली	805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 797, 796, 795, 794, 793, 788, 787, 779, 780, 782, 635, 636, 637, 638, 639/871, 639, 641, 640, 669, 670, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 697, 698, 699, 710, 713, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 750, 758, 764, 765, 766, 767, 761, 444, 443, 441, 439, 438, 436, 437, 450, 431, 432, 433, 434, 435, 429, 430, 423, 425, 422, 426, 421, 253, 289, 288, 287, 290, 286, 285, 282, 281, 279, 280, 304, 303, 302, 301, 300, 287, 290, 286, 285, 282, 281, 279,	805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 797, 796, 795, 794, 793, 788, 787, 779, 780, 782, 635, 636, 637, 638, 639/871, 639, 641, 640, 669, 670, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 697, 698, 699, 710, 713, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 750, 758, 764, 765, 766, 767, 761, 444, 443, 441, 439, 438, 436, 437, 450, 431, 432, 433, 434, 435, 429, 430, 423, 425, 422, 426, 421, 253, 289, 288, 287, 290, 286, 285, 282, 281, 279, 280, 304, 303, 302, 301, 300, 310, 311, 299, 298, 296, 292, 385, 389,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
			280, 304, 303, 302, 301, 300, 310, 311, 299, 298, 296, 292, 385, 389, 388, 387, 390, 410, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 773, 775, 776, 777, 778, 779, 817, 816, 815, 812, 882, 798, 440, 277, 374, 768, 777, 376, 375, 773, 775, 776, 777, 778, 779, 817, 816, 815, 812, 882, 798, 440, 277, 374, 768	388, 387, 390, 410, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 773, 775, 776, 777, 778, 779, 817, 816, 815, 812, 882, 798, 440, 277, 374, 768, 792, 642, 647, 648, 695, 696, 700, 701, 711, 712, 748, 749, 753, 751, 752, 763, 762, 442, 449, 451, 411, 412, 413, 402, 774, 681, 428, 427, 279, 401,
खरगोन	महेश्वर	ढाबला	11, 14, 15, 46, 49/75, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 45, 47, 48, 50, 49, 51, 7, 8/74, 8, 6/71, 6, 6/69, 56/70, 6/66, 6/72, 65/68, 65/67, 63, 64, 65, 59, 56, 57, 58, 55, 52, 28, 43	11, 14, 15, 46, 49/75, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 45, 47, 48, 50, 49, 51, 7, 8/74, 8, 6/71, 6, 6/69, 56/70, 6/66, 6/72, 65/68, 65/67, 63, 64, 65, 59, 56, 57, 58, 55, 52, 28, 43, 9, 62, 61, 21
खरगोन	महेश्वर	शेरुखेडी	673, 675, 674, 681, 682, 683, 684, 686, 685, 705, 707, 703, 702, 714, 711, 712, 713, 721, 722, 723, 726, 727, 729, 730, 731, 709, 708, 672, 680, 687, 706, 735, 734, 733, 710	673, 675, 674, 681, 682, 683, 684, 686, 685, 705, 707, 703, 702, 714, 711, 712, 713, 721, 722, 723, 726, 727, 729, 730, 731, 709, 708, 672, 680, 687, 706, 735, 734, 733, 710
खरगोन	महेश्वर	सागंवी	50/3	50/3, 50/2
खरगोन	महेश्वर	ठनगांव	249, 150, 151, 152, 155, 146, 165, 164, 163, 162, 577, 578, 600, 602, 621, 622, 580, 579, 581, 582, 583, 584, 161, 157, 619, 620, 583, 585	249, 150, 151, 152, 155, 146, 165, 164, 163, 162, 577, 578, 600, 602, 621, 622, 580, 579, 581, 582, 583, 584, 161, 157, 619, 620, 583, 585
खरगोन	महेश्वर	मण्डलेश्वर	146, 249, 147, 136, 135/6, 135/5, 135/4, 135/3, 135/2, 135/1, 133, 107, 108, 109, 244, 245, 246, 247, 248, 148, 149, 150, 151, 110, 116, 117, 131, 132, 125, 151, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 186, 184, 181, 174, 434	146, 249, 147, 136, 135/6, 135/5, 135/4, 135/3, 135/2, 135/1, 133, 107, 108, 109, 244, 245, 246, 247, 248, 148, 149, 150, 151, 110, 116, 117, 131, 132, 125, 151, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 186, 184, 181, 174, 434

III)

"खण्ड-अ"

अ. क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले
1	पुनासा-सनावद-ओंकारेश्वर (राज्य राजमार्ग क्र.-41-ए)	11.00	खरगोन-खण्डवा

"खण्ड - "ब"

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
खरगोन	सनावद	सनावद	648, 622/4, 622/2, 622/3, 620/1, 620/2, 620/3, 621, 619/1, 6919/2, 615/1, 615/2, 615/1, 615/2, 617, 611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 610, 608, 578/1, 578/2, 577, 580/1, 579/1, 579/2, 579/3, 577/3, 580/4, 581/1, 581/2, 581/3, 581/4, 581/5, 581/6, 594, 582/12, 582/6, 582/2, 582/10, 582/11, 582/13, 582/14, 582/9, 582/8, 588, 586/4, 587,	648, 622/4, 622/2, 622/3, 620/1, 620/2, 620/3, 621, 619/1, 6919/2, 615/1, 615/2, 617, 611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 610, 608, 578/1, 578/2, 577, 580/1, 579/1, 579/2, 579/3, 577/3, 580/4, 581/1, 581/2, 581/3, 581/4, 581/5, 581/6, 594, 582/12, 582/6, 582/2, 582/10, 582/11, 582/13, 582/14, 582/9, 582/8, 588, 586/4, 587,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
			582/11, 582/13, 582/14, 582/9, 582/8, 588, 586/4, 587, 585, 582/1, 582/4, 582/3, 582/6, 582/7, 584/1, 584/2, 584/3, 584/4, 584/5, 586/5, 586/6, 586/7, 571, 570, 569, 568, 566/4, 566/5, 566/6, 566/7, 567, 623, 612, 609, 586/6, 586/7, 571, 570, 569, 568, 566/4, 566/5, 566/6, 566/7, 567, 623, 612, 609, 586/13, 586/13, 583/1, 583/2, 586/8, 586/9, 566/2, 566/3, 564	585, 582/1, 582/4, 582/3, 582/6, 582/7, 584/1, 584/2, 584/3, 584/4, 584/5, 586/5, 586/6, 586/7, 571, 570, 569, 568, 566/4, 566/5, 566/6, 566/7, 567, 623, 612, 609, 580/5, 580/3, 580/2, 589/1, 586/12, 586/13, 586/3, 583/1, 583/2, 586/8, 586/9, 566/2, 566/3, 564
खड़वा	पुनासा	इनपुन	108, 107, 116, 117, 115, 111, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 279, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268/3, 267/3, 264, 307, 310, 331, 332, 334, 336, 337, 338/1, 338/2, 339, 340, 341, 342, 343, 406, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 114/2, 114/3, 109, 110, 111	108, 107, 116, 117, 115, 111, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 279, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268/3, 267/3, 264, 307, 310, 331, 332, 334, 336, 337, 338/1, 338/2, 339, 340, 341, 342, 343, 406, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 114/2, 114/3, 109, 110, 111, 288, 289, 287, 291, 292, 261, 265, 335, 344/1, 344/2, 404, 402, 403, 410, 419, 420, 114/1
खड़वा	पुनासा	भोगांवा	70, 71, 76, 72, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 374, 373, 197, 199, 202, 203, 212, 228, 229, 230, 232, 236/1, 236/2, 239, 278, 279, 280, 281, 266, 265, 264, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 316, 317/1, 317/2, 318, 319, 320, 324, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 492, 477, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 396/7, 396/13, 397, 395, 401, 68, 69, 74, 77, 383, 376, 192, 193, 194, 198, 204, 231, 268, 267, 263, 290, 315, 529, 514, 513, 515, 496, 495, 497, 493, 494, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 508, 509, 476, 478	70, 71, 76, 72, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 374, 373, 197, 199, 202, 203, 212, 228, 229, 230, 232, 236/1, 236/2, 239, 278, 279, 280, 281, 266, 265, 264, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 316, 317/1, 317/2, 318, 319, 320, 324, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 492, 477, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 396/7, 396/13, 397, 395, 401, 68, 69, 74, 77, 383, 376, 192, 193, 194, 198, 204, 231, 268, 267, 263, 290, 315, 529, 514, 513, 515, 496, 495, 497, 493, 494, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 508, 509, 476, 478
खड़वा	पुनासा	कोठी	72, 73, 74, 67, 66, 60, 59, 58, 57, 56, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 47, 48, 39, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 23, 19, 18, 17, 16, 14/2, 13/2, 12, 11, 10, 190, 191, 235, 189, 188, 187, 184, 186, 185, 168/2, 150/1, 155/1, 156/1, 116, 115, 114, 111, 110, 109, 106, 105/1, 104/1, 103, 99, 98/1, 97, 96/1, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 9, 192, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 209, 226, 227, 215, 228, 230, 231, 232, 275, 274, 273, 272, 271, 269, 270, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 245/2, 244/1, 243, 236/2, 236/4, 236/3, 235/1, 233/1, 55, 20/1, 169, 170, 168/1, 150/2, 93, 193, 196, 195, 194, 202, 239/2, 238/2, 239/1	72, 73, 74, 67, 66, 60, 59, 58, 57, 56, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 47, 48, 39, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 23, 19, 18, 17, 16, 14/2, 13/2, 12, 11, 10, 190, 191, 235, 189, 188, 187, 184, 186, 185, 168/2, 150/1, 155/1, 156/1, 116, 115, 114, 111, 110, 109, 106, 105/1, 104/1, 103, 99, 98/1, 97, 96/1, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 9, 192, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 209, 226, 227, 215, 228, 230, 231, 232, 275, 274, 273, 272, 271, 269, 270, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 245/2, 244/1, 243, 236/2, 236/4, 236/3, 235/1, 233/1, 55, 20/1, 169, 170, 168/1, 150/2, 93, 193, 196, 195, 194, 202, 239/2, 238/2, 239/1

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर) (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
खंडवा	पुनासा	गोदडपुरा	6, 7/3, 7/2, 7/8, 10, 3, 26/4, 26/5, 22, 19, 26/3, 21, 26/2, 26/1, 20, 23/1, 23/2, 24, 2/17, 2/1, 2/2
			6, 7/3, 7/2, 7/8, 10, 3, 26/4, 26/5, 22, 19, 26/3, 21, 26/2, 26/1, 20, 23/1, 23/2, 24, 2/17, 2/1, 2/2, 7/4, 11/5, 11/6, 11/3, 11/7

IV)

"खण्ड-अ"

अ. क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले
1	बदनावर-पेटलावद-थांदला-लिमड़ी (राज्य राजमार्ग क्र.-18)	110.00	धार, झाबुआ

"खण्ड - ब"

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
धार	बदनावर	पिटगारा	5/702, 57, 56, 45, 46, 10/1, 10/2, 11, 5/2, 5/1	5/702, 57, 56, 45, 46, 10/1, 10/2, 11, 5/2, 5/1
धार	बदनावर	बदनावर	2889/3, 2895, 2896, 2897, 2899/2, 2899/4/1/1, 2899/4/1/2, 2899/4/1/3, 2893/1, 2893/2, 2905, 2226/3/1, 2228, 2229, 2231, 2261, 2266, 2265, 2341, 2340/1, 2340/2, 2338, 2322, 2318/1, 2318/2, 2316, 2317, 2344, 178/2, 178/1, 138, 134, 133, 124, 109, 105/1, 105/2, 104, 102, 100/2, 19/2, 19/1/2, 19/1/1/1, 19/1/1/2, 18/1/1, 18/1/2, 17/1, 17/2, 13/2, 13/1/1, 13/1/2, 12, 11, 10, 7/1, 7/2, 5/1	2889/3, 2895, 2896, 2897, 2899/2, 2899/4/1/1, 2899/4/1/2, 2899/4/1/3, 2893/1, 2893/2, 2905, 2226/3/1, 2228, 2229, 2231, 2261, 2266, 2265, 2341, 2340/1, 2340/2, 2338, 2322, 2318/1, 2318/2, 2316, 2317, 2344, 178/2, 178/1, 138, 134, 133, 124, 109, 105/1, 105/2, 104, 102, 100/2, 19/2, 19/1/2, 19/1/1/1, 19/1/1/2, 18/1/1, 18/1/2, 17/1, 17/2, 13/2, 13/1/1, 13/1/2, 12, 11, 10, 7/1, 7/2, 5/1
धार	बदनावर	खेड़ा	267, 262, 261, 259, 130, 128, 126, 125, 116, 110, 108, 106, 97, 95, 3, 4, 5, 11	267, 262, 261, 259, 161, 130, 129, 128, 126, 125, 117, 116, 110, 108, 106, 101, 95, 3, 4, 5, 11
धार	बदनावर	संदला	2188, 2185, 2189, 2186, 2181, 2183, 2180, 2179, 2178, 2177, 2176, 2175, 2174, 2172, 2170, 2169, 2168, 2165, 2160, 2156, 2148, 2144, 2143, 2048, 2087, 2088, 2085	2188, 2185, 2189, 2186, 2181, 2183, 2180, 2179, 2178, 2177, 2176, 2175, 2174, 2172, 2170, 2169, 2168, 2165, 2160, 2156, 2148, 2144, 2143, 2048, 2120, 2119, 2118, 2088, 2085
धार	बदनावर	चंदवाडिया कला	197, 129, 124, 125, 47, 17, 13, 11, 5, 4	197, 129, 124, 125, 47, 17, 13, 11, 5, 4
धार	बदनावर	चंदवाडिया खुर्द	14/2, 8/1/2, 9/2, 10/2, 5/1/2, 4/2, 1/2/1, 1/3/2, 1/4/2, 1/5/2, 1/6/2, 1/1	14/2, 8/1/2, 9/2, 10/2, 5/1/2, 4/2, 1/2/1, 1/3/2, 1/4/2, 1/5/2, 1/6/2, 1/1

जिला	तहसील	ग्राम	मरन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
धार	बदनावर	छायन	910, 891, 890, 888, 879, 870, 837, 836, 68, 78, 135, 136, 137, 138, 139, 176, 177, 861, 863, 866, 849, 848, 847, 840, 839, 61, 64, 66, 45, 41, 40, 39, 38, 34, 33	910, 891, 890, 888, 887, 879, 870, 837, 836, 68, 75, 78, 135, 136, 137, 138, 139, 176, 177, 861, 863, 866, 849, 848, 847, 840, 839, 61, 64, 66, 45, 41, 40, 39, 38, 34, 33
धार	बदनावर	लीलीखेड़ी	790, 791, 792, 799, 801, 283, 256, 255, 254, 252, 236, 222, 220, 180, 179, 178, 173, 129, 809, 810, 844	790, 791, 792, 799, 801, 283, 282, 278, 277, 256, 255, 254, 252, 236, 222, 223, 224, 220, 180, 179, 178, 173, 129, 809, 810, 844
धार	बदनावर	सेमलखेड़ा	344, 361, 338, 337, 335, 336, 325, 326, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 198, 323	344, 356, 361, 338, 337, 335, 336, 333, 325, 326, 227, 228, 230, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 198, 323
धार	बदनावर	भैसोला	2261, 2245, 2244, 2243, 2242	2261, 2245, 2244, 2243, 2242
धार	बदनावर	बखतपुरा	172, 174, 133, 128, 129, 183, 117, 120, 125, 126	172, 174, 133, 128, 129, 183, 117, 120, 125, 126
धार	बदनावर	दोत्रया	1126, 1113, 1112, 1111, 1158, 1150, 1123, 1122, 1121, 1114, 1109, 1108, 1073, 509, 395, 659/1, 659/2, 659/3, 265, 392, 387, 267	1126, 1113, 1112, 1111, 1158, 1150, 1123, 1122, 1121, 1114, 1109, 1108, 1073, 509, 395, 659/1, 659/2, 659/3, 265, 392, 387, 267
झाबुआ	पेटलावद	कसारखेड़ी	1857/4, 1857/3, 1857/2, 1860, 1862, 1606, 1599/2, 1599/1, 1596, 1585, 1582, 1847, 1845, 1844, 1842/1, 1608, 1609, 1610, 1009/7, 1009/6, 1009/1, 1002/1, 1001, 1000, 999, 998, 997, 978, 979, 972, 971/1, 971/2, 971/3, 969/1, 969/2, 967, 960, 961, 958, 954, 953, 952, 1461, 1459, 1458, 1440, 1439, 1070/1, 1069, 1068, 1067, 1041, 1040, 1011/4, 762, 763, 764, 773, 774, 794, 800, 806, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 808, 809, 1011/3, 714, 711/4, 710, 684, 680, 679, 524/2, 524/1, 523, 522/1, 522/2, 521, 441, 222/1, 222/2, 223, 218, 219,	1857/4, 1857/3, 1857/2, 1860, 1859, 1862, 1606, 1599/2, 1599/1, 1601, 1596, 1585, 1582, 1849, 1847, 1845, 1843, 1842/1, 1615, 1613, 1009/7, 1009/6, 1002/2, 1001, 1000, 999, 998, 997, 978, 979, 974/2, 974/1, 971/1, 971/2, 971/3, 969/1, 969/2, 967, 960, 961, 958, 956, 957, 954, 927, 1458, 1440, 1439, 1070/1, 1069, 1068, 1067, 1041, 1040, 1012, 1011/4, 762, 763, 764, 773, 774, 794, 800, 806, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 808, 809, 1011/3, 717, 716, 715, 713, 711/4, 710, 684, 680, 679, 526/1, 526/2, 526/3, 526/4, 526/5, 524/2, 524/1, 523, 522/1, 522/2, 518/2, 518/1, 521, 443, 222/1, 222/2, 223, 218, 219, 189, 188, 162,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सङ्क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सङ्क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
			189, 188, 162, 160/1, 160/2, 159, 148/2, 148/1, 145	160/1, 160/2, 159, 148/2, 148/1, 145
झाबुआ	पेटलावद	छायनपाड़ा	175, 171, 167, 172, 25/1, 25/2, 25/3, 24, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 21/1, 21/2, 17/1, 15, 14, 1, 3	175, 171, 167, 24, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 21/1, 21/2, 17/1, 15, 14, 1, 3
झाबुआ	पेटलावद	मोहनपुरा	1639, 1637, 1636, 1635, 1634, 1632, 1631, 1630, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1175, 1176, 1174, 1173, 1172, 1171, 1168, 1167, 1118/2, 1118/1, 1123, 1124, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077/1, 1077/2, 1078, 892, 1114, 1110, 1109, 1108, 1106, 1105, 1104, 1097, 1082/1, 1082/2, 1082/3, 1082/4, 1081	1639, 1637, 1636, 1635, 1634, 1632, 1631, 1630, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1176, 1174, 1173, 1172, 1171, 1168, 1167, 1118/2, 1118/1, 1123, 1124, 1072, 1073, 1071/2, 1074, 1069/1, 1069/2, 1075, 1076, 1077/1, 1077/2, 1078, 892, 1114, 1110, 1108, 1106, 1105, 1104, 1097, 1082/1, 1082/2, 1082/3, 1082/4, 1081
झाबुआ	पेटलावद	कुण्डया पाड़ा	172, 120, 121, 122, 118, 115	172, 122, 118, 115
झाबुआ	पेटलावद	हिण्डोलालावड़ी	106, 126, 61, 62, 74/2, 74/1, 79, 89, 84, 85, 83, 49, 48, 58, 57, 56, 28, 27, 13, 11, 9, 8	126, 127, 105, 63, 64, 74/2, 74/1, 77, 78, 89, 84, 85, 86/1, 86/2, 83, 49, 48, 58, 57, 56, 28, 27, 13, 11, 9, 8
झाबुआ	पेटलावद	भासरपाड़ा	129, 119, 118, 117	127, 121, 119, 118, 117
झाबुआ	पेटलावद	बेगनबड़ी	04, 05, 06,	04, 05, 06,
झाबुआ	पेटलावद	छावनी	191, 190/1, 185, 183, 114, 113, 112, 111, 96/2, 96/1, 94, 95, 85, 84, 83, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7	191, 190/1, 183, 114, 113, 112, 96/2, 96/1, 94, 95, 85, 86, 84, 83, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7
झाबुआ	पेटलावद	सारंगी	2110, 2107, 2040, 2039, 2038, 2037/1, 2037/2, 2037/3, 2037/4, 2018, 2017, 2002/1, 2002/2, 2002/3, 2002/4, 2002/5, 2000/5, 2000/6, 2000/7, 2000/8, 2000/9, 2000/10, 1869, 1872, 1868, 1805, 1784/2, 1783, 1782, 1781, 1774, 1773, 1952, 1951, 1949/4, 1949/3, 1949/2, 1949/1, 1880, 1894, 1879/1, 1879/2	2110, 2107, 2040, 2039, 2038, 2037/1, 2037/2, 2037/3, 2037/4, 2017, 2016, 2002/1, 2002/2, 2002/3, 2002/4, 2002/5, 2000/5, 2000/6, 2000/7, 2000/8, 2000/9, 2000/10, 1869, 1872, 1868, 1805, 1784/2, 1783, 1782, 1776, 1779, 1775, 1774, 1773, 1952, 1951, 1949/4, 1949/3, 1949/2, 1949/1, 1893, 1888, 1887, 1884, 1882, 1881, 1879/1, 1879/2
झाबुआ	पेटलावद	बोलासा	1785, 1782, 1778, 708, 706/2, 706/1, 705, 704/2, 704/1, 703, 1772, 1776, 730/2, 730/1, 725, 711, 710,	1785, 1782, 1778, 708, 706/2, 706/1, 705, 704/2, 704/1, 703, 1772, 1776, 730/2, 730/1, 725, 726, 724, 711, 710, 699, 701,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
			701, 696/2, 696/1/2, 696/1/1, 695/1, 695/2, 695/3, 693/1, 693/2, 693/3, 690, 689	696/2, 696/1/2, 696/1/1, 695/1, 695/2, 695/3, 693/1, 693/2, 693/3, 690, 689
झाबुआ	पेटलावद	बादीखेड़ा	8, 7, 4, 3, 2	8, 7, 6, 10, 4
झाबुआ	पेटलावद	टेमरिया	1611, 1610, 1609, 1553, 1552, 1554, 1551, 1544, 1543, 1542, 755, 764, 759, 801, 802, 914, 915, 916, 620, 621, 636, 637, 657, 658, 668, 670/1, 670/2, 675, 676, 687, 688/1, 689, 692, 693, 695, 696, 697, 615, 613, 611, 395, 394, 392, 373, 372, 366, 365, 364, 361, 356, 355	1610, 1609, 1608, 1553, 1552, 1554, 1551, 1544, 1545, 1543, 1542, 755, 756, 764, 759, 801, 802, 803, 914, 915, 916, 621, 636, 637, 641, 644, 657, 658, 668, 670/1, 670/2, 675, 676, 687, 688/1, 689, 692, 693, 695, 696, 697, 615, 613, 611, 395, 394, 392, 373, 372, 366, 365, 364, 361, 356, 355
झाबुआ	पेटलावद	पथ बोराली	153, 334, 337, 336, 540, 548, 547, 546, 567, 566, 563	153, 160, 161, 164, 167, 334, 337, 336, 540, 548, 547, 546, 567, 566, 564, 563
झाबुआ	पेटलावद	करडावद	700/1, 701/2, 701/1, 702/1, 702/2, 717, 690, 692, 693, 694, 695, 696/2, 698, 1220, 1222, 1223, 1488, 1493, 1494, 1496, 1497, 1498, 1499, 1505, 1509, 1512, 1516, 1522/3, 1522/2, 1251, 1248, 1247, 1343, 1754/1, 1754/2, 1753, 1750, 1748, 1720, 1719, 1716, 1717, 1707, 1706, 1705, 1698, 1699, 1700, 1696, 1525, 2037, 2038, 2042, 2046, 2047, 2025, 2027, 2029, 1995, 1996	700/1, 701/2, 701/1, 702/1, 702/2, 717, 718, 690, 692, 693, 694, 695, 696/2, 698, 1220, 1222, 1223, 1161, 1488, 1493, 1494, 1496, 1497, 1498, 1499, 1505, 1509, 1512, 1516, 1521, 1522/3, 1522/2, 1251, 1248, 1247, 1343, 1754/1, 1754/2, 1753, 1750, 1748, 1720, 1719, 1716, 1717, 1707, 1706, 1705, 1698, 1699, 1700, 1696, 1531, 1533 2037, 2038, 2042, 2046, 2047, 2027, 2029, 1995, 1996, 2034, 2033
झाबुआ	पेटलावद	पेटलावद	597, 595, 596, 593, 591, 588, 615/1, 569/1, 569/2, 570, 571, 585, 586, 615/1, 615/2, 616, 618/1, 659, 658, 660, 663, 661, 669, 1603, 1012, 1013, 1014, 394, 356, 357, 358, 354, 352, 353, 341/2, 341/1, 346, 347, 348/2, 348/1, 349, 350, 678/1, 678/2, 679, 682, 706, 707, 708, 714	597, 595, 596, 593, 591, 588, 615/1, 569/1, 569/2, 570, 571, 585, 586, 615/1, 615/2, 616, 618/1, 659, 658, 660, 663, 661, 669, 1603, 1012, 1013, 1014, 394, 356, 357, 358, 354, 352, 353, 341/2, 341/1, 346, 347, 348/2, 348/1, 349, 350, 678/1, 678/2, 679, 682, 706, 707, 708, 714
झाबुआ	पेटलावद	खोरिया	1071, 1067, 1066, 1065, 1064, 1062/1, 1062/2, 1061, 1060, 1082, 1083, 1194, 1193, 1108, 1106, 891, 890/1, 890/2, 889/1, 889/2, 885, 886, 1020, 1018, 1017, 1013, 882, 661, 517, 516,	1071, 1067, 1066, 1065, 1064, 1062/1, 1062/2, 1061, 1082, 1083, 1194, 1193, 1108, 891, 890/1, 890/2, 889/1, 889/2, 888, 886, 1020, 1018, 1017, 1013, 882, 1107, 661, 517, 516, 515, 514, 511/2, 511/1, 510, 505, 506,

ज़िला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली मूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली मूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
			515, 514, 511/2, 511/1, 510, 505, 504, 500, 499, 440, 439, 437, 435, 434, 388, 387, 386/1, 386/2, 386/3, 663/3, 663/1, 670/1, 673, 674/1, 674/2, 674/3, 675/1, 676, 305, 306, 307, 308, 335, 340/4, 341/1, 346, 75, 70, 76, 67, 68, 33, 32/1, 30/1	504, 503, 500, 440, 439, 437, 435, 434, 388, 387, 386/1, 386/2, 386/3, 663/3, 663/1, 670/1, 673, 674/1, 674/2, 674/3, 675/1, 676, 305, 306, 307, 308, 335, 340/4, 340/3, 341/1, 341/2, 345/1, 345/2, 345/3, 74, 70, 73, 76, 67, 68, 33, 32/2, 30/1
झाबुआ	पेटलावद	उन्नई	469, 470, 471, 473, 478, 490, 491, 492, 493, 495, 497, 498, 509, 510, 511, 466, 465, 424, 438, 433, 428, 427, 426, 424/1, 424/2, 400, 342, 341, 340, 339, 204, 205, 209, 211, 212, 140, 142, 147, 148, 50, 12, 11, 14, 10, 09, 7, 6, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4	469, 470, 472, 490, 491, 493, 495, 496, 498, 509, 510, 511, 466, 465, 424, 438, 433, 428, 427, 426, 424/1, 424/2, 400, 342, 343, 340, 339, 203, 204, 205, 209, 211, 212, 140, 142, 147, 148, 50, 12, 11, 14, 10, 09, 8, 7, 6, 5, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 397, 395
झाबुआ	मेघनगर	बावड़ी	107, 110, 111, 114, 277, 278, 280, 263/4, 262, 258, 257, 154, 157, 158, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 287, 286, 254, 253, 252, 251, 250, 246, 245, 212, 211, 207, 205, 203, 201, 188, 187, 186, 185, 177	107, 110, 111, 114, 277, 278, 280, 262, 258, 257, 154, 157, 158, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 287, 286, 254, 253, 251, 250, 246, 245, 212, 211, 207, 205, 203, 201, 188, 187, 186, 185, 177, 263/3
झाबुआ	मेघनगर	कोटनाई	6, 7, 5, 3, 2	6, 7, 5, 3, 2
झाबुआ	मेघनगर	कुण्डला	67, 68, 69, 76, 75, 78, 79, 81, 82, 86, 89, 90, 64, 63, 53, 52, 54, 51, 50, 44, 39, 38, 22, 23, 4, 3, 72, 70, 80, 85, 56, 49, 5	67, 68, 69, 76, 75, 81, 82, 86, 89, 64, 63, 53, 52, 54, 50, 44, 39, 38, 22, 23, 4, 3, 72, 70, 80, 85, 56, 49, 5
झाबुआ	मेघनगर	महुड़ा	287, 358, 290, 291, 273, 278, 279, 280, 283	287, 358, 290, 291, 273, 278, 279, 280, 277, 282
झाबुआ	थांदला	सेमलपाड़ा	178, 176, 174, 169, 164, 161, 159, 154, 153, 152, 138, 136, 135, 182, 181, 75, 77, 79, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 103, 115, 116, 117, 118, 128, 131, 133	178, 176, 174, 169, 164, 161, 159, 154, 153, 152, 138, 136, 135, 182, 181, 75, 79, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 103, 115, 116, 117, 118, 128, 131, 133, 74, 78, 132
झाबुआ	थांदला	नवापाड़ा काली रुण्डी	199, 198, 200, 197, 196, 195, 192, 191, 193, 187, 186, 185, 22	198, 200, 197, 196, 195, 192, 191, 187, 186, 185, 22, 205
झाबुआ	थांदला	नाहरपुरा	419, 417, 416, 415, 414, 399, 398, 397, 370, 369, 367, 366, 188, 189, 186, 185, 184, 183, 181, 182, 179	419, 417, 416, 415, 414, 399, 398, 397, 370, 369, 367, 188, 189, 186, 185, 184, 183, 182, 179, 396, 395, 371, 365, 176

जिला	तहसील	ग्राम	मरन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 फी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 फी. दोनों ओर)
झाबुआ	थांदला	मछलई माता	287/4, 287/3, 254, 252, 251, 249, 241, 240, 228	287/4, 287/3, 254, 252, 251, 249, 241, 240, 228
झाबुआ	थांदला	थांदला	463, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 470, 474, 475, 476, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 492, 494, 495, 502, 12, 13, 14, 16, 2, 4, 6, 7	463, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 470, 474, 475, 476, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 494, 495, 502, 12, 13, 14, 16, 2, 4, 6, 7
झाबुआ	थांदला	खजूरी	449, 448, 502, 503, 504, 505, 506, 445	449, 448, 502, 503, 504, 505, 506, 445
झाबुआ	थांदला	रुण्डीपाड़ा	100, 57, 55, 46, 45, 44, 200, 40, 41	100, 57, 55, 46, 45, 44, 200, 39, 38
झाबुआ	थांदला	जुनवानिया बड़ा	395, 379, 380, 382, 376, 369, 368, 367, 224, 219, 210, 209, 204, 206, 200, 194	395, 379, 380, 382, 376, 369, 368, 367, 224, 219, 210, 209, 204, 206, 200, 211, 195, 193, 225
झाबुआ	मेघनगर	देवीगढ़	543, 546, 542, 541, 540, 539, 526, 525, 411, 409, 406, 405, 404, 403, 402, 397, 391, 389	546, 542, 541, 540, 539, 526, 525, 411, 409, 406, 405, 404, 403, 402, 397, 391, 389, 547, 524
झाबुआ	थांदला	जुनवानिया छोटा	641, 648, 640, 638, 624, 623, 572, 571, 570, 567, 550, 564, 563, 562, 560, 559, 554, 553	648, 640, 638, 624, 623, 572, 571, 570, 567, 550, 564, 563, 562, 560, 559, 554, 553, 642, 626, 547, 548, 558
झाबुआ	थांदला	परवलिया	1570, 1488, 971, 972, 1485, 1225, 1226/2, 1227, 1228, 1229, 1234, 1235, 1242, 1243, 1244, 848, 849, 968, 966, 967, 925/3, 925/4, 926, 927, 928, 929	1570, 1488, 971, 972, 1485, 1225, 1226/2, 1227, 1228, 1229, 1234, 1235, 1243, 1244, 848, 849, 968, 966, 967, 925/3, 925/4, 926, 927, 928, 929, 989, 995, 996, 1241
झाबुआ	मेघनगर	झापादरा	271, 266, 261, 262, 263, 200, 199, 198, 194, 193, 149, 147, 147/719/2, 68, 66, 65, 59, 58, 56, 29, 28, 19, 13, 12, 11, 10, 9, 3	271, 266, 261, 262, 263, 200, 199, 198, 194, 193, 149, 147, 147/719/2, 68, 66, 65, 59, 58, 56, 29, 28, 19, 13, 12, 11, 10, 9, 4
झाबुआ	थांदला	चिकलिया	449, 448, 447, 418, 416/7, 400, 399/1, 399/2, 397/1, 397/2, 396, 395, 394, 183, 182, 181, 180, 171/3, 170, 169	449, 448, 447, 418, 416/7, 400, 399/1, 399/2, 397/1, 397/2, 396, 395, 394, 183, 182, 181, 180, 171/3, 170, 169, 416/6
झाबुआ	थांदला	दौलतपुरा	919, 859, 855/1, 855/2, 854, 852/2	919, 859, 855/1, 855/2, 854, 852/2, 853
झाबुआ	थांदला	आमली	651/2, 644, 643, 642, 641, 640, 639, 524, 501, 499, 473, 470, 468, 467, 465, 464, 457, 454	651/2, 644, 643, 642, 641, 640, 639, 524, 501, 499, 473, 470, 468, 467, 465, 464, 457, 454, 651/1

जिला	तहसील	ग्राम	मवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
झाबुआ	मेघनगर	इटावा	427, 428, 425, 424, 423, 410, 416, 415, 96, 95, 94, 74, 72, 71, 59, 53, 4, 11, 10, 15	427, 428, 425, 424, 423, 410, 416, 415, 96, 95, 94, 74, 71, 59, 53, 4, 11, 10, 15, 73, 13
झाबुआ	थांदला	मोरझारी	406, 412, 413, 439/1, 439/2, 439/3, 440, 443, 444, 447, 449, 651, 652, 654, 793, 791, 790, 879, 880, 891, 892, 895, 982, 985, 915, 914, 918, 919, 251, 334, 335, 336, 337, 342, 796, 797, 799, 800, 802, 803, 807, 872, 870, 869, 866, 865, 864, 863/1	406, 412, 413, 439/1, 439/2, 439/3, 440, 443, 444, 447, 449, 651, 652, 654, 793, 791, 790, 879, 880, 891, 892, 895, 982, 985, 915, 914, 918, 919, 251, 334, 335, 336, 342, 796, 797, 799, 800, 802, 803, 807, 872, 870, 869, 866, 865, 864, 863/1, 442, 338
झाबुआ	थांदला	गणेशपुरा	391, 392, 393, 394, 396, 194, 216, 231, 14/2, 14/1, 13, 10, 9, 7, 6, 5, 2, 389, 388, 386, 385, 359, 356, 333, 332, 331, 330, 328, 327, 243, 244, 238, 234	391, 392, 393, 394, 396, 194, 231, 14/2, 14/1, 13, 10, 9, 7, 6, 5, 2, 389, 388, 386, 385, 359, 356, 332, 331, 330, 328, 238, 234, 397, 215/1, 360, 334, 235
झाबुआ	थांदला	काकनवानी	610, 609, 608, 598, 176, 171, 168, 167, 164, 138, 132, 133, 134, 99, 135, 100, 98, 79, 76, 75, 2, 498, 496, 495, 471, 470, 468, 467, 466, 507, 347, 346, 345, 344, 343, 300, 298, 293, 212, 213, 214, 210, 209, 202, 201, 199, 195	610, 609, 608, 598, 176, 171, 168, 167, 164, 138, 132, 133, 134, 100, 98, 79, 76, 75, 2, 498, 496, 495, 471, 470, 468, 467, 466, 606, 163/2, 162, 147, 507, 347, 346, 345, 344, 343, 300, 298, 293, 214, 210, 209, 202, 201, 199, 195, 147, 162, 163/2, 606
झाबुआ	थांदला	गोरिया खदान	170, 124, 121, 120, 119/1, 118, 114, 113, 108, 39, 41, 38, 31, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 449, 448, 102, 103, 177, 178, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 276, 277, 284, 285	170, 124, 121, 120, 119/1, 118, 113, 108, 39, 41, 38, 31, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 449, 448, 102, 103, 177, 178, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 276, 277, 284, 285, 119/2, 112, 117, 109, 42
झाबुआ	थांदला	देवका	314, 313, 321, 342, 343, 344, 357, 358, 401, 544, 545, 157, 169, 177, 186, 218, 219, 220, 256, 275	321, 343, 344, 357, 358, 401, 544, 157, 169, 177, 186, 218, 219, 220, 256, 275, 315, 345, 400
झाबुआ	थांदला	हरिनगर	123, 117	123, 117
झाबुआ	थांदला	रामनगर	23, 22, 20, 10, 8, 7	23, 22, 20, 10, 8, 7, 21
झाबुआ	थांदला	बट्ठा	938, 939, 734, 733, 732, 730, 729, 728, 727, 714, 713, 711, 710, 667, 646, 524, 525, 526, 530, 531, 532, 533, 534, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 567, 568, 569, 584, 602, 603, 606, 607, 643, 639	938, 939, 734, 733, 732, 730, 729, 728, 727, 714, 713, 711, 710, 667, 646, 524, 525, 526, 530, 531, 532, 533, 534, 556, 557, 558, 559, 567, 568, 569, 584, 602, 603, 606, 607, 643, 639, 647, 562, 563, 608

जिला	तहसील	ग्राम	मवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
झाबुआ	थांदला	छायन	217, 215, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 199, 193, 192, 186, 181, 125, 116, 117, 129, 130, 131, 135, 136, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 168, 178, 177	217, 215, 213, 212, 211, 210, 208, 199, 193, 192, 186, 181, 125, 116, 117, 129, 130, 131, 136, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 168, 178, 177, 195, 194, 190, 132, 133, 134, 169, 176
झाबुआ	थांदला	बालवासा	1413, 1407, 1408, 1406, 1394, 1263, 1262, 1261, 1260, 1258, 1254, 1253, 1225, 1224, 1223, 1221, 1220, 1207, 1208, 1038, 1039, 1031, 1030, 1029, 1204, 1202, 1199, 1200, 1182, 1176, 1170, 1138, 1137, 1106, 1107, 1095, 1094, 1097, 1102, 1093, 1049, 1046, 1045, 1044, 1041, 250, 251, 259, 258, 1015, 1013, 998, 996, 728, 727, 726, 723, 722, 721, 717, 712/2, 699, 542, 529, 530, 528, 539, 523, 442, 457, 412, 410, 409/1, 408, 394, 393, 391	1413, 1408, 1406, 1394, 1263, 1262, 1261, 1260, 1258, 1254, 1253, 1225, 1224, 1223, 1221, 1220, 1208, 1038, 1039, 1031, 1030, 1029, 1204, 1202, 1199, 1182, 1176, 1170, 1106, 1107, 1102, 1093, 1049, 1046, 1044, 104, 250, 251, 259, 258, 1015, 1013, 998, 996, 728, 727, 726, 723, 717, 712/2, 699, 542, 529, 530, 528, 539, 523, 442, 457, 412, 410, 409/1, 408, 393, 391, 1412, 1257, 1252, 1209, 1186, 1169, 1171, 1172, 1166, 1167, 1141, 1139, 1136, 1105, 1103, 1092, 1043, 999, 729/1, 735, 720, 407, 406

राज्य राजमार्ग अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन से एक माह के अंतर्गत या ग्राम में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इनमें से जो भी कालावधि पश्चात्वर्ती हो कोई व्यक्ति लिखित में अपनी आपत्ति या सुझाव राजमार्ग प्राधिकारी (प्रबंध संचालक/संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम) को प्रस्तुत कर सकता है। या राजमार्ग प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2015

पृ. क्र. एफ 23-03-15 सा. 19.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसारण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. दिनांक 27 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 27th March 2015

No. F - २३-३/२०१५ / Gen/ १९ In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 12 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam 2004 (No. 11 of 2005) the State Government hereby propose for the roads as specified in Part-A of the schedule as per specification given below in Part-B of the schedule to be the Building line and Control line

S C H E D U L E

I

Part-A

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Khandwa-Baroda (SH-26)	52.80	Barwani

Part-B

Details of land in between Building Lines and Control Lines

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Barwani	Rajpur	Bobalvadi	71, 70, 69, 68, 67, 66, 61, 79, 78, 77, 75, 64/2, 64/1, 63/2, 63/1, 61, 60, 54, 50, 32, 33, 31, 27/1, 27/2, 13, 15, 57, 24, 25, 22, 17	71, 70, 69, 68, 67, 66, 61, 79, 78, 77, 75, 64/2, 64/1, 63/2, 63/1, 61, 60, 54, , 94/3, 94/4, 53/2, 53/1, 50, 32, 33, 31, 27/1, 27/2, 13, 15, 57, 24, 25, 22, 19/3, 19/1/2
Barwani	Rajpur	Kadvi	98, 97, 191, 93/4, 93/3, 93/2, 92/8, 92/7, 92/6, 92/5, 91/2/2, 91/3, 88/6, 88/2, 91/7, 88/9, 91/8, 80/10, 91/2/3, 91/4, 91/2/1, 88/3/2, 77/5, 77/4, 78, 74/3	98, 97, 191, 93/4, 93/3, 93/2, 92/8, 92/7, 92/6, 92/5, 92/4, 91/2/2, 91/3, 88/6, 88/2, 91/7, 88/9, 91/8, 80/10, 91/2/3, 91/4, 91/2/1, 88/3/2, 77/5, 77/4, 78, 74/2, 74/3
Barwani	Rajpur	Ruai	277/1, 224, 216, 225, 229/4, 229/3, 229/2, 229/1/2, 229/1/1, 195/3, 195/2, 192/3, 192/2, 192/1, 161, 148/5, 149/2, 149/1, 142, 220, 219/2, 217/3, 198/6, 198/5, 198/4, 198/3, 198/2, 198/1, 199, 158, 97, 96/2, 96/1, 95/3, 95/2, 95/1, 92, 87, 88, 70, 77, 85, 84	277/1, 276/1, 224, 216, 225, 229/4, 229/3, 229/2, 229/1/2, 229/1/1, 195/3, 195/2, 192/3, 192/2, 192/1, 161, 148/5, 149/2, 142, 220, 219/2, 198/6, 198/5, 198/4, 198/3, 198/2, 198/1, 199, 158, 97, 96/2, 96/1, 95/3, 95/2, 95/1, 92, 87, 88, 70, 77, 85, 84, 149/3, 149/4, 99/3, 219/1, 217/1
Barwani	Rajpur	Bhulgaon	120/6, 119, 118, 111, 106/1, 59, 60/3, 60/2, 60/1, 19, 18, 17	120/6, 119, 118, 111, 106/1, 59, 60/3, 60/2, 60/1, 19, 18, 17, 66/3

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Barwani	Rajpur	Julwaniya	30, 29, 84, 217/3, 217/1, 90/4, 90/3, 90/2, 90/1, 87, 88, 211, 213/2, 213/1	30, 29, 84, 217/3, 217/1, 90/4, 90/3, 90/2, 90/1, 87, 88, 211, 213/2, 213/1
Barwani	Rajpur	Rangaon Bujurg	234, 117, 116/1, 118, 133, 134/1प, 135/1प, 227/1, 218, 215, 214/1, 196/2, 140, 196, 160/5, 160/1, 163/1, 166, 168, 169, 169	234, 117, 116/1, 118, 133, 134/1प, 135/1प, 227/1, 218, 215, 214/1, 196/2, 140, 196, 160/5, 160/1, 163/1, 166, 168, 169, 125, 194
Barwani	Rajpur	Gaundpura	61, 66/1, 68/1, 68/2, 68/3	61, 66/1, 68/1, 68/2, 68/3
Barwani	Rajpur	Salkheda	11, 12, 13, 17, 19, 25, 28, 36, 65, 66/1, 63, 52, 44/1, 38	11, 12, 13, 17, 19, 25, 28, 31/1, 35/1, 36, 65, 66/1, 63, 52, 44/1, 38
Barwani	Rajpur	Unchi	72/2, 73/1अ, 86, 84/1, 84/2, 83/4, 83/7, 89/3, 89/4, 89/1, 93/1, 93/2, 93/3, 95/2, 95/1	72/2, 73/1अ, 86, 84/1, 84/2, 83/4, 83/7, 89/3, 89/4, 89/1, 93/1, 93/2, 93/3, 95/2, 95/1
Barwani	Rajpur	Rajpur Kasba	232, 230, 228, 213, 214, 200, 251, 236, 252, 253, 261/4, 263, 292, 294, 4, 5, 413	232, 230, 228, 213, 214, 200, 251, 236, 252, 253, 261/4, 263, 292, 294, 4, 5, 413
Barwani	Rajpur	Temla Bujurg	106, 107, 108, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 12, 11, 4, 3, 136, 130, 129, 128, 127, 7, 8, 9	106, 107, 108, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 12, 11, 4, 3, 136, 130, 129, 128, 127, 7, 8, 9
Barwani	Anjad	Umaria	32, 30, 33, 28, 25, 24, 23, 22, 36, 35, 40, 42, 43, 52, 55, 21, 20, 17, 15, 54, 12	32, 30, 33, 28, 25, 24, 23, 22, 36, 35, 40, 42, 43, 52, 55, 21, 20, 17, 15, 54, 12
Barwani	Anjad	Bhamori	212, 211, 210, 198, 216, 215, 217, 219, 190, 191, 192, 196, 197, 185	212, 211, 210, 198, 216, 215, 217, 219, 190, 191, 192, 196, 197, 185
Barwani	Anjad	Bilva Road	74, 73, 72, 68, 67, 65, 38, 37, 36, 35, 34, 8, 7, 5	74, 73, 72, 68, 67, 65, 38, 37, 36, 35, 34, 8, 7, 5
Barwani	Anjad	Sajwaya	8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 10	8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 10
Barwani	Anjad	Palasya	11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 23, 22, 19, 17, 16	11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 23, 22, 19, 17, 16
Barwani	Anjad	Anjadkasba	277/1, 310, 312, 245/1, 246/1, 248/1, 260, 74, 70, 75, 76, 77, 85/1प, 85/1अ, 87, 88/1, 88/2, 62/4, 62/1, 61, 45	277/1, 310, 312, 245/1, 246/1, 248/1, 260, 259/1, 74, 70, 75, 76, 77, 85/1प, 85/1अ, 87, 88/1, 88/2, 89, 253/1, 253/2, 254/2, 67/2, 65/1, 66/1, 62/4, 62/1, 61, 46, 45, 273, 488, 486, 280
Barwani	Barwani	Borlaya	165, 172/2, 147/7, 127/4, 140/4, 140/2, 141/3, 141/2, 141/1, 145/2, 144, 147/3, 184/1, 295/1, 23, 22, 303, 63, 62, 61, 57, 56, 55, 37, 26, 25, 12, 11, 147/4, 147/5, 147/6, 136, 301/1+301/3	165, 172/2, 158/1, 158/3, 158/4, 147/7, 127/4, 135/2, 140/4, 140/2, 141/3, 141/2, 141/1, 145/2, 144, 147/3, 184/1, 295/1, 23, 22, 303, 63, 62, 61, 57, 56, 55, 37, 26, 25, 12, 11, 147/4, 147/5, 147/6, 136, 301/1+301/3

District	Tehsil	Village	Détails of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Barwani	Barwani	Talon Bujurg	75, 76, 77, 78, 79, 80, 81	75, 76, 77, 78, 79, 80, 81
Barwani	Barwani	Talun Khurd	45, 46, 51, 41, 29, 27, 26, 21, 50	45, 46, 51, 41, 29, 27, 26, 21, 50
Barwani	Barwani	Kari	100/1, 99, 98, 97, 96, 31, 8, 102, 33, 6/1, 6/2	100/1, 99, 98, 97, 96, 31, 8, 102, 33, 6/1, 6/2
Barwani	Barwani	Segawan	59/2, 60/2, 61/5, 61/6, 65, 66/2, 68/1, 71, 72/2, 72/1, 73, 74, 75, 74, 105	59/2, 60/2, 61/5, 61/6, 65, 66/2, 68/1, 71, 72/2, 72/1, 73, 74, 105

II**Part-A**

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rau-Mhow-Mandleshwar (SH-01)	69.662	Indore, Khargone

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

District	Tehsil	Village	Détails of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Détails of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indore	Mhow	Pigdambar	481, 212, 230/1/2, 230/2, 231, 480/1, 480/2, 479/1, 479/2, 478/1, 478/2, 472/1, 472/2,	481, 212, 230/1/2, 230/2, 231, 480/1, 480/2, 479/1, 479/2, 478/1, 478/2, 472/1, 472/2, 229, 228, 230/1/1, 227, 477
Indore	Mhow	Umaria	159, 53/3, 53/2, 53/1/2, 53/1/3, 53/1/1, 55/2, 55/3, 55/4, 56/1, 56/2, 57/5, 57/4, 57/1, 62/1, 62/2, 63/1, 64, 66, 67, 108, 68, 114, 115, 116, 117/1, 140, 139, 141/1, 141/2, 143, 144, 156/2, 157/1/1, 157/1/2, 158/1, 158/2, 160/1, 160/2, 161, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 173, 174, 175/1, 175/2, 176/9, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 182/1, 182/2, 182/3, 184, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187/1, 187/2, 116, 219/1, 219/2, 219/3, 220/1, 220/2, 221/1, 221/2, 108, 244, 245/1, 245/2, 245/3, 245/4, 245/5, 245/6, 246, 247/1, 247/2, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 281/7, 285/1ફ, 285/1ખ, 285/1ણ, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6ફ, 285/6ખ, 285/6ણ, 285/7, 285/2/2, 282/2/3, 285/2/4, 286/1, 286/2	159, 53/3, 53/2, 53/1/2, 53/1/3, 53/1/1, 55/2, 55/3, 55/4, 56/1, 56/2, 57/5, 57/4, 57/1, 62/1, 62/2, 63/1, 64, 66, 67, 108, 68, 114, 115, 116, 117/1, 140, 139, 141/1, 141/2, 143, 144, 156/2, 157/1/1, 157/1/2, 158/1, 158/2, 160/1, 160/2, 161, 162/1, 162/2, 162/3, 162/4, 173, 174, 175/1, 175/2, 176/9, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 182/1, 182/2, 182/3, 184, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 187/1, 187/2, 116, 219/1, 219/2, 219/3, 220/1, 220/2, 221/1, 221/2, 108, 244, 245/1, 245/2, 245/3, 245/4, 245/5, 245/6, 246, 247/1, 247/2, 281/1, 281/2, 281/3, 281/4, 281/5, 281/7, 285/1ફ, 285/1ખ, 285/1ણ, 285/3, 285/4, 285/5, 285/6ફ, 285/6ખ, 285/6ણ, 285/7, 285/2/2, 282/2/3, 285/2/4, 286/1, 286/2

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indore	Mhow	Harniya Khedi	125, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 129/5, 119, 126, 127, 128, 118/1, 118/2, 118/3, 116, 115/1, 115/2, 115/3, 1/11, 113/2, 113/1/2, 108, 171, 172, 170/1, 170/2, 168/1, 168/2, 167/1, 167/2, 135/1, 135/2, 164, 134/1, 134/2, 132/1, 132/2, 130/1, 130/2, 129/1, 129/2, 124/6/1, 124/6/2, 115/4, 1/10, 124/7, 124/8	125, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 129/5, 119, 126, 127, 128, 118/1, 118/2, 118/3, 116, 115/1, 115/2, 115/3, 1/11, 113/2, 113/1/2, 108, 171, 172, 170/1, 170/2, 168/1, 168/2, 167/1, 167/2, 135/1, 135/2, 164, 134/1, 134/2, 132/1, 132/2, 130/1, 130/2, 129/1, 129/2, 124/6/1, 124/6/2, 115/4, 1/10, 124/7, 124/8
Indore	Mhow	Sater	66, 65/4, 67, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57/1, 57/2, 50/1, 50/2, 49, 44, 45, 43, 41, 39, 33, 34, 38, 35, 31/1, 69/2, 69/1, 68/1, 68/2, 73/10, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1/1, 74/2, 75/1/1, 75/1/2, 75/1/3, 75/2, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4; 93/1, 93/2, 96/3, 96/2, 96/1/1, 102, 103, 104, 105/3/1, 166, 164, 163	66, 65/4, 67, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57/1, 57/2, 50/1, 50/2, 49, 44, 45, 43, 41, 39, 33, 34, 38, 35, 31/1, 69/2, 69/1, 68/1, 68/2, 73/10, 73/1, 73/2, 73/3, 74/1/1, 74/2, 75/1/1, 75/1/2, 75/1/3, 75/2, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4; 93/1, 93/2, 96/3, 96/2, 96/1/1, 102, 103, 104, 105/3/1, 166, 164, 163, 56, 52, 51/1/3, 51/2, 40, 32, 36, 37, 31/4, 96/1, 101/1/2, 106, 167, 157/1
Indore	Mhow	Dogar Gaon	260, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 42, 43, 44, 45, 46, 135, 205, 203, 204, 147, 146, 141, 139, 137, 136, 124, 126, 134, 127, 133, 49, 48, 47, 50, 40, 41	260, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 226, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 42, 43, 44, 45, 46, 135, 205, 203, 204, 147, 146, 141, 139, 137, 136, 124, 126, 134, 127, 133, 49, 48, 47, 50, 40, 41, 207, 214, 138, 125, 37, 39/3
Indore	Mhow	Gavali Palasiya	802, 805, 804, 803, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 813/10, 813/11, 831, 832, 833, 834, 835, 836/4, 836/2, 836/3, 839/4, 839/12, 841, 740, 839/5, 839/6, 761, 759/1, 759/2, 758, 757/1, 757/2, 757/3, 756, 755, 750, 749/2, 753/2, 754, 713/3, 713/4, 713/5, 712, 711, 710/3, 709, 703, 702, 701, 700, 60/2, 60/3, 83, 84/2, 84/3, 1033, 1032, 919, 918, 917, 916, 915, 914, 913, 921, 912, 910, 881, 880, 879/1, 879/2, 859, 844, 843, 842, 699, 695, 691, 690, 689, 688, 687686, 675, 676, 677, 678/2, 679/1, 670/1, 670/2, 671/1, 671/2, 672/1, 672/2, 571, 570, 558/1, 569, 568, 573/2, 573/1, 574, 575, 587, 588/1, 579, 592/1, 592/2, 603/1, 602, 603/2, 604, 605, 606/1, 606/2, 606/3, 514/1, 514/2, 512, 511, 509, 319, 501/1, 501/2, 501/3/1, 501/3/2, 501/3/3, 499, 497, 487/1, 486, 485/1, 485/2, 485/3, 484/1, 1011, 488, 496, 495/1, 513/1, 513/2, 513/3, 614, 613, 590, 591, 589/3, 588/2, 588/3, 586, 1108, 1107, 1106, 1118, 1119, 1121, 1122, 1131, 1123, 1132, 1127, 1179, 1180/2, 1182, 1188, 1199/2, 1199/1, 1198, 1197, 1344/4, 13/1, 13/2, 13/3, 1320, 1324/1, 1325/1, 1325/2, 1327/1, 1305, 1306, 1310, 1282/1, 1280, 1279, 1278, 1202, 1203/2, 1207, 1208,	802, 805, 804, 803, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 813/10, 813/11, 831, 832, 833, 834, 835, 836/4, 836/2, 836/3, 839/4, 839/12, 841, 740, 839/5, 839/6, 761, 759/1, 759/2, 758, 757/1, 757/2, 757/3, 756, 755, 750, 749/2, 753/2, 754, 713/3, 713/4, 713/5, 712, 711, 710/3, 709, 703, 702, 701, 700, 60/2, 60/3, 83, 84/2, 84/3, 1033, 1032, 919, 918, 917, 916, 915, 914, 913, 921, 912, 910, 881, 880, 879/1, 879/2, 859, 844, 843, 842, 699, 695, 691, 690, 689, 688, 687, 686, 675, 676, 677, 678/2, 679/1, 670/1, 670/2, 671/1, 671/2, 672/1, 672/2, 571, 570, 558/1, 569, 568, 573/2, 573/1, 574, 575, 587, 588/1, 579, 592/1, 592/2, 603/1, 602, 603/2, 604, 605, 606/1, 606/2, 606/3, 514/1, 514/2, 512, 511, 509, 319, 501/1, 501/2, 501/3/1, 501/3/2, 501/3/3, 499, 497, 487/1, 486, 485/1, 485/2, 485/3, 484/1, 1011, 488, 496, 495/1, 513/1, 513/2, 513/3, 614, 613, 590, 591, 589/3, 588/2, 588/3, 586, 1108, 1107, 1106, 1118, 1119, 1121, 1122, 1131, 1123, 1132, 1127, 1179, 1180/2, 1182, 1188, 1199/2, 1199/1, 1198, 1197, 1344/4, 13/1, 13/2, 13/3, 1320, 1324/1, 1325/1, 1325/2, 1327/1, 1305, 1306, 1310, 1282/1, 1280, 1279, 1278, 1202, 1203/2, 1207, 1208,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1343, 1342, 1341, 1326, 1327/1, 1305, 1306, 1310, 1282/1, 1280, 1279, 1278, 1202, 1203/2, 1207, 1208, 1213, 1214/1, 1215, 1235, 1216/1, 1216/2, 1127, 1152, 1129, 1130, 1124, 806/1, 836/1, 839/9, 839/10, 839/11, 839/7, 760/1, 760/2, 753/1, 713/1, 713/2, 710/2, 704, 60/1, 860, 697, 696, 693, 692, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 685, 678/1, 679/2, 558/2, 601/2, 515, 484/2, 484/3, 489/5, 489/4/2, 489/4/1, 490, 495/2, 610/1, 1109, 1183/3, 1183/4, 1314, 1315, 1324/2, 1303/3, 1309, 1282/2, 1281/1, 1209/1, 1212, 1128, 1125	1213, 1214/1, 1215, 1235, 1216/1, 1216/2, 1127, 1152, 1129, 1130, 1124, 806/1, 836/1, 839/9, 839/10, 839/11, 839/7, 760/1, 760/2, 753/1, 713/1, 713/2, 710/2, 704, 60/1, 860, 697, 696, 693, 692, 87/1, 87/2, 88/1, 88/2, 685, 678/1, 679/2, 558/2, 601/2, 515, 484/2, 484/3, 489/5, 489/4/2, 489/4/1, 490, 495/2, 610/1, 1109, 1183/3, 1183/4, 1314, 1315, 1324/2, 1303/3, 1309, 1282/2, 1281/1, 1209/1, 1212, 1128, 1125
Indore	Mhow	Gangaliya Khedi	198, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 201, 202, 203, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 216, 217	198, 199/1, 199/2, 200/1, 200/2, 200/3, 200/4, 201, 202, 203, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 216, 217, 197, 214, 219, 223
Indore	Mhow	Aashapura	27, 31, 33, 8, 97, 96, 95, 83, 81, 34, 35, 37, 39, 70, 41, 41/173, 43, 40, 42, 45, 78, 40, 69, 80	27, 31, 33, 8, 97, 96, 95, 83, 81, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41/173, 43, 40, 42, 45, 78, 40, 69, 80, 85
Indore	Mhow	Badgauda	272/2, 272/1, 286/2, 286/3, 285/782/1/2, 285/782/2/3, 283/2, 273/1, 273/2, 273/3, 281/1, 281/4, 233/3, 233/1/1, 232/1, 234, 231/2, 231/1, 230/2, 409/1/1, 408/1/2, 410/1/1, 411, 410/2, 424, 423, 430/2, 431, 432/1, 432/2, 433, 434, 435, 436, 437, 432/2, 679, 678, 680, 681, 682, 683, 677, 419/1, 421/2, 420, 422, 423, 414, 415, 416, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/5, 406, 407, 317/2, 316/1, 315, 314/1, 408, 314/2, 313/1, 313/3, 315, 314/1, 408, 314/2, 313/1, 313/3, 300/1, 299, 298/2, 298/1, 297/2, 313/3, 300/1, 299, 298/2, 298/1, 297/2, 283/1, 285, 285/782/2, 649, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 592, 593, 594, 590, 591, 589, 588, 586, 582, 581/1, 574, 572, 565/1, 565/2, 564/1, 564/2, 722/6, 722/4, 722/3, 722/1, 716, 717/1, 715, 714/1, 672, 671/1, 673, 670, 668, 667, 675, 739/788, 676, 677, 771, 641, 741, 773, 684/1, 683, 419/1, 724, 725/1/1, 725/1/2, 725/2/1, 700, 725/2/2, 725/3/1, 725/4, 726, 730/2, 730/1, 731/2, 731/3, 740, 731/1, 739, 739/787, 676, 677, 677, 771, 641, 741, 773, 684/1, 683, 419/1, 724, 725/1/1, 725/1/2, 725/2/1, 700, 725/2/2, 725/3/1, 725/4, 726, 730/2, 730/1, 731/2, 731/3, 740, 731/1, 739, 739/787, 285/7, 82/1/1, 438, 297/5, 297/1, 284/7, 81/3, 653, 654, 655, 603, 582, 583, 584, 578, 577, 576, 575, 287/7	272/2, 272/1, 286/2, 286/3, 285/782/1/2, 285/782/2/3, 283/2, 273/1, 273/2, 273/3, 281/1, 281/4, 233/3, 233/1/1, 232/1, 234, 231/2, 231/1, 230/2, 409/1/1, 408/1/2, 410/1/1, 411, 410/2, 424, 423, 430/2, 431, 432/1, 432/2, 433, 434, 435, 436, 437, 232/2, 679, 678, 680, 681, 682, 683, 677, 419/1, 421/2, 420, 422, 423, 414, 415, 416, 413/1, 413/2, 413/3, 413/4, 413/5, 406, 407, 317/2, 316/1, 315, 314/1, 408, 314/2, 313/1, 313/3, 315, 314/1, 408, 314/2, 313/1, 313/3, 300/1, 299, 298/2, 298/1, 297/2, 313/3, 300/1, 299, 298/2, 298/1, 297/2, 283/1, 285, 285/782/2, 649, 667, 666, 665, 664, 663, 662, 661, 660, 592, 593, 594, 590, 591, 589, 588, 586, 582, 581/1, 574, 572, 565/1, 565/2, 564/1, 564/2, 722/6, 722/4, 722/3, 722/1, 716, 717/1, 715, 714/1, 672, 671/1, 673, 670, 668, 667, 675, 739/788, 676, 677, 771, 641, 741, 773, 684/1, 683, 419/1, 724, 725/1/1, 725/1/2, 725/2/1, 700, 725/2/2, 725/3/1, 725/4, 726, 730/2, 730/1, 731/2, 731/3, 740, 731/1, 739, 739/787, 676, 677, 677, 771, 641, 741, 773, 684/1, 683, 419/1, 724, 725/1/1, 725/1/2, 725/2/1, 700, 725/2/2, 725/3/1, 725/4, 726, 730/2, 730/1, 731/2, 731/3, 740, 731/1, 739, 739/787, 285/7, 82/1/1, 438, 297/5, 297/1, 284/7, 81/3, 653, 654, 655, 603, 582, 583, 584, 578, 577, 576, 575, 287/7
Indore	Mhow	Tinchha	1, 54, 135/1, 139/1, 140/1, 140/2, 141, 142, 144/4, 144/5, 151, 152, 153, 153, 155/2, 156/1/1, 156/1/2, 163, 138	1, 54, 135/1, 139/1, 140/1, 140/2, 141, 142, 144/4, 144/5, 151, 152, 153, 155/2, 156/1/1, 156/1/2, 163, 138, 136/1, 136/2, 139/2, 156/2, 144/3
Indore	Mhow	Telan Badi	18/1, 15/2, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 20, 16/68, 39/64, 40, 41/3, 45, 46/71	18/1, 15/2, 16, 17/1, 17/2, 17/3, 20, 16/68, 39/64, 40, 41/3, 45, 46/71, 41/1

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Indore	Mhow	Maind	319/1, 150/359/2, 318, 150/1/1, 150/1/2/1, 286, 280/2/1, 280/3, 280/4, 280/2/2, 270, 285/5, 282, 281, 252, 253, 254, 255, 268, 251, 261, 147, 243, 145, 146, 211/12, 211/11, 141/1, 211/4, 211/7, 211/6, 211/1/2, 211/8, 209/6, 209/1/1, 210, 209/1/2, 208, 207, 206, 199/2, 199/1, 189/1, 189/2	319/1, 150/359/2, 318, 150/1/1, 150/1/2/1, 286, 280/2/1, 280/3, 280/4, 280/2/2, 270, 285/5, 282, 281, 252, 253, 254, 255, 268, 251, 261, 147, 243, 145, 146, 211/12, 211/11, 141/1, 211/4, 211/7, 211/6, 211/1/2, 211/8, 209/6, 209/1/1, 210, 209/1/2, 208, 207, 206, 199/2, 199/1, 189/1, 189/2, 287, 271, 284, 267, 211/5, 209/7, 209/5, 193
Indore	Mhow	Maind Majra	91/125, 91/108, 91/107/1, 91/107/6, 91/2/3, 91/2/2	91/125, 91/108, 91/107/1, 91/107/6, 91/2/3, 91/2/2
Indore	Mhow	Kadwali	21/176, 21, 22, 23, 24, 25, 54, 52, 53/2, 55, 56, 60, 53/1, 67, 68, 70/1, 70/2, 82, 80, 77, 76/1, 75/2, 74, 94/1, 95, 93/1, 93/2, 150, 149, 148, 153, 155/1, 147, 146, 145, 129, 133/2, 128, 127/1, 127/2, 127/3, 126/2, 125, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 99, 101/5, 98/3, 96, 73/1, 73/2, 27/3, 26/1, 26/2, 64/1, 64/2, 57, 58, 65, 50/4, 71, 81/3, 79/1, 76/2, 75/3, 75/4, 94/2, 144, 132, 126/1, 123, 100, 98/2, 97	21/176, 21, 22, 23, 24, 25, 54, 52, 53/2, 55, 56, 60, 53/1, 67, 68, 70/1, 70/2, 82, 80, 77, 76/1, 75/2, 74, 94/1, 95, 93/1, 93/2, 150, 149, 148, 153, 155/1, 147, 146, 145, 129, 133/2, 128, 127/1, 127/2, 127/3, 126/2, 125, 124/1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 99, 101/5, 98/3, 96, 73/1, 73/2, 27/3, 26/1, 26/2, 64/1, 64/2, 57, 58, 65, 50/4, 71, 81/3, 79/1, 76/2, 75/3, 75/4, 94/2, 144, 132, 126/1, 123, 100, 98/2, 97
Indore	Mhow	Mathopura	2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4/1, 4/2, 4/3, 1, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,	2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4/1, 4/2, 4/3, 1, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9, 11/2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 5/3, 22
Indore	Mhow	Jam Khurd	1, 2, 7, 21, 22, 20, 18, 17, 24, 8, 16, 15, 51, 53, 52, 64, 63, 62, 54, 55, 56, 57, 46, 72, 86, 87, 88, 117, 44, 178, 179, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 167, 166, 158, 157, 155, 154, 156, 153, 152, 151, 150, 239, 246, 248, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 146, 147, 148, 134, 135, 130, 133, 132, 131, 129, 122, 121, 120, 119, 118, 6, 31, 9, 32, 33, 50, 58, 84, 85, 168, 165, 164, 159, 160, 243, 244, 245, 249, 256, 258	1, 2, 7, 21, 22, 20, 18, 17, 24, 8, 16, 15, 51, 53, 52, 64, 63, 62, 54, 55, 56, 57, 46, 72, 86, 87, 88, 117, 44, 178, 179, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 167, 166, 158, 157, 155, 154, 156, 153, 152, 151, 150, 239, 246, 248, 247, 251, 252, 253, 254, 255, 146, 147, 148, 134, 135, 130, 133, 132, 131, 129, 122, 121, 120, 119, 118, 6, 31, 9, 32, 33, 50, 58, 84, 85, 168, 165, 164, 159, 160, 243, 244, 245, 249, 256, 258
Khargone	Maheshwar	Bagdara	189, 190, 183, 184, 185, 188, 125, 138, 132, 136, 133, 137, 124, 134, 126, 127, 128, 135, 139, 141, 142, 116, 123, 122, 121, 120, 119, 143, 144, 145, 107, 106, 109, 105, 103, 102, 101, 100, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 155, 75, 76, 81, 64, 68, 69, 70, 65, 67, 66, 79, 83, 84, 85, 86	189, 190, 183, 184, 185, 188, 125, 138, 132, 136, 133, 137, 124, 134, 126, 127, 128, 135, 139, 141, 142, 116, 123, 122, 121, 120, 119, 143, 144, 145, 107, 106, 109, 105, 103, 102, 101, 100, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 155, 75, 76, 81, 64, 68, 69, 70, 65, 67, 66, 79, 83, 84, 85, 86, 148, 108, 163, 165, 74, 73, 80, 88, 96, 99
Khargone	Maheshwar	Abalya	88, 89, 104/1, 105/1/1, 105/1/2, 111/1/2, 111/1/1, 108/1, 107/1, 100/1/1, 100/1/2, 101/1/1, 103, 93, 106, 112, 110, 109	88, 89, 104/1, 105/1/1, 105/1/2, 111/1/2, 111/1/1, 108/1, 107/1, 100/1/1, 100/1/2, 101/1/1, 103, 93, 106, 112, 110, 109
Khargone	Maheshwar	Kaklaya	66/1, 66/2, 65, 62, 63, 68/2, 68/7	66/1, 66/2, 65, 62, 63, 68/2, 68/7
Khargone	Maheshwar	Somkhedi	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 1, 27	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 3, 18, 1, 27

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)		Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)			
Khargone	Maheshwar	Chikali	86/2, 87/1/2, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 97/1, 97/2, 96/2, 98, 37/1, 36/1, 35/1, 34, 33, 24, 31, 32, 114/2/1, 100/1, 100/2, 100/3, 103, 102, 37/2, 36/2, 22/3, 113/1/2, 28, 29, 40/2, 4, 87/1/1, 89/1, 90, 96/1	86/2, 87/1/2, 87/2, 88/1, 88/2, 88/3, 97/1, 97/2, 96/2, 98, 37/1, 36/1, 35/1, 34, 33, 24, 31, 32, 114/2/1, 100/1, 100/2, 100/3, 103, 102, 37/2, 36/2, 22/3, 113/1/2, 28, 29, 40/2, 4, 86/1, 87/1/1, 89/1, 90, 96/1	
Khargone	Maheshwar	Sulya Khedi	149, 152, 153, 151/1, 151/2, 151/3क, 151/3ख, 136, 29/3, 31/1/1, 31/1/2, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 38/2, 45/1/2, 47/1, 47/2, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 50/1/1/क-1, 50/1/1/क-4, 50/2/2, 50/2/1-ख, 53/1, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 70/1, 70/2, 69/1, 69/2, 68, 80/2, 80/1/1, 81/2, 81/1/2, 81/1/1, 82/1/1, 82/1/2, 82/1/3, 82, 83, 85, 86, 89, 119, 134/1/1, 134/2, 134/1/2, 135, 134/3, 134/4, 154/1क, 154/1ख, 154/1ग, 154/2, 48/1, 48/2, 49, 50/1/1, 75, 72/1, 72/2, 72/	149, 152, 153, 151/1, 151/2, 151/3क, 151/3ख, 136, 29/3, 31/1/1, 31/1/2, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 35/1, 35/2, 38/2, 45/1/2, 47/1, 47/2, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 50/1/1/क-1, 50/1/1/क-4, 50/2/2, 50/2/1-ख, 53/1, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 70/1, 70/2, 69/1, 69/2, 68, 80/2, 80/1/1, 81/2, 81/1/2, 81/1/1, 82/1/1, 82/1/2, 82/1/3, 82, 83, 85, 86, 89, 119, 134/1/1, 134/2, 134/1/2, 135, 134/3, 134/4, 154/1द, 154/1ख, 154/1ग, 154/2, 48/1, 48/2, 49, 50/1/1, 75, 72/1, 148, 150, 30/2/2, 38/1, 72/2, 80/1/2, 84/1, 84/2, 87, 88, 155/1, 155/2/1	
Khargone	Maheshwar	Choli	805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 797, 796, 795, 794, 793, 788, 787, 779, 780, 782, 635, 636, 637, 638, 639/871, 639, 641, 640, 669, 670, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 697, 698, 699, 710, 713, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 750, 758, 764, 765, 766, 767, 761, 444, 443, 441, 439, 438, 436, 437, 450, 431, 432, 433, 434, 435, 429, 430, 423, 425, 422, 421, 253, 289, 288, 287, 290, 286, 285, 282, 281, 279, 290, 286, 285, 282, 281, 279, 280, 304, 303, 302, 301, 300, 310, 311, 299, 298, 296, 292, 385, 389, 388, 387, 390, 410, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 373, 375, 376, 377, 773, 775, 776, 777, 778, 779, 817, 816, 815, 814, 813, 812, 882, 798, 440, 277, 374, 768, 792, 642, 647, 648, 695, 696, 700, 701, 711, 712, 748, 749, 753, 751, 752, 763, 762, 442, 449, 451, 411, 412, 413, 402, 774, 681, 428, 427, 279, 401,	805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 797, 796, 795, 794, 793, 788, 787, 779, 780, 782, 635, 636, 637, 638, 639/871, 639, 641, 640, 669, 670, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 697, 698, 699, 710, 713, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 750, 758, 764, 765, 766, 767, 761, 444, 443, 441, 439, 438, 436, 437, 450, 431, 432, 433, 434, 435, 429, 430, 423, 425, 422, 421, 253, 289, 288, 287, 290, 286, 285, 282, 281, 279, 280, 304, 303, 302, 301, 300, 310, 311, 299, 298, 296, 292, 385, 389, 388, 387, 390, 410, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403, 380, 379, 378, 377, 376, 375, 373, 375, 376, 377, 773, 775, 776, 777, 778, 779, 817, 816, 815, 814, 813, 812, 882, 798, 440, 277, 374, 768, 792, 642, 647, 648, 695, 696, 700, 701, 711, 712, 748, 749, 753, 751, 752, 763, 762, 442, 449, 451, 411, 412, 413, 402, 774, 681, 428, 427, 279, 401,	
Khargone	Maheshwar	Dhabla	11, 14, 15, 46, 49/75, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 45, 47, 48, 50, 49, 51, 7, 8/74, 8, 6/71, 6, 6/69, 56/70, 6/66, 6/72, 65/68, 65/67, 63, 64, 65, 59, 56, 57, 58, 55, 52, 28, 43	11, 14, 15, 46, 49/75, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 45, 47, 48, 50, 49, 51, 7, 8/74, 8, 6/71, 6, 6/69, 56/70, 6/66, 6/72, 65/68, 65/67, 63, 64, 65, 59, 56, 57, 58, 55, 52, 28, 43, 9, 62, 61, 21	
Khargone	Maheshwar	Sheru Khedi	673, 675, 674, 681, 682, 683, 684, 686, 685, 705, 707, 703, 702, 714, 711, 712, 713, 714, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710	673, 675, 674, 681, 682, 683, 684, 686, 685, 705, 707, 703, 702, 714, 711, 712, 713, 721, 722, 723, 726, 727, 729, 730, 731, 709, 708, 672, 680, 687, 706, 735, 734, 733, 710	

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Khargone	Maheshwar	Sagnvi	50/3	50/3, 50/2
Khargone	Maheshwar	Thangaon	249, 150, 151, 152, 155, 146, 165, 164, 163, 162, 577, 578, 600, 602, 621, 622, 580, 579, 581, 582, 583, 584, 161, 157, 584, 161, 157, 619, 620, 583, 585	249, 150, 151, 152, 155, 146, 165, 164, 163, 162, 577, 578, 600, 602, 621, 622, 580, 579, 581, 582, 583, 584, 161, 157, 619, 620, 583, 585
Khargone	Maheshwar	Mandleshwar	146, 249, 147, 136, 135/6, 135/5, 135/4, 135/3, 135/2, 135/1, 133, 107, 108, 109, 244, 245, 246, 247, 248, 148, 149, 149, 150, 151, 110, 116, 117, 131, 132, 125, 151, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 186, 184, 181	146, 249, 147, 136, 135/6, 135/5, 135/4, 135/3, 135/2, 135/1, 133, 107, 108, 109, 244, 245, 246, 247, 248, 148, 149, 150, 151, 110, 116, 117, 131, 132, 125, 151, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 186, 184, 181, 174, 434

III**Part-A**

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Punasa-Sanawad-Omkarshwar (SH-41A)	11.00	Khandwa, Khargone

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Khargone	Sanawad	Sanawad	648, 622/4, 622/2, 622/3, 620/1, 620/2, 620/3, 621, 619/1, 6919/2, 615/1, 615/2, 617, 611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 610, 608, 578/1, 578/2, 577, 580/1, 579/1, 579/2, 579/3, 577/3, 580/4, 581/1, 581/2, 581/3, 581/4, 581/5, 581/6, 594, 582/12, 582/6, 582/2, 582/10, 582/11, 582/13, 582/14, 582/9, 582/8, 588, 586/4, 587, 585, 582/1, 582/4, 582/3, 582/6, 582/7, 584/1, 584/2, 584/3, 584/4, 584/5, 586/5, 586/6, 586/7, 571, 570, 569, 568, 566/4, 566/5, 566/6, 566/7, 567, 623, 612, 609, 580/5, 580/3, 580/2, 589/1, 586/12, 586/13, 586/3, 583/1, 583/2, 586/8, 586/9, 566/2, 566/3, 564	648, 622/4, 622/2, 622/3, 620/1, 620/2, 620/3, 621, 619/1, 6919/2, 615/1, 615/2, 617, 611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 610, 608, 578/1, 578/2, 577, 580/1, 579/1, 579/2, 579/3, 577/3, 580/4, 581/1, 581/2, 581/3, 581/4, 581/5, 581/6, 594, 582/10, 582/11, 582/13, 582/14, 582/9, 582/8, 588, 586/4, 587, 585, 582/1, 582/4, 582/3, 582/6, 582/7, 584/1, 584/2, 584/3, 584/4, 584/5, 586/5, 586/6, 586/7, 571, 570, 569, 568, 566/4, 566/5, 566/6, 566/7, 567, 623, 612, 609, 580/5, 580/3, 580/2, 589/1, 586/12, 586/13, 586/3, 583/1, 583/2, 586/8, 586/9, 566/2, 566/3, 564
Khandwa	Punasa	Inpun	108, 107, 116, 117, 115, 111, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 279, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268/3, 267/3, 264, 307, 310, 331, 332, 334,	108, 107, 116, 117, 115, 111, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 279, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268/3, 267/3, 264, 307, 310, 331, 332, 334, 336, 337, 338/1, 338/2, 339, 340, 341, 342,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)		
			336, 337, 338/1, 338/2, 339, 340, 341, 342, 343, 406, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 114/2, 114/3, 109, 110, 111	343, 406, 405, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 415, 416, 417, 418, 114/2, 114/3, 109, 110, 111, 288, 289, 287, 291, 292, 261, 265, 335, 344/1, 344/2, 404, 402, 403, 410, 419, 420, 114/1
Khandwa	Punasa	Bhoganova	70, 71, 76, 72, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 374, 373, 197, 199, 202, 203, 212, 228, 229, 230, 232, 236/1, 236/2, 239, 278, 279, 280, 281, 266, 265, 264, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 316, 317/1, 317/2, 318, 319, 320, 324, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, , 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 492, 477, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 396/7, 396/13, 397, 395, 401, 68, 69, 74, 77, 383, 376, 192, 193, 194, 198, 204, 231, 268, 267, 263, 290, 315, 529, 514, 513, 515, 496, 495, 497, 493, 494, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 508, 509, 476, 478	70, 71, 76, 72, 378, 379, 380, 381, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 374, 373, 197, 199, 202, 203, 212, 228, 229, 230, 232, 236/1, 236/2, 239, 278, 279, 280, 281, 266, 265, 264, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 316, 317/1, 317/2, 318, 319, 320, 324, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 492, 477, 396/1, 396/2, 396/3, 396/4, 396/5, 396/6, 396/7, 396/13, 397, 395, 401, 68, 69, 74, 77, 383, 376, 192, 193, 194, 198, 204, 231, 268, 267, 263, 290, 315, 529, 514, 513, 515, 496, 495, 497, 493, 494, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 508, 509, 476, 478
Khandwa	Punasa	Kothi	72, 73, 74, 67, 66, 60, 59, 58, 57, 56, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 47, 48, 39, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 23, 19, 18, 17, 16, 14/2, 13/2, 12, 11, 10, 190, 191, 235, 189, 188, 187, 184, 186, 185, 168/2, 150/1, 155/1, 156/1, 116, 115, 114, 111, 110, 109, 99, 98/1, 97, 96/1, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 9, 192, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 209, 226, 227, 215, 228, 230, 231, 232, 275, 274, 273, 272, 271, 269, 270, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 245/2, 244/1, 243, 236/2, 236/4, 236/3, 235/1, 233/1	72, 73, 74, 67, 66, 60, 59, 58, 57, 56, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 47, 48, 39, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 23, 19, 18, 17, 16, 14/2, 13/2, 12, 11, 10, 190, 191, 235, 189, 188, 187, 184, 186, 185, 168/2, 150/1, 155/1, 156/1, 116, 115, 114, 111, 110, 109, 106, 105/1, 104/1, 103, 99, 98/1, 97, 96/1, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 9, 192, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 209, 226, 227, 215, 228, 230, 231, 232, 275, 274, 273, 272, 271, 269, 270, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 245/2, 244/1, 243, 236/2, 236/4, 236/3, 235/1, 233/1
Khandwa	Punasa	Godadh Pura	6, 7/3, 7/2, 7/8, 10, 3, 26/4, 26/5, 22, 19, 26/3, 21, 26/2, 26/1, 20, 23/1, 23/2, 24, 2/17, 2/1, 2/2	6, 7/3, 7/2, 7/8, 10, 3, 26/4, 26/5, 22, 19, 26/3, 21, 26/2, 26/1, 20, 23/1, 23/2, 24, 2/17, 2/1, 2/2, 7/4, 11/5, 11/6, 11/3, 11/7

IV**Part-A**

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Badnawar-Petlawad-Thandla-Limdhni(SH-18)	110.00	Dhar,Jhabua

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line(40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dhar	Badnawar	Pitgara	5/702, 57, 56, 45, 46, 10/1, 10/2, 11, 5/2, 5/1	5/702, 57, 56, 45, 46, 10/1, 10/2, 11, 5/2, 5/1
Dhar	Badnawar	Badnawar	2889/3, 2895, 2896, 2897, 2899/2, 2899/4/1/1, 2899/4/1/2, 2899/4/1/3, 2893/1, 2893/2, 2905, 2226/3/1, 2228, 2229, 2231, 2261, 2266, 2265, 2341, 2340/1, 2340/2, 2338, 2322, 2318/1, 2318/2, 2316, 2317, 2344, 178/2, 178/1, 138, 134, 133, 124, 122, 109, 105/1, 105/2, 104, 102, 100/2, 19/2, 19/1/2, 19/1/1, 19/1/1/2, 18/1/1, 18/1/2, 17/1, 17/2, 13/2, 13/1/1, 13/1/2, 12, 11, 10, 7/1, 7/2, 5/1	2889/3, 2895, 2896, 2897, 2899/2, 2899/4/1/1, 2899/4/1/2, 2899/4/1/3, 2893/1, 2893/2, 2905, 2226/3/1, 2228, 2229, 2231, 2261, 2266, 2341, 2340/1, 2340/2, 2338, 2322, 2318/1, 2318/2, 2316, 2317, 2344, 178/2, 178/1, 138, 134, 133, 124, 122, 109, 105/1, 105/2, 104, 102, 100/2, 19/2, 19/1/2, 19/1/1, 19/1/1/2, 18/1/1, 18/1/2, 17/1, 17/2, 13/2, 13/1/1, 13/1/2, 12, 11, 10, 7/1, 7/2, 5/1
Dhar	Badnawar	Kheda	267, 262, 261, 259, 130, 128, 126, 125, 116, 110, 108, 106, 97, 95, 3, 4, 5, 11	267, 262, 261, 259, 161, 130, 129, 128, 126, 125, 117, 116, 110, 108, 106, 101, 95, 3, 4, 5, 11
Dhar	Badnawar	Sandla	2188, 2185, 2189, 2186, 2181, 2183, 2180, 2179, 2178, 2177, 2176, 2174, 2172, 2170, 2169, 2168, 2165, 2160, 2156, 2148, 2144, 2143, 2048, 2087, 2088, 2085	2188, 2185, 2189, 2186, 2181, 2183, 2180, 2179, 2178, 2177, 2176, 2174, 2172, 2170, 2169, 2168, 2165, 2160, 2156, 2148, 2144, 2143, 2048, 2120, 2119, 2118, 2088, 2085
Dhar	Badnawar	Chandwadiya kala	197, 129, 124, 125, 47, 17, 13, 11, 5, 4	197, 129, 124, 125, 47, 17, 13, 11, 5, 4
Dhar	Badnawar	Handwadiya Khurd	14/2, 8/1/2, 9/2, 10/2, 5/1/2, 4/2, 1/2/1, 1/2/1, 1/3/2, 1/4/2, 1/5/2, 1/6/2, 1/1	14/2, 8/1/2, 9/2, 10/2, 5/1/2, 4/2, 1/2/1, 1/3/2, 1/4/2, 1/5/2, 1/6, 1/6/2, 1/1
Dhar	Badnawar	Chhayan	910, 891, 890, 888, 879, 870, 837, 836, 68, 78,	910, 891, 890, 888, 887, 879, 870, 837, 836, 68, 75, 78, 135, 136,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line(40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			135, 136, 137, 138, 139, 176, 177, 861, 863, 866, 849, 848, 847, 840, 839, 61, 64, 66, 45, 41, 40, 39, 38, 34, 33	137, 138, 139, 176, 177, 861, 863, 866, 849, 848, 847, 840, 839, 61, 64, 66, 45, 41, 40, 39, 38, 34, 33
Dhar	Badnawar	Lilikhedi	790, 791, 792, 799, 801, 283, 256, 255, 254, 252, 236, 222, 220, 180, 179, 178, 173, 129, 809, 810, 844	790, 791, 792, 799, 801, 283, 282, 278, 277, 256, 255, 254, 252, 236, 222, 223, 224, 220, 180, 179, 178, 173, 129, 809, 810, 844
Dhar	Badnawar	Semalkheda	344, 361, 338, 337, 335, 336, 325, 326, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 198, 323	344, 356, 361, 338, 337, 335, 336, 333, 325, 326, 227, 228, 230, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 267, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 198, 323
Dhar	Badnawar	Bhainsola	2261, 2245, 2244, 2243, 2242	2261, 2245, 2244, 2243, 2242
Dhar	Badnawar	Bakhatpura	172, 174, 133, 128, 129, 183, 117, 120, 125, 126	172, 174, 133, 128, 129, 183, 117, 120, 125, 126
Dhar	Badnawar	Dotriya	1126, 1113, 1112, 1111, 1158, 1150, 1123, 1122, 1121, 1114, 1109, 1108, 1073, 509, 395, 659/1, 659/2, 659/3, 265, 392, 387, 267	1126, 1113, 1112, 1111, 1158, 1150, 1123, 1122, 1121, 1114, 1109, 1108, 1073, 509, 395, 659/1, 659/2, 659/3, 265, 392, 387, 267
Jhabua	Petlawad	Kasarwardi	1857/4, 1857/3, 1857/2, 1860, 1862, 1606, 1599/2, 1599/1, 1596, 1585, 1582, 1847, 1845, 1844, 1842/1, 1608, 1609, 1610, 1009/7, 1009/6, 1009/1, 1002/1, 1001, 1000, 999, 998, 997, 978, 979, 971/1, 971/2, 971/3, 969/1, 969/2, 967, 960, 961, 958, 954, 953, 952, 1461, 1459, 1458, 1440, 1439, 1070/1, 1069, 1068, 1067, 1041, 1040, 1012, 1011/4, 762, 763, 764, 773, 774, 806, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 808, 809, 1011/3, 714, 711/4, 710, 684, 680, 679, 524/2, 524/1, 523, 522/1, 522/2, 521, 441, 222/1, 222/2, 223, 218, 219, 219, 189, 188, 162, 160/1, 160/2, 148/1, 145	1857/4, 1857/3, 1857/2, 1860, 1859, 1862, 1606, 1599/2, 1599/1, 1601, 1596, 1585, 1582, 1849, 1847, 1845, 1843, 1842/1, 1615, 1613, 1009/7, 1009/6, 1002/2, 1001, 1000, 999, 998, 997, 978, 979, 974/2, 974/1, 971/1, 971/2, 971/3, 969/1, 969/2, 967, 960, 961, 958, 956, 957, 954, 927, 1458, 1440, 1439, 1070/1, 1069, 1068, 1067, 1041, 1040, 1012, 1011/4, 762, 763, 764, 773, 774, 794, 800, 806, 807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 808, 809, 1011/3, 717, 716, 715, 713, 711/4, 710, 684, 680, 679, 526/1, 526/2, 526/3, 526/4, 526/5, 524/2, 524/1, 523, 522/1, 522/2, 518/2, 518/1, 521, 443, 222/1, 222/2, 223, 218, 219, 189, 188, 162, 160/1, 160/2, 159, 148/2, 148/1, 145

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line(40m, either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jhabua	Petlawad	Chhayanpada	175, 171, 167, 172, 25/1, 25/2, 25/3, 24, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 21/1, 21/2, 17/1, 15, 14, 1, 3	175, 171, 167, 24, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 21/1, 21/2, 17/2, 17/1, 15, 14, 1, 3
Jhabua	Petlawad	Mohanpura	1639, 1637, 1636, 1635, 1634, 1632, 1631, 1630, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1175, 1176, 1174, 1173, 1172, 1171, 1168, 1167, 1118/2, 1118/1, 1123, 1124, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077/1, 1077/2, 1078, 892, 1114, 1110, 1109, 1108, 1106, 1105, 1104, 1097, 1082/1, 1082/2, 1082/3, 1082/4, 1081	1639, 1637, 1636, 1635, 1634, 1632, 1631, 1630, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1176, 1174, 1173, 1172, 1171, 1168, 1167, 1118/2, 1118/1, 1123, 1124, 1072, 1073, 1071/2, 1074, 1069/1, 1069/2, 1075, 1076, 1077/1, 1077/2, 1078, 892, 1114, 1110, 1109, 1108, 1106, 1105, 1104, 1097, 1082/1, 1082/2, 1082/3, 1082/4, 1081
Jhabua	Petlawad	Kundia-Pada	172, 120, 121, 122, 118, 115	172, 122, 118, 115
Jhabua	Petlawad	Hindolabawadi	106, 126, 61, 62, 74/2, 74/1, 79, 89, 84, 85, 83, 49, 48, 58, 57, 56, 28, 27, 13, 11, 9, 8	126, 127, 105, 63, 64, 74/2, 74/1, 77, 78, 89, 84, 85, 86/1, 86/2, 83, 49, 48, 58, 57, 56, 28, 27, 13, 11, 9, 8
Jhabua	Petlawad	Bhamarpada	129, 119, 118, 117	127, 121, 119, 118, 117
Jhabua	Petlawad	Baiganvardi	04, 05, 06,	04, 05, 06,
Jhabua	Petlawad	Chhawani	191, 190/1, 185, 183, 114, 113, 112, 111, 96/2, 96/1, 94, 95, 85, 86, 84, 83, 84, 83, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7	191, 190/1, 183, 114, 113, 112, 96/2, 96/1, 94, 95, 85, 86, 84, 83, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7
Jhabua	Petlawad	Sarangi	2110, 2107, 2040, 2039, 2038, 2037/1, 2037/2, 2037/3, 2037/4, 2018, 2017, 2002/1, 2002/2, 2002/3, 2002/4, 2002/5, 2000/5, 2000/6, 2000/7, 2000/8, 2000/9, 2000/10, 1869, 1872, 1868, 1805, 1784/2, 1783, 1782, 1781, 1774, 1773, 1952, 1951, 1949/4, 1949/3, 1949/2, 1949/1, 1894, 1879/1, 1879/2	2110, 2107, 2040, 2039, 2038, 2037/1, 2037/2, 2037/3, 2037/4, 2017, 2016, 2002/1, 2002/2, 2002/3, 2002/4, 2002/5, 2000/5, 2000/6, 2000/7, 2000/8, 2000/9, 2000/10, 1869, 1872, 1868, 1805, 1784/2, 1783, 1782, 1776, 1779, 1775, 1774, 1773, 1952, 1951, 1949/4, 1949/3, 1949/2, 1949/1, 1893, 1888, 1887, 1884, 1882, 1881, 1879/1, 1879/2

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line(40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jhabua	Petlawad	Bolasa	1785, 1782, 1778, 708, 706/2, 706/1, 705, 704/2, 704/1, 703, 1772, 1776, 730/2, 730/1, 725, 711, 710, 701, 696/2, 696/1/2, 696/1/1, 695/1, 695/2, 695/3, 693/1, 693/2, 693/3, 690, 689	1785, 1782, 1778, 708, 706/2, 706/1, 705, 704/2, 704/1, 703, 1772, 1776, 730/2, 730/1, 725, 726, 724, 711, 710, 699, 701, 696/2, 696/1/2, 696/1/1, 695/1, 695/2, 695/3, 693/1, 693/2, 693/3, 690, 689
Jhabua	Petlawad	Baddikheda	8, 7, 4, 3, 2	8, 7, 6, 10, 4
Jhabua	Petlawad	Temariya	1611, 1610, 1609, 1553, 1552, 1554, 1554, 1551, 1544, 1543, 1542, 755, 764, 759, 801, 802, 914, 915, 916, 620, 621, 636, 637, 657, 658, 668, 670/1, 670/2, 675, 676, 687, 688/1, 689, 692, 693, 695, 696, 697, 615, 613, 611, 395, 394, 392, 373, 372, 366, 365, 364, 361, 356, 355	1610, 1609, 1608, 1553, 1552, 1554, 1551, 1544, 1545, 1543, 1542, 755, 756, 764, 759, 801, 802, 803, 914, 915, 916, 621, 636, 637, 641, 644, 657, 658, 668, 670/1, 670/2, 675, 676, 687, 688/1, 689, 692, 693, 695, 696, 697, 615, 613, 611, 395, 394, 392, 373, 372, 366, 365, 364, 361, 356, 355
Jhabua	Petlawad	Panth-Borali	153, 334, 337, 336, 540, 548, 547, 546, 567, 566, 563	153, 160, 161, 164, 167, 334, 337, 336, 540, 548, 547, 546, 567, 566, 564, 563
Jhabua	Petlawad	Kardhawad	700/1, 701/2, 701/1, 702/1, 702/2, 717, 690, 692, 693, 694, 695, 696/2, 698, 1220, 1222, 1223, 1488, 1493, 1494, 1496, 1497, 1498, 1499, 1505, 1509, 1512, 1516, 1522/3, 1522/2, 1251, 1248, 1247, 1343, 1754/1, 1754/2, 1753, 1750, 1748, 1720, 1719, 1716, 1717, 1707, 1719, 1716, 1717, 1707, 1706, 1705, 1698, 1699, 1700, 1696, 1531, 1533, 2037, 2038, 2042, 2046, 2047, 2047, 2025, 2027, 2029, 1995, 1996, 2034, 2033	700/1, 701/2, 701/1, 702/1, 702/2, 717, 718, 690, 692, 693, 694, 695, 696/2, 698, 1220, 1222, 1223, 1161, 1488, 1493, 1494, 1496, 1497, 1498, 1499, 1505, 1509, 1512, 1516, 1521, 1522/3, 1522/2, 1251, 1248, 1247, 1343, 1754/1, 1754/2, 1753, 1750, 1748, 1720, 1719, 1716, 1717, 1707, 1706, 1705, 1698, 1699, 1700, 1696, 1531, 1533, 2037, 2038, 2042, 2046, 2047, 2027, 2029, 1995, 1996, 2034, 2033
Jhabua	Petlawad	Petlawad	597, 595, 596, 593, 591, 588, 615/1, 569/1, 569/2, 570, 571, 585, 586, 615/1, 615/2, 616, 618/1, 659, 658, 660, 663, 661, 669, 1603, 1012, 1013, 1014, 394, 356, 357, 358, 354, 352, 353, 341/2, 341/1, 346, 347, 348/2, 348/1, 349, 350, 678/1, 678/2, 682, 706, 707, 708, 714	597, 595, 596, 593, 591, 588, 615/1, 569/1, 569/2, 570, 571, 585, 586, 615/1, 615/2, 616, 618/1, 659, 658, 660, 663, 661, 669, 1603, 1012, 1013, 1014, 394, 356, 357, 358, 354, 352, 353, 341/2, 341/1, 346, 347, 348/2, 348/1, 349, 350, 678/1, 678/2, 679, 682, 706, 707, 708, 714

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jhabua	Petlawad	Khoriya	1071, 1067, 1066, 1065, 1064, 1062/1, 1062/2, 1061, 1060, 1082, 1083, 1194, 1193, 1108, 1106, 891, 890/1, 890/2, 889/1, 889/2, 885, 886, 1020, 1018, 1017, 1013, 882, 661, 517, 516, 515, 514, 511/2, 511/1, 510, 505, 504, 503, 500, 440, 439, 437, 435, 434, 388, 387, 386/1, 386/2, 386/3, 663/3, 663/1, 670/1, 673, 674/1, 674/2, 674/3, 675/1, 676, 305, 306, 307, 308, 335, 340/4, 340/3, 341/1, 341/2, 345/1, 345/2, 345/3, 74, 70, 73, 76, 67, 68, 33, 32/2, 30/1	1071, 1067, 1066, 1065, 1064, 1062/1, 1062/2, 1061, 1082, 1083, 1194, 1193, 1108, 891, 890/1, 890/2, 889/1, 889/2, 888, 886, 1020, 1018, 1017, 1013, 882, 661, 517, 516, 515, 514, 511/2, 511/1, 510, 505, 504, 503, 500, 440, 439, 437, 435, 434, 388, 387, 386/1, 386/2, 386/3, 663/3, 663/1, 670/1, 673, 674/1, 674/2, 674/3, 675/1, 676, 305, 306, 307, 308, 335, 340/4, 340/3, 341/1, 341/2, 345/1, 345/2, 345/3, 74, 70, 73, 76, 67, 68, 33, 32/2, 30/1
Jhabua	Petlawad	Unnai	469, 470, 471, 473, 478, 490, 491, 492, 493, 495, 497, 498, 509, 510, 511, 466, 465, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 340, 339, 204, 205, 209, 211, 212, 140, 142, 147, 148, 50, 12, 11, 14, 10, 09, 7, 6, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4	469, 470, 472, 490, 491, 493, 495, 496, 498, 509, 510, 511, 466, 465, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 339, 203, 204, 205, 209, 211, 212, 140, 142, 147, 148, 50, 12, 11, 14, 10, 09, 8, 7, 6, 5, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 397, 395
Jhabua	Meghnagar	Bawadi	107, 110, 111, 114, 277, 278, 280, 263/4, 262, 258, 257, 154, 157, 158, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 287, 286, 254, 253, 251, 250, 246, 245, 212, 211, 207, 205, 203, 201, 188, 187, 186, 185, 177	107, 110, 111, 114, 277, 278, 280, 262, 258, 257, 154, 157, 158, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 287, 286, 254, 253, 251, 250, 246, 245, 212, 211, 207, 205, 203, 201, 188, 187, 186, 185, 177, 263/3
Jhabua	Meghnagar	Kotnai	6, 7, 5, 3, 2	6, 7, 5, 3, 2
Jhabua	Meghnagar	Kundla	67, 68, 69, 76, 75, 78, 79, 81, 82, 86, 89, 90, 64, 63, 53, 52, 54, 51, 50, 44, 39, 38, 22, 23, 4, 3, 72, 70, 80, 85, 56, 49, 5	67, 68, 69, 76, 75, 81, 82, 86, 89, 64, 63, 53, 52, 54, 50, 44, 39, 38, 22, 23, 4, 3, 72, 70, 80, 85, 56, 49, 5
Jhabua	Meghnagar	Mahudha	287, 358, 290, 291, 273, 278, 279, 279, 280, 281, 282	287, 358, 290, 291, 273, 278, 279, 280, 277, 282

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line(40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jhabua	Thandla	Semalpada	178, 176, 174, 169, 164, 161, 159, 154, 153, 152, 138, 136, 135, 182, 181, 75, 77, 79, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 103, 115, 116, 117, 118, 128, 131, 133	178, 176, 174, 169, 164, 161, 159, 154, 153, 152, 138, 136, 135, 182, 181, 75, 79, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 103, 115, 116, 117, 118, 128, 131, 133, 74, 78, 132
Jhabua	Thandla	Navapada-Kalirundi	199, 198, 200, 197, 196, 195, 192, 191, 193, 187, 186, 185, 22	198, 200, 197, 196, 195, 192, 191, 187, 186, 185, 22, 205
Jhabua	Thandla	Naharpura	419, 417, 416, 415, 414, 399, 398, 397, 370, 369, 367, 366, 188, 189, 186, 185, 184, 183, 181, 182, 179	419, 417, 416, 415, 414, 399, 398, 397, 370, 369, 367, 188, 189, 186, 185, 184, 183, 182, 179, 396, 395, 371, 365, 176
Jhabua	Thandla	Machhlai Mata	287/4, 287/3, 254, 252, 251, 249, 241, 240, 228	287/4, 287/3, 254, 252, 251, 249, 241, 240, 228
Jhabua	Thandla	Thandla	463, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 470, 474, 475, 476, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 492, 494, 495, 502, 12, 13, 14, 16, 2, 4, 6, 7	463, 464, 465, 466, 467, 468, 471, 470, 474, 475, 476, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 491, 494, 495, 502, 12, 13, 14, 16, 2, 4, 6, 7
Jhabua	Thandla	Khajuri	449, 448, 502, 503, 504, 505, 506, 445	449, 448, 502, 503, 504, 505, 506, 445
Jhabua	Thandla	Rundipada	100, 57, 55, 46, 45, 44, 200, 40, 41	100, 57, 55, 46, 45, 44, 200, 39, 38
Jhabua	Thandla	Junwaniya Bada	395, 379, 380, 382, 376, 369, 368, 367, 224, 219, 210, 209, 204, 206, 200, 194	395, 379, 380, 382, 376, 369, 368, 367, 224, 219, 210, 209, 204, 206, 200, 211, 195, 193, 225
Jhabua	Meghnagar	Devigarh	543, 546, 542, 541, 540, 539, 526, 525, 411, 409, 406, 405, 404, 403, 402, 397, 391, 389	546, 542, 541, 540, 539, 526, 525, 411, 409, 406, 405, 404, 403, 402, 397, 391, 389, 547, 524
Jhabua	Thandla	Junwaniya Chhota	641, 648, 640, 638, 624, 623, 572, 571, 570, 567, 550, 564, 563, 562, 560, 559, 554, 553	648, 640, 638, 624, 623, 572, 571, 570, 567, 550, 564, 563, 562, 560, 559, 554, 553, 642, 626, 547, 548, 558
Jhabua	Thandla	Parwaliya	1570, 1488, 971, 972, 1485, 1225, 1226/2, 1227, 1228, 1229, 1234, 1235, 1243, 1244, 848, 849, 968, 966, 967, 925/3, 925/4, 926, 927, 928, 929	1570, 1488, 971, 972, 1485, 1225, 1226/2, 1227, 1228, 1229, 1234, 1235, 1243, 1244, 848, 849, 968, 966, 967, 925/3, 925/4, 926, 927, 928, 929, 989, 995, 996, 1241

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jhabua	Meghnagar	Jhapadra	271, 266, 261, 262, 263, 200, 199, 198, 194, 193, 149, 147, 147/719/2, 68, 66, 65, 59, 58, 56, 29, 28, 19, 13, 12, 11, 10, 9, 3	271, 266, 261, 262, 263, 200, 199, 198, 194, 193, 149, 147, 147/719/2, 68, 66, 65, 59, 58, 56, 29, 28, 19, 13, 12, 11, 10, 9, 4
Jhabua	Thandla	Chikaliya	449, 448, 447, 418, 416/7, 400, 399/1, 399/2, 397/1, 397/2, 396, 395, 394, 183, 182, 181, 180, 171/3, 170, 169,	449, 448, 447, 418, 416/7, 400, 399/1, 399/2, 397/1, 397/2, 396, 395, 394, 183, 182, 181, 180, 171/3, 170, 169, 416/6
Jhabua	Thandla	Dolatpura	919, 859, 855/1, 855/2, 854, 852/2	919, 859, 855/1, 855/2, 854, 852/2, 853
Jhabua	Thandla	Aamli	651/2, 644, 643, 642, 641, 640, 639, 524, 501, 499, 473, 470, 468, 467, 465, 464, 457, 454	651/2, 644, 643, 642, 641, 640, 639, 524, 501, 499, 473, 470, 468, 467, 465, 464, 457, 454, 651/1
Jhabua	Meghnagar	Itawa	427, 428, 425, 424, 423, 410, 416, 415, 96, 95, 94, 74, 72, 71, 59, 53, 4, 11, 10, 15	427, 428, 425, 424, 423, 410, 416, 415, 96, 95, 94, 74, 71, 59, 53, 4, 11, 10, 15, 73, 13
Jhabua	Thandla	Morjhari	406, 412, 413, 439/1, 439/2, 439/3, 440, 443, 444, 447, 449, 651, 652, 654, 793, 791, 790, 879, 880, 891, 892, 895, 982, 985, 915, 914, 918, 919, 251, 334, 335, 336, 337, 342, 796, 797, 799, 800, 802, 803, 807, 872, 870, 869, 866, 865, 864, 863/1	406, 412, 413, 439/1, 439/2, 439/3, 440, 443, 444, 447, 449, 651, 652, 654, 793, 791, 790, 879, 880, 891, 892, 895, 982, 985, 915, 914, 918, 919, 251, 334, 335, 336, 342, 796, 797, 799, 800, 802, 803, 807, 872, 870, 869, 866, 865, 864, 863/1, 442, 338
Jhabua	Thandla	Ganeshpura	391, 392, 393, 394, 396, 194, 216, 231, 14/2, 14/1, 13, 10, 9, 7, 6, 5, 2, 389, 388, 386, 385, 359, 356, 333, 332, 331, 330, 328, 327, 243, 244, 238, 234	391, 392, 393, 394, 396, 194, 231, 14/2, 14/1, 13, 10, 9, 7, 6, 5, 2, 389, 388, 386, 385, 359, 356, 332, 331, 330, 328, 238, 234, 397, 215/1, 360, 334, 235
Jhabua	Thandla	Kakanwani	610, 609, 608, 598, 176, 171, 168, 167, 164, 138, 132, 133, 134, 99, 135, 100, 98, 79, 76, 75, 2, 498, 496, 495, 471, 470, 468, 467, 466, 507, 347, 346, 345, 344, 343, 300, 298, 293, 212, 213, 214, 210, 209, 202, 201, 199, 195, 147, 195	610, 609, 608, 598, 176, 171, 168, 167, 164, 138, 132, 133, 134, 100, 98, 79, 76, 75, 2, 498, 496, 495, 471, 470, 468, 467, 466, 606, 163/2, 162, 147, 507, 347, 346, 345, 344, 343, 300, 298, 293, 214, 210, 209, 202, 201, 199, 195, 147, 162, 163/2, 606

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line(40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jhabua	Thandla	Goriya Khadan	170, 124, 121, 120, 119/1, 118, 113, 108, 39, 41, 38, 31, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 449, 448, 102, 103, 177, 178, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 276, 277, 284, 285, 119/2, 112, 117, 109, 42	170, 124, 121, 120, 119/1, 118, 113, 108, 39, 41, 38, 31, 13, 12, 11, 10, 9, 2, 449, 448, 102, 103, 177, 178, 198, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 276, 277, 284, 285, 119/2, 112, 117, 109, 42
Jhabua	Thandla	Devka	314, 313, 321, 342, 343, 344, 357, 358, 401, 544, 545, 157, 169, 177, 186, 218, 219, 220, 256, 275, 315, 345, 400	321, 343, 344, 357, 358, 401, 544, 157, 169, 177, 186, 218, 219, 220, 256, 275, 315, 345, 400
Jhabua	Thandla	Harinagar	123, 117	123, 117
Jhabua	Thandla	Ramnagar	23, 22, 20, 10, 8, 7	23, 22, 20, 10, 8, 7, 21
Jhabua	Thandla	Battha	938, 939, 734, 733, 732, 730, 729, 728, 727, 714, 713, 711, 710, 667, 646, 524, 525, 526, 530, 531, 532, 533, 534, 556, 557, 558, 559, 567, 568, 569, 584, 602, 603, 606, 607, 643, 639, 647, 562, 563, 608	938, 939, 734, 733, 732, 730, 729, 728, 727, 714, 713, 711, 710, 667, 646, 524, 525, 526, 530, 531, 532, 533, 534, 556, 557, 558, 559, 567, 568, 569, 584, 602, 603, 606, 607, 643, 639, 647, 562, 563, 608
Jhabua	Thandla	Chhayan	217, 215, 213, 212, 211, 210, 209, 208, 199, 193, 192, 186, 181, 125, 116, 117, 129, 130, 131, 136, 153, 154, 136, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 168, 178, 177	217, 215, 213, 212, 211, 210, 208, 199, 193, 192, 186, 181, 125, 116, 117, 129, 130, 131, 136, 153, 154, 155, 156, 166, 167, 168, 178, 177, 195, 194, 190, 132, 133, 134, 169, 176
Jhabua	Thandla	Balwasa	1413, 1407, 1408, 1406, 1394, 1263, 1262, 1261, 1260, 1258, 1254, 1253, 1225, 1224, 1223, 1221, 1220, 1207, 1208, 1038, 1039, 1031, 1030, 1031, 1030, 1029, 1204, 1202, 1199, 1200, 1182, 1176, 1170, 1138, 1137, 1106, 1107, 1095, 1094, 1097, 1102, 1093, 1049, 1046, 1045, 1044, 1041, 250, 251, 259, 258, 1015, 1013, 998, 996, 728, 727, 726, 723, 722, 721, 717, 712/2, 699, 542, 529, 530, 528, 539, 527, 523, 442, 457, 412, 410, 409/1, 408, 393, 391, 1412, 1257, 1252, 1209, 1186, 1169, 1171, 1172, 1166, 1167, 1141, 1139, 1136, 1105, 1103, 1092, 1043, 999, 729/1, 735, 720, 407, 406	1413, 1408, 1406, 1394, 1263, 1262, 1261, 1260, 1258, 1254, 1253, 1225, 1224, 1223, 1221, 1220, 1208, 1038, 1039, 1031, 1030, 1029, 1204, 1202, 1199, 1182, 1176, 1170, 1106, 1107, 1102, 1093, 1049, 1046, 1044, 104, 250, 251, 259, 258, 1015, 1013, 998, 996, 728, 727, 726, 723, 717, 712/2, 699, 542, 529, 530, 528, 539, 527, 523, 442, 457, 412, 410, 409/1, 408, 393, 391, 1412, 1257, 1252, 1209, 1186, 1169, 1171, 1172, 1166, 1167, 1141, 1139, 1136, 1105, 1103, 1092, 1043, 999, 729/1, 735, 720, 407, 406

Under Section 12(2) of Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, any or all persons affected by such notification who may wish to make any objection or suggestion with respect to the issue of such notification, may submit their objections or suggestions in writing to the Highway Authority (Managing Director/Divisional Manager M.P. Road Development Corporation Ltd.) or appear before such authority within one month of the publication of the notification in the official Gazette or within 15 days from the date of the publication of the notification in the village, whichever period expires later.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2015

क्रमांक F-23-4/15 / भा./19 मध्यप्रदेश राजमार्ग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2005) की धारा 12 (1) के निवंधनों के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निम्न अनुसूची के खण्ड-अ में वर्णित राज्य राजमार्ग के लिए खण्ड-ब में अंकित भूमि विवरण के अनुरूप भवन रेखा एवं नियंत्रण रेखा की अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित है :—

I)

"खण्ड-अ"

अ. क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले
1	दिनारा से खनियांधाना वायां पिछोर (राज्य राजमार्ग क्र.-19)	52.00 किमी.	शिवपुरी

खण्ड - "ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)					नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
शिवपुरी	करौरा	अलगी आवास	1390, 1427, 1437	1391, 1389,	1392, 1434,	1432, 1435,	1428, 1436,	1390, 1427, 1437,	1391, 1389, 1394	1392, 1434, 1435,	1432, 1435, 1436,	1428, 1436,
शिवपुरी	करौरा	दिनारा	1731, 1727, 1768, 1716	1722, 1745 / 1, 1769, 614	1724, 1766, 1720, 1306	1725, 1774, 1718, 1307	1726, 1774, 1717, 1303	1731, 1727, 1769, 1716	1722, 1745 / 1, 1720, 1728	1724, 1774, 1717, 1745 / 2,	1725, 1768, 1716, 1778	1726, 1768, 1716, 1775
शिवपुरी	करौरा	दबरा दिनारा	307, 299, 242, 265, 247, 1310, 1360, 1364, 1367 / 2, 1391, 1336 / 2, 1406, 1200, 1202 / 1, 1237, 627, 312, 503, 542, 548,	308, 298, 240, 261, 248, 1309, 1361, 1365, 1367 / 3, 1399, 1335, 1405, 1199, 1202 / 2, 1238, 620, 313, 504, 543, 549,	303, 78, 267, 250, 1307, 1312, 1362, 1366, 1367 / 1, 1398, 1427, 1401, 1201, 1214, 1226, 265, 310, 502, 542, 549, 1314,	302, 243, 268, 246, 1303, 1310, 1360, 1366, 1367 / 2, 1336 / 1, 1407, 1199, 1203, 1226, 262, 311, 503, 543, 550, 1365,	301, 244, 264, 246, 1303, 1310, 1360, 1366, 1367 / 3, 1336 / 2, 1427, 1401, 1201, 1214, 1226, 626, 312, 504, 544, 305, 1367,	299, 240, 249, 1307, 1313, 1363, 1367 / 1, 1390, 1336 / 1, 1406, 1200, 1202 / 1, 1238, 248, 507, 548, 261, 1398, 421, 506, 546, 304, 1388, 485, 567,				

जिला	तहसील	ग्राम	मवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)						
				1	2	3	4	5	6	7
				564,	562,	618,	663,	1166,	1239,	
				1236,	1228,	1234,	1235,	1203,		
				1202,	1198,	1404,	1403,	1407,		
				1437,	1438,	1447				
शिवपुरी	करैरा	सलैया	69, 72, 268, 73, 74, 75, 76, 84, 83, 85, 82, 87, 88, 89, 262, 258, 270, 261, 257, 256, 254, 253, 917, 252/1, 252/2, 251, 250, 249, 246, 247, 245, 244, 242, 237, 235, 234, 230, 229, 228, 226, 208, 207, 211, 206, 204, 205, 189, 186, 185, 184, 183, 34, 33, 35, 39, 40, 41, 47, 50, 51, 67, 66, 64, 65, 62, 61	69, 72, 268, 73, 74, 75, 84, 83, 85, 82, 87, 88, 262, 258, 270, 261, 257, 254, 253, 917, 252/1, 252/2, 251, 250, 249, 246, 247, 244, 242, 237, 235, 234, 229, 228, 226, 208, 207, 206, 204, 205, 189, 186, 184, 183, 34, 33, 35, 39, 41, 47, 50, 51, 67, 66, 65, 62, 61	76, 89, 256, 245, 230, 211, 185, 40, 64					
शिवपुरी	करैरा	डामरौन कला	221/16, 225, 223, 247, 228, 229, 246, 248, 249, 250, 254, 253, 257, 376, 375, 378, 377, 374, 395, 399, 330, 301, 298, 303, 304, 311, 356, 380, 379, 373, 381, 382, 303, 304, 474, 475, 479, 478, 480, 496, 500, 501, 510, 290, 291, 502, 251, 283, 357, 384, 383, 471, 476	221/16, 225, 223, 247, 228, 246, 248, 249, 250, 254, 257, 376, 375, 378, 377, 395, 399, 330, 301, 298, 304, 311, 356, 380, 379, 381, 382, 303, 304, 474, 479, 478, 480, 496, 500, 510, 290, 291, 502, 251, 357, 384, 383, 471, 476, 230, 248, 257, 282, 294, 306, 352, 396, 392, 393, 472, 473, 497	229, 253, 374, 303, 373, 501, 283, 226, 305, 388					
शिवपुरी	करैरा	डामरौन खुर्द	1, 2, 3, 4, 12, 13, 24, 20, 21, 22, 23, 96, 95, 92, 91, 89, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 38, 87,	1, 2, 3, 4, 12, 5, 13, 24, 20, 21, 32, 33, 36, 38, 26, 25, 79, 80, 81, 89, 95, 96, 93, 92, 91, 90, 87, 5, 35, 36, 132						
शिवपुरी	पिछोर	हिम्पतपुर	43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 55, 56, 57, 296, 297, 251, 242, 241, 243, 224, 1205, 1207, 1208, 1209, 1225, 1234, 1235, 1233, 1232, 1231, 1259, 1258, 1360, 1284, 1287, 1283, 1281, 1280, 1238, 1237, 1203, 1204, 1212, 1199, 347, 348, 350, 351, 345, 344, 342, 343, 339, 340, 338, 326, 228, 329, 322, 332, 320, 318, 315, 310, 308, 305, 299	43, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 63, 55, 56, 296, 297, 251, 242, 241, 224, 1205, 1207, 1208, 1225, 1234, 1235, 1233, 1231, 1259, 1258, 1360, 1287, 1283, 1281, 1280, 1237, 1203, 1204, 1212, 347, 348, 350, 351, 345, 342, 343, 339, 340, 338, 228, 329, 322, 332, 320, 315, 310, 308, 305, 299, 288, 295, 1206, 1285, 1287, 1280, 1205, 1242, 1201, 392/3, 351, 390, 370, 320, 317, 316, 309, 304, 301, 300	51, 57, 243, 1209, 1232, 1284, 1238, 1199, 344, 326, 318, 45, 1282, 1200, 318					

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं.	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं.
			(वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	(वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
शिवपुरी	पिछौर	करार खेड़ा	708, 741, 740, 745, 746, 841, 848, 849, 850, 852, 853, 854, 856, 857, 1241, 859, 2166, 1265/1, 1265/2, 1264/1, 1263/4, 1471, 1472, 1473, 1474, 1518, 1476, 1478, 1477, 1480, 1482, 1487, 1480, 1481/1, 1481/2, 1486, 1288, 1270, 1269, 1271, 1273, 1274, 1275, 1276, 1282, 1283, 1284, 1285, 1308, 1309, 1312, 1313, 1323, 1324, 1265/2, 1263/2, 1466, 1427, 1470, 1469, 1475, 1476, 1361, 1328, 1362, 1323, 1364, 1463, 1462, 1467, 1470, 1487, 1488, 1489, 1490, 3309, 3311, 3314, 3312, 3313, 1330, 3333, 3334, 3335, 3337, 3336, 3338, 3230, 3231, 3233, 3232/1, 3232/1, 3232/2, 3232/3, 3235, 3234, 3235, 3236, 3237, 3242, 3240, 3241, 2933, 2931, 3241, 2935, 2936, 2937, 2918, 2901, 2902, 2904, 2905, 2907, 2906, 2910, 2911, 2913, 2914, 2915, 2916, 2954, 3020, 3024, 3023, 3025, 3026, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 2677, 2673, 2677, 2688, 2687, 2689, 2691, 2692, 2693, 2694, 2698, 2697, 2745, 2746, 2747, 2754, 2753, 2754, 2759, 2771, 2911, 2906, 2911, 2940, 2941, 2937, 2936, 2973, 2972, 2974, 2975, 3197, 3198, 3199, 3200, 3198, 3204/2, 3204/1, 3205/4, 3205/1, 3205/3, 3205/2, 3205/1, 3204/1, 3205/1, 3224, 3206/1, 3225, 3226, 3227, 3238, 3239, 3246, 3247, 3243, 3242, 3469, 3438, 3437, 747, 842, 858, 1519, 1520, 1517, 1118, 1506, 1505, 1485, 1501, 1499, 1498, 1496, 1495, 1493, 1492, 3302, 3307, 3308, 3310, 3316, 3315, 3313, 3319, 3321, 3331, 32138, 3239, 2932, 2929, 2930, 2928, 2900, 2898, 2899, 2897, 2895, 2896, 2897, 2760, 2758, 2755, 2750, 2751, 2744, 2701, 2690, 2687, 3046, 3042, 3032, 3027, 3022, 3023, 3021, 2955, 2956, 2953, 2952, 2951, 2912, 2942, 3201, 3202, 3206/6, 3221, 3222, 3343, 3229, 3471, 3449, 3465, 1468, 1465,	708, 741, 740, 745, 746, 841, 848, 849, 850, 852, 853, 854, 856, 857, 1241, 859, 2166, 1265/1, 1265/2, 1264/1, 1263/4, 1471, 1472, 1473, 1474, 1518, 1476, 1478, 1477, 1480, 1482, 1487, 1480, 1481/1, 1481/2, 1486, 1288, 1270, 1269, 1271, 1273, 1274, 1275, 1276, 1282, 1283, 1284, 1285, 1308, 1309, 1312, 1313, 1323, 1324, 1265/2, 1263/2, 1466, 1427, 1470, 1469, 1475, 1476, 1361, 1362, 1328, 1364, 1361, 1328, 1362, 1467, 1470, 1487, 1488, 1489, 1490, 3309, 3311, 3314, 3312, 3313, 3333, 3334, 3335, 3337, 3233, 3232/1, 3232/2, 3232/3, 3235, 3234, 3235, 3236, 3237, 3242, 3240, 3241, 2933, 2931, 3241, 2935, 2936, 2937, 2918, 2901, 2902, 2904, 2905, 2907, 2906, 2910, 2911, 2913, 2914, 2915, 2916, 2954, 3020, 3024, 3023, 3025, 3026, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 2688, 2673, 2677, 2688, 2687, 2689, 2691, 2692, 2693, 2694, 2698, 2697, 2745, 2746, 2747, 2754, 2753, 2754, 2759, 2771, 2911, 2906, 2911, 2940, 2941, 2937, 2936, 2973, 2972, 2974, 2975, 3197, 3198, 3199, 3200, 3204/2, 3204/1, 3205/4, 3205/3, 3205/2, 3205/1, 3224, 3206/1, 3225, 3226, 3227, 3238, 3239, 3246, 3247, 3243, 3242, 3469, 3438, 3437, 747, 842, 858, 1519, 1520, 1517, 1118, 1506, 1505, 1485, 1501, 1499, 1498, 1496, 1495, 1493, 1492, 3302, 3307, 3308, 3310, 3316, 3315, 3313, 3319, 3321, 3331, 32138, 3239, 2932, 2929, 2930, 2928, 2900, 2898, 2899, 2897, 2895, 2896, 2897, 2760, 2758, 2755, 2750, 2751, 2744, 2701, 2690, 2687, 3046, 3042, 3032, 3027, 3022, 3023, 3021, 2955, 2956, 2953, 2952, 2951, 2912, 2942, 3201, 3202, 3206/6, 3221, 3222, 3343, 3229, 3471, 3449, 3465, 1468, 1465,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)										
				1	2	3	4	5	1281,	1277,	1275,	1272,	1269,	
									696,	697,	739,	746,	842,	858,
									1472,	1517,	1519,	1483,	1507,	
									1506					
शिवपुरी	पिछोर	कछौआ	83, 84, 86, 87, 112, 113, 614, 114, 115, 117, 116, 129, 171, 170, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 1397, 1396, 1394, 1393, 1392, 1390, 1311, 1416, 1417, 1415, 1423, 1424, 1389, 1385, 1384, 1382, 1383, 1381, 1380, 1379, 183, 134, 238, 213, 224, 232, 222, 223, 221, 220, 219, 217, 200, 199, 275, 198, 197, 195, 192, 194, 191, 190, 189, 188, 187, 184	83, 84, 86, 87, 112, 113, 614, 114, 115, 117, 116, 129, 171, 170, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 1397, 1396, 1394, 1393, 1392, 1390, 1311, 1416, 1417, 1415, 1423, 1424, 1389, 1385, 1384, 1382, 1383, 1381, 1380, 1379, 183, 134, 238, 213, 224, 232, 222, 223, 221, 220, 219, 217, 200, 199, 275, 198, 197, 195, 192, 194, 191, 190, 189, 188, 187, 184, 85, 82, 117, 116, 128, 129, 130, 131, 173, 174, 177, 179, 1399, 1395, 1412, 1450, 1449, 1419, 1422, 1386, 1388, 1376, 235, 236, 225, 226, 222, 227, 218, 201, 202, 186										
शिवपुरी	पिछोर	नॉद	687, 713, 714, 715, 723, 722, 725, 726, 729, 731, 751, 752, 754, 2204, 2202, 2197, 2157, 2156, 2152, 2148, 2147, 2146, 2143, 2142, 21441, 2123, 2069, 1984, 1975, 1977, 1961, 1962, 1964, 1969, 1724, 1730, 1729, 1606, 1692, 1687, 1681, 1688, 1683, 1676, 1584, 1582, 1581, 1578, 1577, 1576, 1570, 1569, 1571, 1538, 1535, 1540, 1529, 1527, 1526, 1525, 1451, 1449, 1450, 1446, 1448, 1443, 1441, 1440, 1438, 1434, 3425, 3424, 3216, 3417, 3418, 3413, 3410, 3409, 3408, 3407, 3398, 3400, 3401, 3319, 3320, 3396, 3395, 3394, 3391, 3388, 3387, 3385, 3386, 3382, 3381, 3380, 3377, 3370, 3369, 3368, 3367, 3368, 3365, 3364, 3363, 3361, 3362, 3356, 3355, 3349, 3352, 2564, 2550, 2556, 2584, 2585, 2360, 2358, 2355, 2352, 2349, 2345, 2346, 2342, 2343, 2340, 2338, 2337, 2330, 2328, 2205, 2209, 2208, 2207, 2211, 2215, 2214, 749, 736, 734, 733	687, 713, 714, 715, 723, 722, 725, 726, 729, 731, 751, 752, 754, 2204, 2202, 2197, 2157, 2156, 2152, 2148, 2147, 2146, 2143, 2142, 21441, 2123, 2069, 1984, 1975, 1977, 1961, 1962, 1964, 1969, 1724, 1730, 1729, 1606, 1692, 1687, 1681, 1688, 1683, 1676, 1584, 1582, 1581, 1578, 1577, 1576, 1570, 1569, 1571, 1538, 1535, 1540, 1529, 1527, 1526, 1525, 1451, 1449, 1450, 1446, 1448, 1443, 1441, 1440, 1438, 1434, 3425, 3424, 3216, 3417, 3418, 3413, 3409, 3408, 3407, 3319, 3320, 3396, 3394, 3391, 3388, 3387, 3385, 3386, 3382, 3381, 3380, 3377, 3370, 3369, 3368, 3367, 3366, 3364, 3363, 3361, 3360, 3359, 3356, 3355, 3349, 3352, 2564, 2550, 2556, 2554, 2355, 2352, 2346, 2342, 2343, 2340, 2338, 2337, 2330, 2328, 2205, 2209, 2208, 2207, 2211, 2215, 2214, 749, 736, 734, 733										

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)					नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)							
			1	2	3	4		5							
शिवपुरी	पिछोर	पारेश्वर	90,	141,	1624,	1623,	1622,	90,	141,	1624,	1623,	1622,	1621,		
			1621,	1610,	1620,	1612,	1609,	1610,	1620,	1612,	1609,	1613,			
			1613,	1614,	1616,	1618,	1619,	1614,	1616,	1618,	1619,	1617,			
			1617,	1576,	1574,	1569,	1568,	1576,	1574,	1569,	1568,	1567,			
			1567,	1566,	1557,	1544,	1553,	1566,	1557,	1544,	1553,	1645,			
			1645,	1644,	1642,	1641,	1640,	1644,	1642,	1641,	1640,	1637,			
			1637,	1638,	1636,	1637,	1635,	1638,	1636,	1637,	1635,	1634,			
			1634,	1632,	1633,	1631,	1630,	1632,	1633,	1631,	1630,	1629,			
			1629,	1628,	1827,	1626,	1575,	1628,	1827,	1626,	1575,	159 / 2 / 2,			
								159 / 3,	159 / 4,		1620 / 1 / 1 / 2,				
								1599 / 4,	1599 / 3,	1600 / 2,	1612,				
								1613,	1619,	1616,	1615,	1577,			
								1570,	1562,	1565,	1555,	1559			
शिवपुरी	करैरा	कुचलौन	31,	30,	29,	28,	26,	25,	31,	30,	29,	28,	26,	25,	22,
			22,	23,	20,	23,	22,	19,	23,	20,	23,	22,	19,	18,	104,
			18,	104,	105,	106,	109,	105,	106,	109,	110,	111,	117,	116,	
			110,	117,	116,	118,	119,	118,	119,	141,	142,	143,	144,		
			141,	142,	143,	144,	180,	180,	190,	191,	193,	192,	268,		
			190,	191,	193,	192,	268,	44,	45,	50,	52,	56,	57,	58,	
			44,	45,	50,	52,	56,	59,	66,	67,	65,	68,	69,	91,	
			58,	59,	66,	67,	65,	68,	266,	278,	254,	51,	102,	279,	
			69,	91,	266,	278,	254,	69,	278,	277,	280,	70,	71,	27,	24,
			102,	279,	278,	277,	280,	18,	16,	116,	121 / 2,	189,	188,		
			70,	71				280,	71,	60,	50,	46			
शिवपुरी	पिछोर	नयागांव	1255,	1254,	1185,	1184,	1183,	1255,	1254,	1185,	1184,	1183,			
			1171,	1170,	864,	825,	863,	1171,	1170,	864,	825,	863,	867,		
			867,	866,	869,	900,	888,	866,	869,	900,	888,	901,	904,		
			901,	904,	905,	906,	907,	905,	906,	907,	909,	910,	911,		
			909,	910,	911,	912,	913,	912,	913,	914,	915,	949,	916,		
			914,	915,	949,	916,	917,	917,	923,	924,	928,	975,	1977,		
			923,	924,	928,	975,	1977,	1978,	1976,	1979,	1980,	1980,	1901,		
			1978,	1976,	1979,	1980,	1901,	1902,	1903,	2032,	2035,	2035,	2038,		
			1902,	1903,	2032,	2035,	2038,	2051,	2036,	2037,	2041,	2041,	2053,		
			2051,	2036,	2037,	2041,	2053,	2052,	2061,	2065,	2070,	2070,	2071,		
			2052,	2061,	2065,	2070,	2071,	2080,	2081,	2366,	2365,	2364,	2364,		
			2080,	2081,	2366,	2365,	2364,	2364 / 2481 / 1,	2324 / 2481 / 2,	2324 / 2481 / 2,	2324 / 2481 / 2,	2324 / 2481 / 2,	2343,		
			2364 / 2481 / 1,					4353 / 1,	2353 / 2,	2352,	2349 / 3,				
			2343,	4353 / 1,	2353 / 2,	2352,		2349 / 4,		2349 / 2,	2349 / 5,				
			2349 / 3,		2349 / 4,	2349 / 2,		2249 / 2480,		2349 / 6 / 1,	2349 / 6 / 1,				
			2349 / 5,		2249 / 2480,	2349 / 6,		2349 / 6 / 2,	2349 / 6 / 3,	2349 / 6 / 7,	2349 / 6 / 7,				
			2349 / 6 / 1,			2349 / 6 / 2,		2349 / 8,	846,	439,	838,	818,	857,		
			2349 / 6 / 3,		2349 / 6 / 7,	2349 / 8,		860,	861,	862,	649,	850,	813,		
			846,	439,	838,	818,	857,	812,	809,	808,	800,	799,	730,		
			860,	861,	862,	649,	850,	729,	728,	727,	725,	726,	727,		
			813,	812,	809,	808,	800,	724,	723,	722,	721,	720,	719,		
			799,	730,	729,	728,	727,	718,	717,	712,	713,	714,	711,		
			725,	726,	727,	724,	723,	709,	708,	707,	505,	494,	495,		
			722,	721,	720,	719,	718,	493,	490,	489,	485,	479,	484,		
			717,	712,	713,	714,	711,	483,	2132,	2134,	2133,	2130,			
			709,	708,	707,	505,	494,	2128,	2127,	2126,	2121,	2120,			
			495,	493,	490,	489,	485,	2118,	2115,	2097,	2095,	2094,			
			479,	484,	483,	2132,	2134,	2092,	2093,	2089,	2084,	2083,			

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं.	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं.
			(वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	(वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
			2133, 2130, 2128, 2127, 2126, 2121, 2120ख, 2118, 2115, 2097, 2095, 2094, 2092, 2093, 2089, 2084, 2083, 2085/2, 2095, 2096/2, 2096/3, 2096/4, 2096/5, 2096/6, 2339, 2340, 2341, 2342, 42344, 42344, 2300, 2345, 2347, 2475, 2475	2085/2, 2095, 2096/2, 2096/3, 2096/4, 2096/5, 2096/6, 2339, 2340, 2341, 2342, 42344, 2300, 2345, 2347, 2475, 1256, 1257, 1281, 1279, 1280, 1173, 868, 870, 903, 908, 1021, 1018, 1007, 950, 949, 948, 946, 947, 945, 918, 1969, 1971, 1968, 1983, 1984, 1991, 1998, 1997, 2039, 2033, 2034, 2048, 2049, 2050, 2054, 2067, 2069, 2072, 2035, 2063, 2061, 961, 2345, 2645, 2296/1, 2085/1, 2086, 2090, 2093, 2099, 2096, 2125, 2131, 2135, 482, 491, 492, 487, 504, 706, 709, 710, 711, 732, 731, 733
शिवपुरी	पिठोर	वमूना	247, 250, 248, 249, 261, 562, 517, 516, 518, 519, 514, 512, 502, 505, 500, 501, 490, 486, 487, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1726, 1727, 1728, 1765, 1766, 1767, 1814, 1815, 1816, 1818, 1810, 1838, 564, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 1661, 1662, 1663, 1660, 1665, 1664, 1672, 1671, 7673, 1674, 1675, 1614, 1610, 1611, 1609, 1605, 1603, 1604, 1602, 1600, 1909/1, 1900, 1907, 1908, 1906, 1905, 1904, 1898, 1897, 1896, 1888, 1881, 1882, 1878, 1880, 1876, 1877, 1845, 1846, 1844, 1840, 1841	247, 250, 248, 249, 261, 562, 517, 516, 518, 519, 514, 512, 502, 505, 500, 501, 490, 486, 487, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1726, 1727, 1728, 1765, 1766, 1767, 1814, 1815, 1816, 1818, 1810, 1838, 564, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 1661, 1662, 1663, 1660, 1665, 1664, 1672, 1671, 7673, 1674, 1675, 1614, 1610, 1611, 1609, 1605, 1603, 1604, 1602, 1600, 1909/1, 1900, 1907, 1908, 1906, 1905, 1904, 1898, 1897, 1896, 1888, 1881, 1882, 1878, 1880, 1876, 1877, 1845, 1846, 1844, 1840, 1841, 253, 252, 251, 260, 262, 263, 550, 561, 532, 518, 519, 508, 515, 513, 512, 509, 510, 508, 494, 497, 499, 494, 498, 495, 492, 486, 487, 488, 484, 482, 1676, 1677, 1678, 1683, 1685, 1730, 1731, 1729, 1762, 1812, 1830, 1836, 1837, 1846, 1883, 1813, 1820, 1821, 1819, 1829, 1887, 1889, 1895, 1909, 1580, 1581, 1607, 1608, 1624, 1630, 1616, 1614, 1613, 1618, 1676, 1667, 1668, 1666, 1656, 1657, 1658, 605, 606, 608, 607, 610, 622, 623, 624, 625, 595, 592, 590, 591, 568

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं.	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं.
			(वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	(वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
शिवपुरी	पिछोर	देवगढ़	135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 167, 169, 170, 173, 216, 219, 220, 221, 250, 249, 242, 243, 244, 247, 259, 260, 130, 128, 127, 126, 125, 124, 108, 106, 102, 101, 77, 76, 59, 60, 58, 31, 36, 34, 21	135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 167, 169, 170, 173, 216, 219, 220, 221, 250, 249, 242, 243, 244, 247, 259, 260, 130, 128, 127, 126, 125, 124, 108, 106, 102, 101, 77, 76, 59, 60, 58, 31, 36, 34, 21, 143, 168, 171, 172, 217, 223, 227, 248 / 2, 129, 122, 123, 107, 105, 61, 38 / 1
शिवपुरी	पिछोर	पिछोर	318, 319, 326, 331, 332, 346, 347, 348, 353, 354, 355, 366, 365, 371, 372, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 392, 441, 439, 524, 520, 519, 521, 660, 667, 661, 667, 666, 675, 1742, 669, 668, 687, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 708, 709, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 797, 798, 799, 804, 805, 807, 1666, 879, 1668, 1665, 1652, 1653, 1658, 1660, 1661, 1659, 1658, 1657, 1656, 2028, 1658, 1657, 1656, 2028, 2007, 2071, 1980, 1981, 1995, 1976, 1977, 1974, 1975, 1972, 1673, 1670, 1671, 1669, 1705, 1707, 1703, 1709, 1710, 1711, 1714, 1713, 1704, 1703, 1709, 1710, 1723, 1730 / 1, 1730 / 2, 1730 / 3, 1730 / 4, 1735, 1733, 1737, 1739, 1743, 1740, 1709 / 3, 1749 / 2326, 1749 / 1, 1751, 1752, 515, 516, 546, 547, 548, 547, 449, 450, 453, 451, 452, 368, 471, 472, 473, 477, 478, 480, 481, 482	318, 319, 326, 331, 332, 332, 347, 348, 353, 354, 355, 366, 365, 371, 372, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 392, 441, 439, 524, 520, 519, 521, 660, 667, 661, 667, 666, 675, 1742, 669, 668, 687, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 708, 709, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 797, 798, 799, 804, 805, 807, 1666, 879, 1668, 1665, 1652, 1653, 1658, 1660, 1661, 1659, 1658, 1657, 1656, 2028, 2007, 1980, 1981, 1995, 1976, 1977, 1974, 1975, 1972, 1673, 1670, 2071, 1980, 1981, 1995, 1976, 1977, 1974, 1975, 1972, 1711, 1710, 1711, 1714, 1713, 1707, 1709, 1710, 1711, 1714, 1722, 1704, 1703, 1719, 1722, 1723, 1730 / 1, 1730 / 2, 1730 / 3, 1730 / 4, 1735, 1733, 1737, 1743, 1740, 1709 / 3, 1749 / 2326, 1749 / 1, 1751, 1752, 515, 516, 546, 547, 548, 547, 449, 450, 453, 451, 452, 368, 471, 472, 473, 477, 478, 480, 481, 482, 314, 317, 320, 335, 345, 348, 349, 350, 351, 352, 356, 364, 373, 374, 377, 378, 379, 386, 387, 392, 393, 394, 435, 436, 572, 441, 438, 522, 523 / 2315, 661, 660, 695, 694, 707, 710, 741, 737, 738, 739, 752, 806, 807, 2088, 2092, 2091, 2070, 1980, 1981, 1979, 1995, 1994, 1993, 1996, 1997, 1998, 1672, 1699, 175, 1707, 1703, 1715, 1716, 1720, 1730 / 5, 1730 / 6, 1709 / 3, 460, 474, 479

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)										नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)										
			1					2					3					4	5				
शिवपुरी	पिछोर	बाचलौन	1731,	1730,	1740,	1742,	1743,	1731,	1730,	1740,	1742,	1743,	1746,	1770,	1771,	1772,	1773,	1746,	1770,	1771,	1772,	1773,	
			1746,	1770,	1771,	1772,	1773,	1774,	1796 / 3,	1791,	1796 / 1,	1796 / 1,	1774,	1796 / 3,	1791,	1796 / 1,	1774,	1796 / 3,	1791,	1796 / 1,	1796 / 1,		
			1774,	1796 / 3,	1791,	1796 / 1,	1798,	1800,	1888 / 1,	1885,	1889,	1889,	1798,	1800,	1888 / 1,	1885,	1889,	1798,	1800,	1888 / 1,	1885,	1889,	
			1798,	1800,	1888 / 1,	1885,	1889,	1889,	1982,	2005,	2076,	2105,	1982,	2005,	2076,	2105,	2136,	1982,	2005,	2076,	2105,	2136,	
			1889,	1982,	2005,	2076,	2105,	2136,	2137,	2127,	2126,	2125,	2137,	2127,	2126,	2125,	2124,	2137,	2127,	2126,	2125,	2124,	
			2124,	2122,	2157,	2050 / 2,	2124,	2122,	2142 / 1,	2142 / 2,	2142 / 3,	2140 / 1,	2142 / 4,	2142 / 1,	2142 / 2,	2142 / 3,	2140 / 2,	2142 / 4,	2142 / 1,	2142 / 2,	2142 / 3,	2140 / 2,	
			2142 / 4,	2142 / 1,	2142 / 2,	2142 / 3,	2140 / 2,	2140 / 1,	2073,	1989,	1894,	1891,	1669,	1673,	1676,	1677,	1679,	1669,	1673,	1676,	1677,	1679,	
			2073,	1989,	1894,	1891,	1669,	1673,	1676,	1677,	1678,	1682,	1683,	1684,	1702,	1703,	1673,	1676,	1677,	1678,	1679,	1679,	
			1673,	1676,	1677,	1679,	1682,	1683,	1684,	1702,	1703,	1704,	1704,	1705,	1705,	1732,	1737,	1741,	1746,	1744,	1745,	1769,	
			1705															1775,	1795,	1796,	1806,	1802,	
																		1801,	1888 / 2,	1886,	1994,	2132,	
																		2128,	2130,	2129,	2118,	2119,	
																		2122,	1678,	1672,	1668,	1893,	
																		1895 / 1,	1895 / 2,	2071			
शिवपुरी	पिछोर	गजौरा	2,	4,	5,	6,	14,	16,	17,	2,	4,	5,	6,	14,	16,	17,	15,	2,	4,	5,	6,	14,	
			15,	18,	19,	22,	21,	23,	18,	19,	22,	21,	23,	25,	26,	25,	26,	18,	19,	22,	21,	23,	25,
			25,	26,	24,	33,	34,	56,	24,	33,	34,	56,	51,	51,	58,	59,	24,	33,	34,	56,	51,	58,	59,
			51,	58,	59,	60,	61,	67 / 1,	60,	61,	67 / 1,	67 / 2,	67 / 1,	67 / 2,	72,	73,	60,	61,	67 / 1,	67 / 2,	72,	73,	
			67 / 2,	72,	73,	71,	358,	358,	71,	358,	357,	379,	379,	380,	381,	381,	383,	1202,	1201,	1200,	1199,	1199,	
			357,	379,	380,	381,	383,	383,	1202,	1201,	1200,	1199,	1197,	1198,	1195,	1194,	1189,	1197,	1198,	1195,	1194,	1189,	
			1198,	1195,	1194,	1189,	85,	85,	84,	73,	72,	65,	66,	66,	66,	66,	66,	1127,	1127,	1127,	1126,	1126,	
			84,	73,	72,	65,	66,	1127,	1188,	1189,	1093,	1093,	1086,	1083,	1082,	1080,	1086,	1086,	1083,	1082,	1080,	1081,	
			1126,	1188,	1189,	1093,	1087,	1087,	1085,	1085,	1085,	1085,	1085,	1085,	1085,	1085,	1085,	1073,	1072,	1068,	1067,	1019,	
			1085,	1086,	1083,	1082,	1080,	1080,	1066,	1066,	1066,	1066,	1066,	1066,	1066,	1066,	1066,	1012,	1011,	1011,	1016,	1017,	
			1081,	1073,	1072,	1068,	1067,	1067,	1014,	1014,	953,	952,	954,	954,	954,	954,	954,	1014,	953,	952,	954,	951,	
			1019,	1066,	1012,	1011,	1016,	1016,	1335,	1335,	1414,	1414,	1415,	1415,	1415,	1415,	1415,	1420,	1431,	1450,	1451,	1452,	
			1017,	1014,	953,	952,	954,	954,	1416,	1416,	1417,	1417,	1417,	1417,	1417,	1417,	1417,	1453,	1491,	1492,	1493,	1494 / 542,	
			973,	951,	950,	47,	48,	49,	1451,	1451,	1452,	1452,	1453,	1453,	1453,	1453,	1453,	1332,	1331,	1323,	1322,	1321,	
			1333,	1334,	1335,	1414,	1415,	1415,	1493,	1494 / 542,	1332,	1332,	1331,	1331,	1331,	1331,	1331,	1312,	1314,	1303,	1295,	1294,	
			1416,	1417,	1420,	1431,	1450,	1450,	1493,	1494 / 542,	1293,	1293,	1241,	1241,	1273,	1273,	1273,	1269 / 1,	1269 / 2,	1267,	1267,	1269 / 3534,	
			1451,	1452,	1453,	1491,	1492,	1492,	1273,	1272,	1271,	1271,	1269 / 2,	1267,	1267,	1267,	1267,	1254,	1243,	1240,	1239,	1238,	
			1224,	1225,	1226,	1205,	355,	355,	75,	74,	78,	79,	83,	84,	86,	86,	86,	1224,	1225,	1226,	1205,	355,	
			75,	74,	78,	79,	83,	84,	107,	107,	108,	109,	110,	110,	111,	111,	111,	1074,	1071,	1070,	1064,	1065,	
			86,	106,	107,	108,	109,	109,	202,	202,	204,	3,	2,	2,	27,	28,	1098,	1099,	1076,	1077,	1078,		
			110,	111,	168,	194,	195,	195,	32,	54,	55,	52,	70,	358,	358,	358,	358,	1090,	1093,	1092,	1091,	1096,	
			196,	197,	198,	199,	200,	200,	366,	382,	1200,	1203,	1196,	1196,	1196,	1196,	1196,	1191,	1190,	1182,	1174,	1124,	
			202,	204					1074,	1071,	1070,	1064,	1064,	1064,	1064,	1064,	1064,						

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)			
				1	2	3	4
							5
							1014, 1015, 1016, 1018, 1010, 1009, 1008, 1004, 1003, 975, 972, 956, 957, 955, 947, 1411, 1419 / 3533, 1419, 1418, 1431, 1450, 1448, 1490, 1496, 1495, 1508, 1510, 1320, 1313, 1314, 1319, 1311, 1310, 1305, 1302, 1295, 1292, 1291, 1270, 1251 / 3535, 1225, 1226, 1227, 1220, 1252, 1206, 1207, 76, 70, 72, 105, 113, 189, 190, 193, 198, 208, 206, 205, 203
शिवपुरी	पिठोर	कुन्दनपुरा	97, 117, 116, 118, 120, 119, 147, 96, 139, 145, 218, 219, 238, 239, 250, 249, 251, 248, 253, 378, 379, 475, 474, 583, 584, 590, 747, 748, 749, 754, 755, 756, 757, 759, 760, 761, 12, 13, 31, 30, 32, 34, 35, 36, 49, 50, 50 / 124, 52, 53, 54, 55, 59, 58, 92, 93, 99, 380, 381, 382, 400, 399, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 404, 417, 418, 433, 432, 434, 438, 436, 437, 439, 445, 446, 452, 454, 455, 456, 459, 458, 461, 462	97, 117, 116, 118, 120, 147, 96, 139, 145, 218, 219, 238, 239, 250, 249, 251, 248, 253, 378, 379, 475, 474, 583, 584, 590, 747, 748, 749, 754, 755, 756, 757, 759, 760, 761, 12, 13, 31, 30, 32, 34, 35, 36, 49, 50, 50 / 124, 52, 53, 54, 55, 59, 58, 92, 93, 99, 380, 381, 382, 400, 399, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 404, 417, 418, 433, 432, 434, 438, 436, 437, 439, 445, 446, 452, 454, 455, 456, 459, 458, 460, 461, 462, 112, 121, 137, 142, 217, 237, 242, 254, 255, 251, 478, 479, 477, 476, 475, 471, 470, 469, 468, 466, 582, 585, 746, 750, 765, 15, 14, 13, 32, 50, 56, 55, 59, 91, 92, 79, 80, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 396, 397, 398, 411, 420, 421, 439, 436, 457, 458, 4			
शिवपुरी	करेरा	छितीपुर	1125 / 4, 1125 / 3, 1125 / 2, 1125 / 1, 1107 / 3, 1107 / 2, 1107 / 1, 1106, 1080, 1079, 1077, 1078, 1063, 1066, 1062, 1061, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053 / 8, 1052, 1051, 721, 720, 719, 722, 718, 717, 306, 295, 307, 308 / 3, 308 / 2, 308 / 1, 311 / 4, 310, 363, 359, 355, 354, 335, 334, 333, 331, 323, 324, 325, 326, 327, 139, 126, 127, 128, 82, 83, 414, 1127, 1129, 1132, 1133, 1135, 1137, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1148, 1149, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158,	1125 / 4, 1125 / 3, 1125 / 2, 1125 / 1, 1107 / 3, 1107 / 2, 1107 / 1, 1106, 1080, 1079, 1077, 1078, 1063, 1066, 1062, 1061, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053 / 8, 1052, 1051, 721, 720, 719, 722, 718, 717, 306, 295, 307, 308 / 3, 308 / 2, 308 / 1, 311 / 4, 310, 363, 359, 355, 354, 335, 334, 333, 331, 323, 324, 325, 326, 327, 139, 126, 127, 128, 82, 83, 414, 1127, 1129, 1132, 1133, 1135, 1137, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1148, 1149, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158,			

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
			1159, 707, 708, 715, 714, 710, 711, 709, 364, 365, 371/1, 371/2, 371/3, 373, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 395, 396, 400, 401, 106, 407, 408, 409, 410, 411, 412	371/2, 371/3, 373, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 396, 396, 400, 401, 106, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 139, 181, 415, 330, 337, 338, 346, 354, 352, 353, 360, 361, 311/2, 309, 305, 723, 1120, 1039/13, 1052, 1059, 1065, 1081, 1138, 1139, 1147, 1150, 1151, 1225, 1224, 1212, 1160, 1161, 1164, 1165, 1166, 706, 707, 712, 366, 381, 392, 394, 395, 731, 399, 415, 81, 82, 128, 322, 330, 337, 338, 346, 333, 350, 351, 352, 358, 356, 360, 361, 311/2, 309, 305, 302, 723, 1020, 1079/13, 1059, 1065, 1076, 1105, 1081, 1108, 1109, 1124, 1137, 1139, 1141, 1144, 1150, 1151, 1205, 1204, 1203, 1205, 1201, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 706, 705, 366, 381, 394, 392, 384, 395, 405, 731
शिवपुरी	करैरा	खिरिया पुनाचली	705, 710, 717, 735, 736, 748, 749, 751, 753, 752, 754, 755, 756, 801, 802, 803, 799, 789, 788, 786, 787, 780, 779, 778, 772, 770, 771, 766, 758, 759	705, 710, 717, 735, 736, 748, 749, 751, 753, 752, 754, 755, 756, 801, 802, 803, 799, 789, 788, 786, 787, 780, 779, 778, 772, 770, 771, 766, 758, 759, 798, 708, 709, 735, 791

II)

"खण्ड-अ"

अ. क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले जिले भिण्ड, दतिया
1	दबोह-भाण्डेर-चिरगाँव मार्ग (राज्य राजमार्ग क्र. 45)	51.15	

"खण्ड - ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
भिण्ड	लहार	दबोह	128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 146, 147, 148, 150, 603, 602, 601/1, 601/2, 602, 567, 568, 565, 566, 563, 564, 565, 559, 560, 561, 149, 157, 616, 163/2, 165, 170, 174, 171, 558, 559, 544, 543, 540, 531, 524, 529, 530, 522, 523, 516, 517, 175, 176, 188, 189, 573, 517, 516, 672, 674, 679, 681, 682, 511, 512, 510, 507, 460, 461, 462, 463, 464, 447, 448, 449, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 718, 719, 720, 721, 722,	128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 150, 603, 602, 601/1, 601/2, 602, 567, 568, 565, 566, 563, 559, 560, 561, 149, 154, 156, 157, 158, 161, 162, 163/2, 163/1, 165, 174, 171, 558, 559, 556, 546, 545, 544, 547, 542, 543, 540, 531, 528, 524, 529, 530, 523, 175, 176, 188, 189, 572, 574, 672, 673, 674, 679, 680, 681, 682, 511, 512, 510, 507, 461, 462, 463, 464, 447, 448, 449, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 718, 717, 719, 720, 715, 721, 722, 723,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सङ्क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सङ्क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
			723, 732, 733, 734, 739, 378, 761, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 413, 414, 415, 437, 420, 421, 768, 772, 786, 784, 788, 790, 787, 797, 798, 801, 802, 803, 804, 805, 809, 401, 398, 399, 829, 830, 831, 859, 860, 861, 862, 396, 394, 390, 865, 866, 867, 868	730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 760, 761, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 413, 414, 415, 416, 417, 438, 437, 419, 421, 768, 772, 786, 784, 790, 787, 797, 798, 798/4, 801, 802, 803, 804, 805, 809, 401, 398, 399, 829, 830, 831, 859, 860, 861, 862, 396, 394, 390, 863, 865, 866, 867, 868
भिण्ड	लहार	बरथरा	963, 967, 964, 966, 970, 830, 835, 834, 972, 973, 974	963, 961, 960, 965, 966, 970, 968, 969, 830, 835, 834
भिण्ड	लहार	गोरा	74, 75, 76, 99, 100, 101, 102, 113, 114, 116, 123, 124, 131, 132, 133, 134, 194, 158, 152, 151, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 284, 265, 266, 267, 273, 274, 278, 275, 276, 277, 328, 265, 264, 263, 280, 269, 285, 284, 286, 295, 296, 297, 327, 331, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 374, 432, 466, 467, 468, 467, 465, 461, 460, 459, 458, 453, 451, 452, 361, 364, 365, 366, 367, 370, 374, 375, 376, 378, 377, 378, 379, 380, 381, 407, 408, 467, 466, 464, 462, 461, 460, 453, 452, 451, 440, 439, 438, 436, 437, 435, 434, 433	74, 75, 76, 78, 99, 100, 96, 101, 102, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 131, 132, 130, 133, 134, 194, 159, 158, 152, 153, 151, 149, 150, 160, 148, 146, 145, 144, 143, 142/29, 139, 137, 138, 284, 266, 267, 273, 274, 272, 275, 276, 265, 264, 263, 280, 282, 284, 286, 295, 296, 297, 327, 331, 332, 333, 334, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 374, 466, 468, 469, 467, 464, 465, 461, 460, 459, 458, 453, 451, 452, 450, 361, 364, 365, 366, 367/368, 370, 374, 373, 375, 376, 378, 377, 378, 379, 380, 381, 407, 408, 409, 409, 431, 428, 383, 467, 466, 464, 462, 461, 460, 459, 458, 453, 450, 454, 452, 440, 439, 438, 437, 435, 434, 433
भिण्ड	लहार	सुजाबलपुरा	1, 8, 7, 6, 9, 10, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29	1, 8, 7, 6, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29
भिण्ड	लहार	बेलमा	344, 347,	344, 347, 352, 348,
भिण्ड	लहार	रतनपुरा	129, 130, 131, 132, 133, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 225, 224, 222, 223, 221, 135, 136, 137, 144, 145, 146, 147, 149, 148, 120, 119/1, 119/2, 47, 46, 45, 42, 41, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29/1, 29/2, 29/3, 28, 113, 112, 110, 109, 108, 90, 89, 88, 86, 67, 68, 66, 61, 59, 48	129, 131, 132, 133, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 225, 224, 223, 221, 220, 135, 136, 137, 138, 144, 145, 146, 147, 150, 149, 148, 152, 153, 120, 119/1, 119/2, 119/3, 46, 45, 42, 41, 36, 34, 33, 32, 31, 30, 29/1, 29/2, 29/3, 28, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 90, 89, 88, 68, 66, 65, 62, 61, 60, 59, 58, 48
भिण्ड	लहार	खूजा	91, 86, 84, 83/1, 83/2, 80, 16, 10, 09, 02, 01,	92, 91, 86, 84, 83/1, 83/2, 80, 16, 10, 08, 09, 02, 01
दतिया	भाण्डेर	सोहन	317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 313, 314, 315, 316, 309, 325, 326, 308, 309, 324, 307, 341, 336, 337, 331, 330, 329, 334, 335, 329, 335, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 619, 620, 621, 624, 612, 649, 650, 651, 652, 654, 731, 730, 692, 678, 676, 677, 672, 676, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 623, 624, 649, 650, 651, 652, 654, 656, 658, 659, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 726, 816, 818,	314, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 315, 309, 313, 310, 308, 307, 341, 336, 337, 331, 330, 329, 334, 335, 330, 605, 607, 609, 619, 620, 621, 624, 612, 649, 650, 651, 652, 654, 732, 730, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 726, 816, 818,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
			731, 732, 735, 694, 815, 816, 818, 819, 843, 844, 845, 847, 871, 789, 784, 785, 781, 782, 783, 784, 799, 800, 801, 802, 803, 798, 815, 814, 790	819, 843, 842, 844, 845, 846, 847, 848, 871, 789, 785, 783, 780, 781, 782, 783, 800, 803, 798, 815, 810, 814, 790
दतिया	भाण्डेर	दलपतपुरा	1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 27, 39, 40, 41, 38, 37, 82, 81, 77, 76, 75, 74, 57, 58, 59, 60, 61, 56, 47, 45, 46, 43, 42,	1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 26, 27, 38, 29, 37, 36, 82, 83, 81, 78, 79, 77, 76, 75, 74, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 55, 56, 47, 48, 49, 45, 46, 43, 42
दतिया	भाण्डेर	खेरियाआलम	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 20, 30, 31, 32, 58, 59, 64, 65, 66, 73, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 220, 219, 222, 221, 293, 294, 295, 296, 297	4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 30, 31, 32, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 66, 63, 84, 85, 86, 89, 220, 96, 219, 222, 223, 293, 292, 294, 295, 299, 300, 296, 297, 298
दतिया	भाण्डेर	गुदाहा	7, 8, 9, 76, 75, 74, 73, 71, 70, 77, 78, 82, 81, 83, 84, 85, 86, 87,	7, 8, 9, 10, 11, 12, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 69, 64, 70, 66/1, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 98
दतिया	भाण्डेर	रामनेर	81, 85, 86, 88, 87, 93, 94, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 136, 137, 138, 139, 147, 148, 149, 150, 153, 154/1, 155	81, 85, 88, 87, 91, 93, 94, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 136, 137, 138, 139, 140/1, 146/1, 147, 150, 151/1, 152, 153, 154/1, 155
दतिया	भाण्डेर	तोर	55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 80, 83, 84, 85/1, 85/2, 90, 100/1, 100/3	55, 56, 61, 63, 64, 65, 72, 73, 77, 79, 80, 84, 85/1, 85/2, 90, 100/1, 101, 102, 99, 100/2, 100/3, 101/1, 102/1, 102/3, 98/1, 99/1, 89
दतिया	भाण्डेर	पण्डोखर	398, 431, 425, 427/2049, 427, 428, 429, 430, 399, 397, 432, 433, 434, 438, 972, 673, 712, 713, 714, 715, 745, 746, 747, 778, 752, 751, 758, 753, 754, 756, 804, 805, 806, 807, 808, 438, 459, 460, 461, 463, 465, 466, 480, 467, 468, 541, 542, 543, 550, 556, 558, 559, 832, 834, 838, 839, 0000, 847, 671, 670, 669, 668, 666, 662, 661, 1943, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1863, 1886, 1887, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1936, 1887, 1888, 1892, 1894, 1899, 1895, 1896, 1909, 1910, 1935, 1920, 1921, 1927, 1930, 1931, 1941, 1942, 1939, 1938, 1940, 1976, 1997, 1998, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2010, 2013, 2018, 2032, 2036, 2035, 1933, 1934, 1755, 1770, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045	425, 427/2049, 427, 429, 430, 399, 397, 433, 434, 438, 437, 436, 435, 439, 673, 712, 713, 714, 717, 718, 715, 745, 746, 744, 747, 748, 751, 758, 753, 754, 756, 757, 804, 805, 806, 808, 809, 847, 438, 439, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 480, 468, 469, 540, 541, 543, 550, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 832, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 0000, 847, 671, 670, 669, 668, 667, 665, 666, 662, 661, 1943, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1863, 1886, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1842, 1941, 1929, 1938, 1936, 1887, 1888, 1892, 1929, 1938, 1936, 1887, 1888, 1892, 1911, 1920, 1921, 1927, 1930, 1931, 1941, 1942, 1939, 1938, 1940, 1976, 1997, 1998, 2004, 2010, 2013, 2018, 2019, 2031, 2032, 2033, 2036, 2035, 1933, 1934, 1770, 1755, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2045,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
				2046
दतिया	भाण्डेर	ईगुइ	45, 42, 50, 117, 118, 119, 120, 121, 109, 123, 124, 125, 128, 121, 133, 134, 135, 288, 287, 275/1, 275/2, 497, 494, 495, 302, 303, 324, 320, 319, 318, 317, 309, 311, 308, 307, 89, 294, 295, 292, 291, 448, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 492, 489, 558, 494, 511, 512, 607, 592, 590, 566, 587, 586, 585, 584, 583, 581, 577, 492, 493, 629, 626, 627, 628, 620, 621, 622, 619, 617, 616, 615, 614, 612, 610	41, 42, 40, 39, 50, 52, 117, 118, 119, 109, 120, 121, 123, 115, 124, 125, 128, 112, 121, 132, 133, 134, 135, 288, 285, 286, 287, 276, 275/1, 275/2, 497, 494, 495, 496, 302, 303, 323, 320, 319, 318, 317, 313, 309, 311, 306, 308, 307, 294, 298, 295, 292, 291, 448, 451, 452, 453, 454, 455, 489, 458, 459, 450, 494, 509, 510, 513, 511, 512, 607, 596, 592, 597, 590, 591, 566, 588, 587, 586, 585, 563, 581, 577, 492, 498, 490, 629, 628, 612, 613, 616, 617, 619, 610, 611, 639, 640, 641
दतिया	भाण्डेर	बीसलपुरा	114, 96, 477, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 134, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 139, 000, 413, 414, 412, 411, 410, 406, 407, 405, 404, 389, 388, 384, 372, 475, 474, 464, 465, 473, 477, 476, 463, 459, 448, 456, 455, 454, 457, 414, 415, 416, 438, 437, 439, 440, 645, 643, 684, 688, 695, 696, 697698, 700, 701, 702, 705, 709, 705, 371, 370	95, 96, 477, 97, 98, 99, 106, 105, 108, 109, 102, 103, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 139, 000, 413, 411, 410, 406, 407, 403, 405, 404, 389, 388, 384, 372, 373, 477, 476, 464, 465, 473, 466, 463, 459, 448, 456, 455, 454, 453, 457, 458, 415, 416, 438, 437, 439, 440, 645, 643, 684, 688, 685, 686, 687, 689, 694, 695, 696, 697, 698, 700, 701, 702, 703, 705, 709, 710, 711, 712, 371, 369, 776, 370
दतिया	भाण्डेर	नटरा	85, 284, 289, 286, 287, 304, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 539, 540, 541, 542, 757, 758, 759, 761, 762, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 793, 794, 568, 569, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 752, 753, 754, 755, 756, 742, 757, 795, 825, 851, 852, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 885, 887, 886, 891, 899, 898, 892, 893	284, 290, 283, 289, 286, 287, 288, 518, 519, 520, 522, 523, 538, 539, 540, 541, 542, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 780, 781, 782, 783, 784, 789, 785, 788, 786, 787, 791, 792, 793, 796, 543, 544, 567, 566, 568, 569, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 752, 754, 750, 751, 755, 756, 741, 742, 824, 825, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 883, 885, 882, 884, 887, 888, 886, 890, 891, 899, 898, 892, 893, 894, 895,
दतिया	भाण्डेर	सिमथरा	88, 93, 94, 92, 95, 96, 98, 100, 104, 105, 106, 107, 241, 242, 243, 246, 240, 234, 226, 225, 208, 212, 213, 214, 215, 225, 207, 205, 204, 203/1, 198, 197, 196, 195	88, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 240, 206, 234, 226, 225, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 225, 207, 205, 204, 203/1, 203/2, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
दतिया	भाण्डेर	देवरा	4, 3/2, 5/1, 5/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 26/222, 51, 52, 53, 82, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 120, 121, 122, 140, 147, 148, 149,	4, 3/2, 5/1, 5/2, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 26/222, 51, 53, 54, 58, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 59, 60, 61, 63, 68, 79, 80, 81, 82, 87/1, 87/2, 86, 85, 84, 88, 119, 120, 121, 122, 141, 140, 147, 146, 148, 150, 151, 152, 149, 193
दतिया	भाण्डेर	चन्द्रोल	599, 600, 601, 602, 662, 663, 701, 700, 702, 703, 704, 712, 713, 714, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 749, 753, 754, 801, 802, 803, 806, 805, 807, 808, 809, 810, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830	596, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 662, 663, 701, 700, 666, 702, 703, 704, 712, 713, 711, 714, 715, 716, 717, 722, 726, 727, 728, 730, 732, 733, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 749, 753, 754, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 857, 809, 810, 811, 822, 823, 821, 819, 820, 824, 825, 831, 826, 827, 828, 829, 830
दतिया	भाण्डेर	तिघरा कलाँ	178, 177, 176, 175, 171, 52, 53, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 141, 142/672, 147, 148, 157, 158, 159, 167, 168, 169, 179, 171, 170, 180, 181, 182, 183, 187, 186, 185, 184, 317, 318, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 420, 421, 422, 524, 425, 426, 427, 434, 435, 436, 437, 458, 459, 463, 463, 466, 467, 468, 545, 469, 471, 470, 475, 484, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 469, 470, 485, 483, 487, 488, 489, 492, 493, 494, 495, 496	177, 176, 175, 171, 52, 53, 51, 54, 55, 56, 40, 41, 57, 58, 39, 64, 65, 66, 67, 141, 142, 142/671, 142/672, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 156/670, 156, 157, 158, 159, 160, 167, 164, 166, 168, 171, 196, 180, 191, 192, 189, 182, 188, 187, 186, 317, 319, 320, 413, 414, 321, 322, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 524, 425, 426, 427, 434, 435, 436, 437, 458, 459, 463, 464, 466, 467, 468, 546, 545, 471, 470, 472, 481, 475, 476, 477, 478, 469, 470, 481, 485, 484, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 523, 494, 495, 497, 498, 503, 504,
दतिया	भाण्डेर	बागपुरा	644, 643, 646, 645, 646, 648, 649, 650, 651, 624, 689, 688, 687, 686, 685, 683, 679, 677, 678, 680, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 660, 671, 672, 676, 674	643, 639, 642, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 624, 623, 690, 694, 693, 689, 688, 687, 686, 685, 683, 679, 680, 678, 652, 653, 656, 657, 658, 660, 659, 670, 671, 672, 675, 676, 674
दतिया	भाण्डेर	विछरेटा	132, 131, 130, 124, 115, 114, 113, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 133, 134, 135, 144, 166, 167, 168/2, 168/1, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 238, 239, 240, 242, 274, 275, 276, 287, 286/1, 286/2, 303, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 4233, 434, 435, 436, 428, 427, 426, 424, 423, 425, 415, 440, 44, 439, 438, 442/1, 443, 447, 446, 445, 442/2, 448, 452, 449, 450	132, 131, 129, 130, 124, 116, 115, 117, 114, 113, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 133, 137, 135, 144, 166, 167, 168/2, 168/1, 216, 215, 217, 214, 218, 219, 220, 221, 224, 238, 239, 240, 242, 274, 275, 276, 278, 277, 286/1, 286/2, 43, 303, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 433, 434, 435, 436, 432, 428, 427, 426, 423, 425, 422, 420, 415, 440, 441, 442/1, 445, 442/2, 448, 452, 451, 450, 453, 454

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सङ्क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	पिंडण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्व नं. (वर्तमान सङ्क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
दतिया	भाण्डेर	सिकन्दरपुर	954 / 1114, 954 / 1084, 1011, 959, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, 1004, 992, 1010, 991, 993, 989, 988, 985, 984, 983, 979, 805, 804, 772, 773, 771, 776, 777, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 739, 737, 738, 736, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 747, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 1047, 1045, 1046, 1056, 1044, 1042, 1043, 1040, 1041, 1038, 1039, 1028, 1089, 1038, / 1089, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1028, 1029, 1023, 1025, 1028, 1021	954 / 1114, 954 / 1113, 954 / 1112, 954 / 1084, 959, 1009, 1005, 1004, 1003, 1002, 1001, 993, 990, 989, 988, 1973, 981, 987, 985, 986, 983, 982, 980, 978, 805, 803, 804, 773, 774, 775, 776, 778, 773, 734, 725, 726, 731, 732, 733, 740, 734, 735, 737, 736, 743, 746, 747, 751, 752, 753, 756, 764, 766, 767, 769, 1051, 1050, 1050, 1053, 1054, 1056, 1061, 1064, 1044, 1045, 1055, 1056, 1040, 1041, 1039, 1036, 1035, 1037, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1027, 1025, 1024, 1023, 1022, 1021
दतिया	भाण्डेर	भाण्डेर	41, 35 / 1 / 1, 35 / 1 / 2, 35 / 2 / 2, 42, 43, 194, 45, 193, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 169, 174, 170, 185, 186, 184, 183, 182, 150, 152, 151, 153, 180, 181, 175, 155, 154, 162, 163, 141, 142, 131, 143, 130, 129, 128, 125, 126, 92, 93, 94, 86, 87, 88, 101, 100, 104, 106, 105, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 103, 124, 125, 221, 144, 145, 143, 146, 147, 148, 149, 210, 208, 205, 206, 202, 203, 204, 200, 198, 195, 196, 104, 111, 110, 108, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 2341, 232, 116, 115, 114, 113	41, 35 / 1 / 2, 40, 35 / 2 / 2, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 169, 174, 170, 185, 153, 180, 181, 175, 176, 177, 178, 173, 155, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 141, 131, 130, 132, 136, 135, 134, 129, 128, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 100, 101, 104, 106, 105, 146, 147, 148, 149, 210, 205, 206, 209, 202, 201, 203, 205 / 261, 200, 198, 195, 196, 196, 110, 108, 116, 115, 114, 113
दतिया	भाण्डेर	गददीपुर	104, 105, 118, 119, 120	103, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 120
दतिया	भाण्डेर	चकअट्टू	20, 21, 19, 74, 75, 17, 18, 16, 15, 77, 76, 80, 82, 99, 100, 101, 102, 103, 1, 14, 03, 13, 04, 11, 12, 104, 105	20, 21, 19, 74, 75, 17, 18, 77, 76, 80, 84, 82, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 01, 03, 13, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 104, 105, 106
दतिया	भाण्डेर	अलापुर	7, 8, 9	5, 6, 8, 9, 10, 11, 44, 45, 61, 62, 64
दतिया	भाण्डेर	कबूलपुर	-	1, 2, 3, 4
दतिया	भाण्डेर	हंसापुर	1, 62, 61, 59, 57, 54, 53, 50, 49, 48, 47, 63, 64, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 192 / 360, 193, 194, 177, 195, 196, 176, 174, 173	1, 62, 61, 59, 57, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 186, 188, 189, 187, 190, 191, 192, 192, 193, 194, 177, 176, 174, 173
दतिया	भाण्डेर	बेजापारा	132, 133, 134, 135, 141, 140, 365, 364, 131, 373, 375 / 1, 376 / 3, 377 / 3, 375 / 3, 127, 128, 129, 129 / 406, 125, 142, 146, 147, 148, 149, 350, 364,	132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 140, 365, 373, 375 / 1, 377 / 2, 377 / 3, 375 / 3, 126, 127, 129, 129 / 406, 125, 142, 146, 147, 148, 149, 350, 362, 361

जिला	तहसील	ग्राम	मध्यन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सडक के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
			383, 361, 374, 344, 341, 341 / 2, 341 / 3, 340, 339 / 1, 337	374, 344, 341, 342, 341 / 2, 341 / 3, 340, 338, 339 / 1, 337
दतिया	भाण्डेर	भरौली	5, 4, 6, 10, 152, 11, 34, 41, 43, 42, 44, 47, 50, 51, 76, 85, 148, 149, 147, 146, 145, 143, 140 / 663, 140, 139, 135, 138, 137, 134, 159, 153, 154, 168, 169, 170, 171, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 276 / 2, 277, 278, 279, 313, 326, 325, 325, 327, 328, 332, 333, 334, 336, 458, 457, 456, 455, 452, 454, 450, 449, 551, 553, 560, 561, 559, 558, 335, 336, 424, 426, 427, 435, 437, 440, 445, 443, 444, 442, 579, 577, 563, 448, 456, 462, 447	5, 4, 3, 6, 10, 11, 12, 34, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 76, 84, 85, 148, 86, 149, 147, 145, 143, 140, 139, 134, 459, 267, 266, 271, 272, 273, 274, 275, 276 / 2, 276 / 1, 277, 278, 279, 313, 326, 325, 325, 327, 328, 332, 333, 334, 335, 457, 456, 455, 452, 454, 450, 449, 551, 553, 560, 561, 559, 558, 3557, 335, 334, 336, 424, 425, 426, 428, 427, 435, 436, 437, 440, 443, 441, 442, 579, 578, 577, 563, 576
दतिया	भाण्डेर	कैमारा	15, 16, 17, 18, 19, 20, 49, 50, 51, 52, 53, 73, 74, 76, 77, 57, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 105, 106, 708, 109, 110, 111, 112	15, 16, 17, 18, 19, 20, 49, 50, 51, 52, 53, 73, 74, 76, 77, 57, 78, 79, 80, 82, 85, 86, 87, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112
दतिया	भाण्डेर	बिछोदना	4, 14, 15, 16, 18, 19, 52, 54, 887, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 886, 55, 884, 885, 883, 880, 879, 608, 607, 609, 590, 591, 604, 592, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 59, 595, 529, 530, 528, 523, 520, 519, 518, 516, 517, 514, 500, 501, 491, 492, 488, 484, 486, 483, 482, 622, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 620, 642, 643, 644, 646, 647, 519 / 1509, 649, 648, 650, 651, 665, 1215, 1216, 1217, 1218, 1227, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1235, 1261, 1308, 1306, 1303, 1302, 1301, 1299, 1300, 1295, 1294, 1292, 1293, 1311, 1312, 1310, 1431, 1432, 1435, 1451, 1452, 1455, 1454 / 1517, 1456, 1445, 1458, 1496, 1497	4, 14, 15, 16, 18, 19, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 885, 884, 882, 883, 881, 880, 879, 608, 607, 605, 609, 590, 591, 604, 592, 603, 602, 601, 600, 599, 597, 595, 529, 530, 528, 524, 523, 525, 520, 519, 521, 518, 516, 514, 501, 492 493, 494, 495, 490, 488, 485, 484, 486, 483, 481, 480, 470, 622, 611, 612, 612, 613, 623, 614, 618, 316, 617, 620, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649, 653, 655, 654, 657, 656, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 1227, 1226, 1239, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1261, 1308, 1306, 1303, 1302, 1301, 1298, 1299, 1300, 1295, 1294, 1291, 1292, 1293, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316, 1319, 1431, 1432, 1433, 1435, 1434, 1451, 1452, 1453, 1455, 1454, 1454 / 1517, 1456, 1460, 1458, 1496, 1497

III)

“खण्ड-अ”

अ. क्र.	अधिसूचित मार्ग का नाम	सम्पूर्ण लम्बाई (कि.मी. में)	राज्यमार्ग में आने वाले ज़िले
1	गोरमी उदोतगढ़ मार्ग (राज्य राजमार्ग क्र. 19)	16.77	भिण्ड

खण्ड - "ब"

भवन रेखा तथा नियंत्रण रेखा के मध्य आने वाली भूमि का विवरण

ज़िला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
भिण्ड	गोरमी	गोरमी	1886, 1887, 1896, 1889, 1892, 1600, 1563, 1564, 1562, 1561, 1557, 1558, 1559, 1560, 1904, 1928, 1926, 1986, 1987, 1990, 1992, 1993, 1999, 1895, 1893, 1917, 1918, 1928, 1929, 1927, 1988, 1989, 2000, 2003, 2001, 2077, 2079, 2080, 2081, 2113, 2111, 2108, 2109, 2107, 2101, 2103, 2102, 2338, 2334, 2335, 2331, 2111, 2297, 2298, 2302, 2276, 2277, 2267, 2268, 2269, 2224, 2227, 2226, 2230, 2232, 2233, 2078, 2100, 2117, 2116, 2106, 2105, 2107, 2332, 2291, 2292, 2293, 2275, 2277, 2268, 2267, 2263, 2227, 2230, 2222, 2221, 2220, 2215, 2216, 2218, 2219, 568, 563, 562, 561, 556, 555, 554, 552, 553, 420, 419, 421, 422, 426, 423, 424, 425, 446, 447, 452, 451, 455, 415, 405, 418, 140, 142, 141, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 284, 283, 282, 274, 275, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 285, 286, 314, 314 / 804, 313, 312, 311, 309, 310, 308, 333, 306, 305, 304, 302, 299, 298, 297, 296, 295, 290, 451, 289, 288, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 491, 505, 506, 504, 503, 502, 501, 508, 500, 497, 496, 495, 492, 481, 482, 461, 464, 652, 653, 655, 656, 725, 727, 726, 728, 731, 733, 732, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 845, 846, 847, 842, 849, 848, 850, 851, 852, 853, 856, 651, 653, 655, 654, 656, 725, 727, 726, 728, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 744, 743, 742, 845, 844, 843, 846, 847, 842, 849, 848, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 857	1886, 1888, 1889, 1891, 1890, 1600, 1564, 1568, 1565, 1562, 1566, 1567, 1561, 1555, 1556, 1557, 1558, 1999, 1553, 1904, 1926, 1925, 1924, 1923, 1949, 1524, 1525, 1530, 1987, 1893, 1894, 1917, 1918, 1930, 1927, 1929, 1985, 1988, 1987, 1989, 1982, 1992, 2000, 2001, 2002, 2077, 2079, 2080, 2081, 2083, 2343, 2091, 2110, 2107, 2101, 2103, 2102, 2339, 2334, 2337, 2336, 2335, 2331, 2329, 2330, 2134, 2296, 2299, 2298, 2301, 2302, 2279, 2277, 2268, 2267, 2263, 2227, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 1998, 1999, 2119, 2117, 2116, 2113, 2112, 2105, 2332, 2290, 2289, 2292, 2283, 2282, 2293, 2275, 2274, 2271, 2270, 2222, 2225, 2208, 2209, 2215, 2214, 2216, 2217, 2218, 563, 564, 562, 560, 561, 556, 557, 554, 552, 421, 427, 429, 430, 426, 447, 444, 452, 454, 455, 412, 413, 417, 414, 415, 405, 418, 140, 135, 142, 141, 139, 145, 143, 146, 147, 148, 149, 151, 150, 152, 153, 119, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 215, 284, 282, 275, 268, 273, 261, 262, 272, 271, 270, 263, 268, 264, 265, 266, 314, 315, 314 / 804, 313, 312, 311, 322, 325, 310, 308, 307, 333, 306, 305, 304, 302, 300, 299, 301, 306, 295, 290, 451, 458, 289, 288, 454, 455, 458, 491506, 504, 503, 502, 508, 509, 500, 497, 496, 495, 492, 481, 490, 462, 461, 463, 464, 458, 652, 651, 653, 655, 654, 656, 725, 727, 726, 728, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 744, 743, 742, 845, 844, 843, 846, 847, 842, 849, 848, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 857
भिण्ड	गोरमी	मोहनपुरा	140, 142, 141, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 284, 283, 282, 274, 275, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 285, 286, 314, 314 / 804, 313, 312, 311, 309, 310, 308, 333, 306, 305, 304, 302, 299, 298, 297, 296, 295, 290, 451, 289, 288, 454, 455, 458, 491506, 504, 503, 502, 508, 509, 500, 497, 496, 495, 492, 481, 482, 461, 464, 652, 653, 655, 656, 725, 727, 726, 728, 731, 733, 732, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 744, 743, 742, 845, 844, 843, 846, 847, 842, 849, 848, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 857	140, 142, 141, 139, 145, 143, 148, 151, 150, 152, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 215, 284, 282, 275, 268, 273, 261, 262, 272, 271, 270, 263, 268, 264, 265, 266, 314, 315, 314 / 804, 313, 312, 311, 322, 325, 310, 308, 307, 333, 306, 305, 304, 302, 300, 299, 301, 306, 295, 290, 451, 458, 289, 288, 454, 455, 458, 491506, 504, 503, 502, 508, 509, 500, 497, 496, 495, 492, 481, 490, 462, 461, 463, 464, 458, 652, 651, 653, 655, 654, 656, 725, 727, 726, 728, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 744, 743, 742, 845, 844, 843, 846, 847, 842, 849, 848, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 857
भिण्ड	गोरमी	कुटरौली	652, 653, 655, 656, 725, 727, 726, 728, 731, 733, 732, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 845, 846, 847, 842, 849, 848, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 857	652, 651, 653, 655, 654, 656, 725, 727, 726, 728, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 744, 743, 742, 845, 844, 843, 846, 847, 842, 849, 848, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 857

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
			857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 869, 877, 878, 879, 880, 881, 883, 884, 885, 886, 889, 890, 891, 897, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 940, 941, 942, 944, 943, 1065, 1066, 1067, 1068, 1070, 1071, 1072, 1073, 1075, 1076, 1077, 1078, 1082, 1084, 1086,	858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 867, 869, 876, 877, 878, 880, 881, 883, 884, 887, 886, 888, 889, 891, 892, 893, 897, 913, 914, 915, 916, 923, 918, 920, 940, 941, 942, 939, 944, 1065, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1078, 1082, 1084, 1086
भिण्ड	गोरमी	कचनावकला	1753, 1754, 1755, 1756, 1752, 1745, 1743, 1744, 1742, 1740, 1741, 1055, 1056, 1057, 1734, 1733, 1731, 1736, 1781, 1780, 1779, 1776, 1777, 1757, 1758, 1759, 1760, 1771, 1058, 1059, 1070, 1071, 1072, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1217, 1216, 1218, 1219, 1220, 1224, 1225, 1226, 1227, 1231, 1228, 1229, 1229, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1105, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 825, 826, 824, 823, 822, 818, 819, 820, 817, 813, 814, 815, 816, 814, 815, 816, 811, 810, 809, 807, 808, 812, 1105, 1214, 1215, 1213, 1106, 1109, 1107, 1108, 1110, 1114, 1115, 1116, 1118, 1125, 1124, 1123, 1119, 1120, 1121, 1122, 1392, 1393, 1391, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1390, 1429, 1431, 1432, 1433, 1436, 1334, 1423, 1425, 649, 650, 647, 648, 646, 642, 581, 583, 552, 551, 575, 574, 577, 576, 578, 1451, 1450, 1449, 1436, 1438, 1437, 1439, 1440, 1382, 1381 / 1379, 1378, 1370, 1369, 1368, 1367, 1366, 1365, 1364, 1354, 1352, 1351, 551, 550, 541, 544, 539, 540, 538, 537, 536, 520, 521, 522, 523, 458, 456, 455, 454, 453, 451, 480, 265, 272, 270, 271, 452, 449, 447, 446, 605, 527, 528, 529, 530, 531, 588, 587, 627, 586, 584, 585,	1755, 1752, 1751, 1750, 1745, 1744, 1742, 1740, 1741, 1055, 1056, 1057, 1734, 1733, 1731, 1736, 1781, 1780, 1779, 1776, 1777, 1758, 1759, 1760, 1771, 1061, 1060, 1058, 1059, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1084, 1081, 1082, 1083, 1085, 1087, 1088, 1090, 1089, 1091, 1092, 1093, 1217, 1216, 1218, 1220, 1224, 1227, 1231, 1228, 1230, 1229, 1261, 1260, 1262, 1263, 1267, 1268, 1271, 1272, 1273, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 826, 824, 823, 822, 821, 818, 819, 820, 817, 813, 814, 815, 816, 810, 809, 807, 808, 1213, 1106, 1111, 1109, 1107, 1110, 1114, 1113, 1117, 1118, 1126, 1125, 1124, 1123, 1393, 1391, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1390, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1334, 1423, 1425, 649, 650, 651, 647, 646, 642, 644, 583, 551, 552, 575, 574, 577, 557, 576, 1451, 1450, 1449, 1452, 1448, 1447, 1438, 1437, 1439, 1440, 1382, 1381, 1380, 1379, 1378, 1376, 1370, 1369, 1368, 1367, 1365, 1364, 1355, 1354, 1352, 1351, 548, 549, 550, 541, 544, 539, 538, 537, 536, 534, 520, 522, 517, 523, 461, 458, 459, 455, 454, 453, 451, 480, 265, 272, 270, 271, 452, 449, 448, 447, 445, 446, 605, 529, 593, 591, 587, 626, 627, 586, 628, 637, 638,
भिण्ड	अटेर	शुक्लपुरा	1814, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824	1814, 1817, 1816, 1818, 1834, 1819, 1833, 1820, 1821, 1822, 1823, 1827, 1824
भिण्ड	अटेर	खड़ीत	1277, 1278, 1279, 1274, 1253, 1255, 1256, 1259, 1225, 1224, 1275, 1273, 1260, 1261, 1262, 1210, 803, 802, 801, 800, 805, 799, 798, 797, 796, 806, 827845, 828, 830, 831, 832, 833, 844, 843, 844 / 1725, 1044, 1042, 1043, 1041, 1039, 1034, 1033, 638, 660, 661, 663, 662, 665, 663, 664, 665, 666, 667, 677, 676, 678, 679, 687, 686, 684, 688, 726, 792, 793, 780, 781, 782, 767, 727,	1277, 1279, 1274, 1252, 1253, 1255, 1256, 1257, 1259, 1225, 1275, 1276, 1273, 1261, 1262, 803, 802, 800, 804, 805, 799, 798, 806, 826, 827, 828, 829, 830, 834, 833, 843, 1044, 1042, 1043, 1041, 1039, 1036, 1034, 1033, 1032, 638, 660, 661, 663, 662, 665, 667, 668, 726, 725, 727, 730, 729, 728, 766, 767, 768, 790, 791, 789, 784, 793, 780, 778, 783, 722, 677, 678, 679, 681, 680, 686, 685, 688, 1036, 1032, 848, 849, 861, 860, 862,

जिला	तहसील	ग्राम	भवन रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 40 मी. दोनों ओर)	नियंत्रण रेखा अन्तर्गत आने वाली भूमि का सर्वे नं. (वर्तमान सड़क के मध्य से 75 मी. दोनों ओर)
1	2	3	4	5
			728, 766, 847, 848, 861, 862, 863, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 888, 889, 890, 891, 902, 903, 906, 909, 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 539, 540, 540 / 1721, 541, 592, 593, 608, 609, 625, 626, 628, 629, 635, 636, 142, 147, 184, 185, 188, 189, 192, 199, 200, 201, 202, 203, 292, 293, 294, 296, 295, 302, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 314, 315, 323, 322, ^324, 325, 326 / 1730, 315, 323, 324, 325, 326 / 1730, 326, 327, 328, 352, 353, 354, 355, 356, 361, 362, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 357, 389, 390, 391, 392, 396, 397, 395, 398, 399	863, 869, 870, 871, 873, 874, 875, 876, 887, 888, 889, 892, 891, 901, 902, 904, 903, 905, 906, 912, 909, 910, 519, 520, 521, 531, 530, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 540, 541, 592, 593, 608, 609, 625, 626, 628, 627, 630, 631, 635, 636, 637, 142, 144, 145, 147, 148, 184, 183, 185, 186, 188, 187, 189, 190, 191, 192, 194, 199, 200, 201, 204, 203, 292, 301, 294, 297, 296, 302, 304, 305, 307, 308, 310, 311, 314, 315, 323, 322, ^324, 325, 326 / 1730, 326, 328, 352, 351, 353, 357, 361, 362, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 126, 141, 143, 353, 357, 361, 360, 362, 363, 389, 388, 387, 390, 391, 386, 392, 396, 395, 394, 399, 400
भिण्ड	अटेर	बूढ़नपुरा	74, 68, 69, 67, 66, 65, 60, 58, 59, 57, 51, 52, 53, 54, 50, 122, 122 / 508, 130, 49, 48, 47, 45, 46, 131, 132, 151, 152, 153, 174, 181, 180, 176, 177, 191, 204, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 217, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 44, 229, 43, 39, 38, 32, 31, 30, 29, 28, 26	74, 77, 69, 70, 67, 65, 64, 60, 58, 57, 51, 53, 54, 122, 130, 131, 132, 136, 134, 135, 151, 152, 153, 154, 172, 173, 174, 181, 182, 180, 179, 178, 175, 176, 177, 191, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 213, 217, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 43, 41, 42, 40, 39, 37, 38, 33, 32, 31, 28, 26, 24, 25

राज्य राजमार्ग अधिनियम की धारा 12(2) के अधीन इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन से एक माह के अंतर्गत या ग्राम में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इनमें से जो भी कालावधि पश्चातवर्ती हो कोई व्यक्ति लिखित में अपनी आपत्ति या सुझाव राजमार्ग प्राधिकारी (प्रबंध संचालक/संभागीय प्रबंधक, म.प्र.सड़क विकास निगम) को प्रस्तुत कर सकता है या राजमार्ग प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2015

पृ. क्र. एफ 23-4-15 सा. 19.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसारण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. दिनांक 27 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

No. F-२३-०४/२०१५/ग्रेन. /१९

Bhopal, Dated २७.०३.२०१५

In exercise of the powers conferred by clause (1) of section 12 of the Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam 2004 (No. 11 of 2005) the State Government hereby propose for the roads as specified in Part-A of the schedule as per specification given below in Part-B of the schedule to be the Building line and Control line.

S C H E D U L E

I

Part-A

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinara-Khaniyadhana Via-Pichhor (SH-19)	52.00	Shivpuri

Part-B

Details of land in between Building Lines and Control Lines

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Shivpuri	Karera	Aigi Awas	1390, 1391, 1392, 1432, 1428, 1427, 1389, 1434, 1435, 1436, 1437	1390, 1391, 1392, 1432, 1428, 1427, 1389, 1434, 1435, 1436, 1437, 1394
Shivpuri	Karera	Dinara	1731, 1722, 1724, 1725, 1726, 1727, 1745/1, 1766, 1774, 1768, 1769, 1720, 1718, 1717, 1716, 614	1731, 1722, 1724, 1725, 1726, 1727, 1745/1, 1766, 1774, 1768, 1769, 1720, 1718, 1717, 1716, 614, 1728, 1745/2, 1778, 1775, 1773, 1771, 1719/1, 1719/2, 1719/3, 615
Shivpuri	Karera	Dabra Dinara	307, 308, 303, 302, 301, 299, 298, 78, 243, 244, 242, 240, 267, 268, 264, 265, 261, 249, 250, 246, 247, 248, 1306, 1307, 1303, 1310, 1309, 1312, 1313, 1314, 1360, 1361, 1362, 1363, 1359, 1364, 1365, 1366, 1367/1, 1367/2, 1367/3, 1389, 1390, 1391, 1399, 1398, 1336/1, 1336/2, 1335, 1427, 1407, 1406, 1405, 1401, 1403, 1187, 1200, 1199, 1201, 1203,	307, 308, 303, 302, 301, 299, 298, 78, 243, 244, 242, 240, 267, 268, 264, 265, 261, 249, 250, 246, 247, 248, 1306, 1307, 1303, 1310, 1309, 1312, 1313, 1314, 1360, 1361, 1362, 1363, 1359, 1364, 1365, 1366, 1367/1, 1367/2, 1367/3, 1389, 1390, 1391, 1399, 1398, 1336/1, 1336/2, 1335, 1427, 1407, 1406, 1405, 1401, 1403, 1187, 1200, 1199, 1201, 1203, 1202/1, 1202/2, 1214, 1226, 1237, 1238, 1245,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)		
			1202/1, 1202/2, 1214, 1226, 1237, 1238, 1245, 1313, 626, 627, 620, 625, 310, 311, 312, 313, 421, 488, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550	1313, 626, 627, 620, 625, 310, 311, 312, 313, 421, 488, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 542, 543, 544, 545, 546, 548, 549, 550, 305, 304, 246, 261, 263, 265, 262, 263, 1308, 1315, 1314, 1365, 1367, 1388, 1391, 1392, 474, 487, 485, 473, 567, 564, 562, 618, 663, 1166, 1239, 1236, 1228, 1234, 1235, 1203, 1202, 1198, 1404, 1403, 1407, 1437, 1438, 1447
Shivpuri	Karera	Salaiya	69, 72, 268, 73, 74, 75, 76, 84, 83, 85, 82, 87, 88, 89, 262, 258, 270, 261, 257, 256, 254, 253, 917, 252/1, 252/2, 251, 250, 249, 246, 247, 245, 244, 242, 237, 235, 234, 230, 229, 228, 226, 208, 207, 211, 206, 204, 205, 189, 186, 185, 184, 183, 34, 33, 35, 39, 40, 41, 47, 50, 51, 67, 66, 64, 65, 62, 61	69, 72, 268, 73, 74, 75, 76, 84, 83, 85, 82, 87, 88, 89, 262, 258, 270, 261, 257, 256, 254, 253, 917, 252/1, 252/2, 251, 250, 249, 246, 247, 245, 244, 242, 237, 235, 234, 230, 229, 228, 226, 208, 207, 211, 206, 204, 205, 189, 186, 185, 184, 183, 34, 33, 35, 39, 40, 41, 47, 50, 51, 67, 66, 64, 65, 62, 61
Shivpuri	Karera	Damron Kalan	221/16, 225, 223, 247, 228, 229, 246, 248, 249, 250, 254, 253, 257, 376, 375, 378, 377, 374, 395, 399, 330, 301, 298, 303, 304, 311, 356, 380, 379, 373, 381, 382, 303, 304, 474, 475, 479, 478, 480, 496, 500, 501, 510, 290, 291, 502, 251, 283, 357, 384, 383, 471, 476	221/16, 225, 223, 247, 228, 229, 246, 248, 249, 250, 254, 253, 257, 376, 375, 378, 377, 374, 395, 399, 330, 301, 298, 303, 304, 311, 356, 380, 379, 373, 381, 382, 303, 304, 474, 475, 479, 478, 480, 496, 500, 501, 510, 290, 291, 502, 251, 283, 357, 384, 383, 471, 476, 226, 230, 248, 257, 282, 294, 305, 306, 352, 396, 392, 393, 388, 472, 473, 497
Shivpuri	Karera	Damron Khurd	1, 2, 3, 4, 12, 13, 24, 20, 21, 22, 23, 96, 95, 92, 91, 89, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 38, 87,	1, 2, 3, 4, 12, 5, 13, 24, 20, 21, 32, 33, 36, 38, 26, 25, 79, 80, 81, 89, 95, 96, 93, 92, 91, 90, 87, 5, 35, 36, 132
Shivpuri	Pichhore	Himmat Pur	43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 55, 56, 57, 296, 297, 251, 242, 241, 243, 224, 1205, 1207, 1208, 1209, 1225, 1234, 1235, 1233, 1232, 1231, 1259, 1258, 1360, 1284, 1287, 1283, 1281, 1280, 1238, 1237, 1203, 1204, 1212, 1199, 347, 348, 350, 351, 345, 344, 342, 343, 339, 340, 338, 326, 228, 329, 322, 332, 320, 318, 315, 310, 308, 305, 299	43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 63, 55, 56, 57, 296, 297, 251, 242, 241, 243, 224, 1205, 1207, 1208, 1209, 1225, 1234, 1235, 1233, 1232, 1231, 1259, 1258, 1360, 1284, 1287, 1283, 1281, 1280, 1238, 1237, 1203, 1204, 1212, 1199, 347, 348, 350, 351, 345, 344, 342, 343, 339, 340, 338, 326, 228, 329, 322, 332, 320, 318, 315, 310, 308, 305, 299, 45, 288, 295, 1206, 1285, 1287, 1282, 1280, 1205, 1242, 1201, 1200, 392/3, 351, 390, 370, 320, 318, 317, 316, 309, 304, 301, 300

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)		
Shivpuri	Pichhore	Karar Kheda	708, 741, 740, 745, 746, 841, 848, 849, 850, 852, 853, 854, 856, 857, 1241, 859, 2166, 1265/1, 1265/2, 1264/1, 1263/4, 1471, 1472, 1473, 1474, 1518, 1476, 1478, 1477, 1480, 1482, 1487, 1480, 1481/1, 1481/2, 1486, 1288, 1270, 1269, 1271, 1273, 1274, 1275, 1276, 1282, 1283, 1284, 1285, 1308, 1309, 1312, 1313, 1323, 1324, 1265/2, 1263/2, 1466, 1427, 1470, 1469, 1475, 1476, 1361, 1328, 1362, 1323, 1364, 1463, 1462, 1467, 1470, 1487, 1488, 1489, 1490, 3309, 3311, 3312, 3313, 3313, 3333, 3334, 3335, 3337, 3336, 3338, 3230, 3231, 3233, 3232/1, 3232/2, 3232/3, 3234, 3235, 3236, 3237, 3242, 3240, 3241, 2933, 2931, 3241, 2935, 2936, 2937, 2918, 2901, 2902, 2904, 2905, 2907, 2906, 2910, 2911, 2913, 2914, 2915, 2916, 2954, 3020, 3024, 3023, 3025, 3026, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 2672, 2673, 2677, 2688, 2687, 2689, 2692, 2693, 2694, 2698, 2697, 2745, 2746, 2747, 2752, 2753, 2754, 2759, 2771, 2913, 2906, 2911, 2940, 2941, 2937, 2936, 2973, 2972, 2974, 2975, 3197, 3198, 3199, 3200, 3204/2, 3204/1, 3205/4, 3205/3, 3205/2, 3205/1, 3224, 3206/1, 3225, 3226, 3227, 3238, 3239, 3246, 3247, 3243, 3242, 3469, 3438, 3437, 3200, 3204/2, 3205/1, 3205/4, 3205/3, 3205/2, 3205/1, 3225, 3226, 3227, 3238, 3239, 3246, 3247, 3243, 3242, 3469, 3438, 3437, 747, 842, 858, 1519, 1520, 1517, 1118, 1506, 1505, 1485, 1501, 1499, 1498, 1496, 1495, 1493, 1492, 3302, 3307, 3308, 3310, 3316, 3315, 3313, 3319, 3321, 3331, 32138, 3239, 2932, 2929, 2930, 2928, 2900, 2898, 2899, 2897, 2895, 2896, 2897, 2760, 2758, 2755, 2750, 2751, 2744, 2701, 2690, 2687, 3046, 3042, 3032, 3027, 3022, 3023, 3021, 2955, 2956, 2953, 2952, 2951, 2912, 2942, 3201, 3202, 3206/6, 3221, 3222, 3343, 3229, 3471, 3449, 3465, 1468, 1465, 1281, 1277, 1275, 1272, 1269, 696, 697, 739, 746, 842, 858, 1472, 1517, 1519, 1483, 1507, 1506	83, 84, 86, 87, 112, 113, 614, 114, 115, 116, 117, 116, 129, 171, 170, 174, 175, 176, 175, 176, 180, 181, 182, 1397, 1396, 180, 181, 182, 1397, 1396, 1394, 1393,
Shivpuri	Pichhore	Kachhaua	83, 84, 86, 87, 112, 113, 614, 114, 115, 116, 117, 116, 129, 171, 170, 174, 175, 176, 175, 176, 180, 181, 182, 1397, 1396,	83, 84, 86, 87, 112, 113, 614, 114, 115, 116, 117, 116, 129, 171, 170, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 1397, 1396, 1394, 1393,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1394, 1393, 1392, 1390, 1311, 1416, 1417, 1415, 1423, 1424, 1423, 1424, 1389, 1385, 1384, 1382, 1383, 1381, 1380, 1379, 183, 134, 238, 213, 224, 232, 222, 223, 221, 220, 219, 217, 200, 199, 275, 198, 197, 195, 192, 194, 191, 190, 189, 188, 187, 184, 85, 82, 117, 116, 128, 129, 130, 131, 173, 174, 177, 179, 1399, 1395, 1412, 1450, 1449, 1419, 1422, 1386, 1388, 1376, 235, 236, 225, 226, 222, 227, 218, 201, 202, 186	1392, 1390, 1311, 1416, 1417, 1415, 1423, 1424, 1389, 1385, 1384, 1382, 1383, 1381, 1380, 1379, 183, 134, 238, 213, 224, 232, 222, 223, 221, 220, 219, 217, 200, 199, 275, 198, 197, 195, 192, 194, 191, 190, 189, 188, 187, 184, 85, 82, 117, 116, 128, 129, 130, 131, 173, 174, 177, 179, 1399, 1395, 1412, 1450, 1449, 1419, 1422, 1386, 1388, 1376, 235, 236, 225, 226, 222, 227, 218, 201, 202, 186
Shivpuri	Pichhore	Nad	687, 713, 714, 715, 723, 722, 725, 726, 729, 731, 751, 752, 754, 2204, 2202, 2197, 2157, 2156, 2152, 2148, 2147, 2146, 2143, 2142, 21441, 2123, 2069, 1984, 1975, 1977, 1961, 1962, 1964, 1969, 1724, 1730, 1729, 1606, 1692, 1687, 1681, 1688, 1683, 1676, 1584, 1582, 1581, 1578, 1577, 1576, 1570, 1569, 1571, 1538, 1535, 1540, 1529, 1527, 1526, 1525, 1451, 1449, 1446, 1448, 1443, 1441, 1440, 1438, 1434, 3425, 3424, 3216, 3417, 3418, 3413, 3410, 3409, 3408, 3407, 3398, 3400, 3401, 3319, 3320, 3396, 3386, 3382, 3381, 3380, 3377, 3370, 3369, 3368, 3367, 3366, 3365, 3364, 3363, 3361, 3362, 3356, 3355, 3349, 3352, 2550, 2556, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2550, 2556, 2584, 2585, 2360, 2358, 2355, 2352, 2349, 2346, 2342, 2343, 2340, 2338, 2337, 2330, 2328, 2205, 2209, 2208, 2207, 2211, 2215, 2214, 749, 736, 734, 733	687, 713, 714, 715, 723, 722, 725, 726, 729, 731, 751, 752, 754, 2204, 2202, 2197, 2157, 2156, 2152, 2148, 2147, 2146, 2143, 2142, 21441, 2123, 2069, 1984, 1975, 1977, 1961, 1962, 1964, 1969, 1724, 1730, 1729, 1606, 1692, 1687, 1681, 1688, 1683, 1676, 1584, 1582, 1581, 1578, 1577, 1576, 1570, 1569, 1571, 1538, 1535, 1540, 1529, 1527, 1526, 1525, 1451, 1449, 1446, 1448, 1443, 1441, 1440, 1438, 1434, 3425, 3424, 3216, 3417, 3418, 3413, 3410, 3409, 3408, 3407, 3398, 3400, 3401, 3319, 3320, 3396, 3386, 3382, 3381, 3380, 3377, 3370, 3369, 3368, 3367, 3366, 3365, 3364, 3363, 3361, 3362, 3356, 3355, 3349, 3352, 2550, 2556, 2584, 2585, 2360, 2358, 2355, 2352, 2349, 2346, 2342, 2343, 2340, 2338, 2337, 2330, 2328, 2205, 2209, 2208, 2207, 2211, 2215, 2214, 749, 736, 734, 733
Shivpuri	Pichhor	Pareshwar	90, 141, 1624, 1623, 1622, 1621, 1610, 1620, 1612, 1609, 1613, 1614, 1616, 1618, 1619, 1617, 1576, 1574, 1569, 1568, 1567, 1566, 1557, 1544, 1553, 1645, 1644, 1642, 1641, 1640, 1637, 1636, 1635, 1634, 1633, 1631, 1630, 1629, 1628, 1627, 1626, 1575, 159 / 2 / 2, 159 / 3, 159 / 4, 1620 / 1 / 1 / 2, 1599 / 4, 1599 / 3, 1600 / 2, 1612, 1613, 1619, 1616, 1615, 1577, 1570, 1562, 1565, 1555, 1559	90, 141, 1624, 1623, 1622, 1621, 1610, 1620, 1612, 1609, 1613, 1614, 1616, 1618, 1619, 1617, 1576, 1574, 1569, 1568, 1567, 1566, 1557, 1544, 1553, 1645, 1644, 1642, 1641, 1640, 1637, 1638, 1635, 1634, 1633, 1631, 1630, 1629, 1628, 1627, 1626, 1575, 159 / 2 / 2, 159 / 3, 159 / 4, 1620 / 1 / 1 / 2, 1599 / 4, 1599 / 3, 1600 / 2, 1612, 1613, 1619, 1616, 1615, 1577, 1570, 1562, 1565, 1555, 1559

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)		
Shivpuri	Karera	Kuchloan	31, 30, 29, 28, 26, 25, 22, 23, 20, 23, 22, 19, 18, 104, 105, 106, 109, 110, 117, 116, 118, 119, 118, 119, 141, 142, 143, 144, 180, 190, 191, 193, 192, 268, 44, 45, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 66, 67, 65, 68, 69, 91, 266, 278, 254, 51, 102, 279, 278, 277, 280, 70, 71, 279, 278, 277, 280, 70, 71	31, 30, 29, 28, 26, 25, 22, 23, 20, 23, 22, 19, 18, 104, 105, 106, 109, 110, 117, 116, 118, 119, 141, 142, 143, 144, 180, 190, 191, 193, 192, 268, 44, 45, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 66, 67, 65, 68, 69, 91, 266, 278, 254, 51, 102, 279, 278, 277, 280, 70, 71, 27, 24, 18, 16, 116, 121/2, 189, 188, 280, 71, 60, 50, 46
Shivpuri	Pichhore	Nayagaon	1255, 1254, 1185, 1184, 1183, 1171, 1170, 864, 825, 863, 867, 866, 869, 900, 888, 901, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 949, 916, 917, 923, 924, 928, 975, 1977, 1978, 1976, 1979, 1980, 1901, 1902, 1903, 2032, 2035, 2038, 2051, 2036, 2037, 2041, 2053, 2052, 2061, 2065, 2070, 2071, 2080, 2081, 2366, 2365, 2364, 2364/2481/1, 2324/2481/2, 2343, 4353/1, 2353/2, 2352, 2349/3, 2349/4, 2349/2, 2349/5, 2249/2480, 2349/6, 2349/6/1, 2349/6/2, 2349/6/3, 2349/6/7, 2349/8, 846, 439, 838, 838, 818, 857, 860, 861, 862, 649, 850, 813, 812, 809, 808, 800, 799, 730, 729, 728, 727, 725, 726, 727, 724, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 712, 713, 714, 711, 709, 708, 707, 505, 494, 495, 493, 490, 489, 485, 479, 484, 483, 2132, 2134, 2133, 2130, 2128, 2127, 2126, 2121, 2120, 2118, 2115, 2097, 2095, 2094, 2092, 2093, 2089, 2084, 2083, 2085/2, 2095, 2096/2, 2096/3, 2096/4, 2096/5, 2096/6, 2339, 2340, 2341, 2342, 42344, 2300, 2345, 2347, 2475, 1256, 1257, 1281, 1279, 1280, 1173, 868, 870, 903, 908, 1021, 1018, 1007, 950, 949, 948, 946, 947, 945, 918, 1969, 1971, 1968, 1983, 1984, 1991, 1998, 1997, 2039, 2033, 2034, 2048, 2049, 2050, 2054, 2067, 2069, 2072, 2035, 2063, 2061, 961, 2345, 2645, 2296/1, 2085/1, 2086, 2090, 2093, 2099, 2096, 2125, 2131, 2135, 482, 491, 492, 487, 504, 704, 709, 710, 711, 732, 731, 733	1255, 1254, 1185, 1184, 1183, 1171, 1170, 864, 825, 863, 867, 866, 869, 900, 888, 901, 904, 905, 906, 907, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 949, 916, 917, 923, 924, 928, 975, 1977, 1978, 1976, 1979, 1980, 1901, 1902, 1903, 2032, 2035, 2038, 2051, 2036, 2037, 2041, 2053, 2052, 2061, 2065, 2070, 2071, 2080, 2081, 2366, 2365, 2364, 2364/2481/1, 2324/2481/2, 2343, 4353/1, 2353/2, 2352, 2349/3, 2349/4, 2349/2, 2349/5, 2249/2480, 2349/6, 2349/6/1, 2349/6/2, 2349/6/3, 2349/6/7, 2349/8, 846, 439, 838, 818, 857, 860, 861, 862, 649, 850, 813, 812, 809, 808, 800, 799, 730, 729, 728, 727, 725, 726, 727, 724, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 712, 713, 714, 711, 709, 708, 707, 505, 494, 495, 493, 490, 489, 485, 479, 484, 483, 2132, 2134, 2133, 2130, 2128, 2127, 2126, 2121, 2120, 2118, 2115, 2097, 2095, 2094, 2092, 2093, 2089, 2084, 2083, 2085/2, 2095, 2096/2, 2096/3, 2096/4, 2096/5, 2096/6, 2339, 2340, 2341, 2342, 42344, 2300, 2345, 2347, 2475, 1256, 1257, 1281, 1279, 1280, 1173, 868, 870, 903, 908, 1021, 1018, 1007, 950, 949, 948, 946, 947, 945, 918, 1969, 1971, 1968, 1983, 1984, 1991, 1998, 1997, 2039, 2033, 2034, 2048, 2049, 2050, 2054, 2067, 2069, 2072, 2035, 2063, 2061, 961, 2345, 2645, 2296/1, 2085/1, 2086, 2090, 2093, 2099, 2096, 2125, 2131, 2135, 482, 491, 492, 487, 504, 704, 709, 710, 711, 732, 731, 733
Shivpuri	Pichhore	Vamuna	247, 250, 248, 249, 261, 562, 517, 516, 518, 519, 514, 512, 502, 505,	247, 250, 248, 249, 261, 562, 517, 516, 518, 519, 514, 512, 502, 505, 500, 501,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)		
			500, 501, 490, 486, 487, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1726, 1727, 1728, 1765, 1766, 1767, 1814, 1815, 1816, 1818, 1810, 1838, 564, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 1661, 1662, 1663, 1660, 1665, 1664, 1672, 1671, 1673, 1674, 1675, 1614, 1610, 1611, 1609, 1605, 1603, 1604, 1909 / 1, 1900, 1907, 1908, 1906, 1905, 1902, 1900, 1909 / 1, 1900, 1907, 1908, 1906, 1905, 1904, 1898, 1897, 1896, 1888, 1881, 1882, 1878, 1880, 1876, 1877, 1845, 1846, 1844, 1840, 1841, 253, 252, 251, 260, 262, 263, 550, 561, 532, 518, 519, 508, 515, 513, 512, 509, 510, 508, 494, 497, 499, 494, 498, 495, 492, 486, 487, 488, 484, 482, 1676, 1677, 1678, 1683, 1685, 1730, 1731, 1729, 1762, 1812, 1830, 1836, 1837, 1846, 1883, 1813, 1820, 1821, 1819, 1829, 1887, 1889, 1895, 1909, 1580, 1581, 1607, 1608, 1624, 1630, 1616, 1614, 1613, 1618, 1676, 1667, 1668, 1666, 1656, 1657, 1658, 605, 606, 608, 607, 610, 622, 623, 624, 625, 595, 592, 590, 591, 568	490, 486, 487, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1726, 1727, 1728, 1765, 1766, 1767, 1814, 1815, 1816, 1818, 1810, 1838, 564, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 1661, 1662, 1663, 1660, 1665, 1664, 1672, 1671, 1673, 1674, 1675, 1614, 1610, 1611, 1609, 1605, 1603, 1604, 1909 / 1, 1900, 1907, 1908, 1906, 1905, 1904, 1898, 1897, 1896, 1888, 1881, 1882, 1878, 1880, 1876, 1877, 1845, 1846, 1844, 1840, 1841, 253, 252, 251, 260, 262, 263, 550, 561, 532, 518, 519, 508, 515, 513, 512, 509, 510, 508, 494, 497, 499, 494, 498, 495, 492, 486, 487, 488, 484, 482, 1676, 1677, 1678, 1683, 1685, 1730, 1731, 1729, 1762, 1812, 1830, 1836, 1837, 1846, 1883, 1813, 1820, 1821, 1819, 1829, 1887, 1889, 1895, 1909, 1580, 1581, 1607, 1608, 1624, 1630, 1616, 1614, 1613, 1618, 1676, 1667, 1668, 1666, 1656, 1657, 1658, 605, 606, 608, 607, 610, 622, 623, 624, 625, 595, 592, 590, 591, 568
Shivpuri	Pichhore	Devgadh	135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 167, 169, 170, 173, 216, 219, 220, 221, 250, 249, 242, 243, 244, 247, 259, 260, 130, 128, 127, 126, 125, 124, 108, 106, 102, 101, 77, 76, 59, 60, 58, 31, 36, 34, 59, 60, 58, 31, 36, 34, 21	135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 167, 169, 170, 173, 216, 219, 220, 221, 250, 249, 242, 243, 244, 247, 259, 260, 130, 128, 127, 126, 125, 124, 108, 106, 102, 101, 77, 76, 59, 60, 58, 31, 36, 34, 21, 143, 168, 171, 172, 217, 223, 227, 248 / 2, 129, 122, 123, 107, 105, 61, 38 / 1
Shivpuri	Pichhore	Pichhore	318, 319, 326, 331, 332, 346, 347, 348, 353, 354, 355, 366, 365, 371, 372, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 392, 441, 439, 524, 520, 519, 521, 660, 667, 661, 667, 666, 675, 1742, 669, 668, 687, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 708, 709, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 797, 798, 799, 804, 805, 807, 1666, 879, 1668, 1665, 1652, 1653, 1658, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723	318, 319, 326, 331, 332, 346, 347, 348, 353, 354, 355, 366, 365, 371, 372, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 392, 441, 439, 524, 520, 519, 521, 660, 667, 661, 667, 666, 675, 1742, 669, 668, 687, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 708, 709, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 749, 750, 797, 798, 799, 804, 805, 807, 1666, 879, 1668, 1665, 1652, 1653, 1658, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)		
			1705, 1707, 1703, 1709, 1710, 1711, 1714, 1713, 1704, 1703, 1719, 1722, 1723, 1730/1, 1730/2, 1730/3, 1730/4, 1735, 1733, 1737, 1739, 1740, 1743, 1740, 1709/3, 1749/2326, 1749/1, 1751, 1752, 515, 516, 546, 547, 548, 547, 449, 450, 453, 451, 452, 368, 471, 472, 473, 477, 478, 480, 481, 482	1730/1, 1730/2, 1730/3, 1730/4, 1735, 1733, 1737, 1739, 1743, 1740, 1709/3, 1749/2326, 1749/1, 1751, 1752, 515, 516, 546, 547, 548, 547, 449, 450, 453, 451, 452, 368, 471, 472, 473, 477, 478, 480, 481, 482, 314, 317, 320, 335, 345, 348, 349, 350, 351, 352, 356, 364, 373, 374, 377, 378, 379, 386, 387, 392, 393, 394, 435, 436, 572, 441, 438, 522, 523/2315, 661, 660, 695, 694, 707, 710, 741, 737, 738, 739, 752, 806, 807, 2088, 2092, 2091, 2070, 1980, 1981, 1979, 1995, 1994, 1993, 1996, 1997, 1998, 1672, 1699, 175, 1707, 1703, 1715, 1716, 1720, 1730/5, 1730/6, 1709/3, 460, 474, 479
Shivpuri	Pichhore	Bachloan	1731, 1730, 1740, 1742, 1743, 1746, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1796/3, 1791, 1796/1, 1798, 1800, 1888/1, 1885, 1889, 1982, 2005, 2076, 2105, 2136, 2137, 2127, 2126, 2125, 2124, 2122, 2157, 2050/2, 2142/4, 2142/1, 2142/2, 2142/3, 2140/2, 2140/1, 2073, 1989, 1894, 1891, 1669, 1673, 1676, 1677, 1679, 1682, 1683, 1684, 1702, 1703, 1704, 1705	1731, 1730, 1740, 1742, 1743, 1746, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1796/3, 1791, 1796/1, 1798, 1800, 1888/1, 1885, 1889, 1982, 2005, 2076, 2105, 2136, 2137, 2127, 2126, 2125, 2124, 2122, 2157, 2050/2, 2142/4, 2142/1, 2142/2, 2142/3, 2140/2, 2140/1, 2073, 1989, 1894, 1891, 1669, 1673, 1676, 1677, 1679, 1682, 1683, 1684, 1702, 1703, 1704, 1705, 1732, 1738, 1737, 1741, 1746, 1744, 1745, 1769, 1775, 1795, 1796, 1806, 1802, 1801, 1888/2, 1886, 1994, 2132, 2128, 2130, 2129, 2118, 2119, 2122, 1678, 1672, 1668, 1893, 1895/1, 1895/2, 2071
Shivpuri	Pichhore	Gajaura	2, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 15, 18, 19, 22, 21, 23, 25, 26, 24, 33, 34, 56, 51, 58, 59, 60, 61, 67/1, 67/2, 72, 73, 71, 358, 357, 379, 380, 381, 383, 1202, 1201, 1200, 1199, 1197, 1198, 1195, 1194, 1189, 85, 84, 73, 72, 65, 66, 1127, 1126, 1188, 1189, 1093, 1087, 1085, 1086, 1083, 1082, 1080, 1081, 1073, 1072, 1068, 1067, 1019, 1066, 1012, 1011, 1016, 1017, 1014, 953, 952, 954, 973, 951, 950, 47, 48, 49, 1333, 1334, 1335, 1414, 1415, 1416, 1417, 1420, 1431, 1450, 1451, 1452, 1453, 1491, 1492, 1493, 1494/542, 1332, 1331, 1323, 1322, 1321, 1312, 1314, 1303, 1295, 1294, 1293, 1241,	2, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 15, 18, 19, 22, 21, 23, 25, 26, 24, 33, 34, 56, 51, 58, 59, 60, 61, 67/1, 67/2, 72, 73, 71, 358, 357, 379, 380, 381, 383, 1202, 1201, 1200, 1199, 1197, 1198, 1195, 1194, 1189, 85, 84, 73, 72, 65, 66, 1127, 1126, 1188, 1189, 1093, 1087, 1085, 1086, 1083, 1082, 1080, 1081, 1073, 1072, 1068, 1067, 1019, 1066, 1012, 1011, 1016, 1017, 1014, 953, 952, 954, 973, 951, 950, 47, 48, 49, 1333, 1334, 1335, 1414, 1415, 1416, 1417, 1420, 1431, 1450, 1451, 1452, 1453, 1491, 1492, 1493, 1494/542, 1332, 1331, 1323, 1322, 1321, 1312, 1314, 1303, 1295, 1294, 1293, 1241, 1273, 1272, 1271, 1269/1, 1269/2, 1267, 1251/3534, 1254, 1243,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)		
			1273, 1272, 1271, 1269/1, 1269/2, 1267, 1251/3534, 1254, 1243, 1240, 1239, 1238, 1235, 1234, 1232, 1231, 1330, 1224, 1225, 1226, 1205, 355, 75, 74, 78, 79, 83, 84, 86, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 168, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 3, 2, 27, 28, 32, 54, 55, 52, 70, 358, 359, 366, 382, 1200, 1203, 1196, 1193, 1191, 1190, 1182, 1174, 1124, 1090, 1093, 1092, 1091, 1096, 1098, 1099, 1076, 1077, 1078, 1074, 1071, 1070, 1064, 1065, 1014, 1015, 1016, 1018, 1010, 1009, 1008, 1004, 1003, 975, 972, 956, 957, 955, 947, 1411, 1419/3533, 1419, 1418, 1431, 1450, 1448, 1490, 1496, 1495, 1508, 1510, 1320, 1313, 1314, 1319, 1311, 1310, 1305, 1302, 1295, 1292, 1291, 1270, 1251/3535, 1225, 1226, 1227, 1220, 1252, 1206, 1207, 76, 70, 72, 105, 113, 189, 190, 193, 198, 208, 206, 205, 203	1240, 1239, 1238, 1235, 1234, 1232, 1231, 1330, 1224, 1225, 1226, 1205, 355, 75, 74, 78, 79, 83, 84, 86, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 168, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 204, 3, 2, 27, 28, 32, 54, 55, 52, 70, 358, 359, 366, 382, 1200, 1203, 1196, 1193, 1191, 1190, 1182, 1174, 1124, 1090, 1093, 1092, 1091, 1096, 1098, 1099, 1076, 1077, 1078, 1074, 1071, 1070, 1064, 1065, 1014, 1015, 1016, 1018, 1010, 1009, 1008, 1004, 1003, 975, 972, 956, 957, 955, 947, 1411, 1419/3533, 1419, 1418, 1431, 1450, 1448, 1490, 1496, 1495, 1508, 1510, 1320, 1313, 1314, 1319, 1311, 1310, 1305, 1302, 1295, 1292, 1291, 1270, 1251/3535, 1225, 1226, 1227, 1220, 1252, 1206, 1207, 76, 70, 72, 105, 113, 189, 190, 193, 198, 208, 206, 205, 203
Shivpuri	Pichhore	Kundan Pura	97, 117, 116, 118, 120, 119, 147, 96, 139, 145, 218, 219, 238, 239, 250, 249, 251, 248, 253, 378, 379, 475, 474, 583, 584, 590, 747, 748, 749, 754, 755, 756, 757, 759, 760, 761, 12, 13, 31, 30, 32, 34, 35, 36, 49, 50, 50/124, 52, 53, 54, 55, 59, 58, 92, 93, 99, 380, 381, 382, 400, 399, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 404, 417, 418, 433, 432, 434, 438, 436, 437, 439, 445, 446, 452, 454, 455, 456, 459, 458, 460, 461, 462	97, 117, 116, 118, 120, 119, 147, 96, 139, 145, 218, 219, 238, 239, 250, 249, 251, 248, 253, 378, 379, 475, 474, 583, 584, 590, 747, 748, 749, 754, 755, 756, 757, 759, 760, 761, 12, 13, 31, 30, 32, 34, 35, 36, 49, 50, 50/124, 52, 53, 54, 55, 59, 58, 92, 93, 99, 380, 381, 382, 400, 399, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 408, 404, 417, 418, 433, 432, 434, 438, 436, 437, 439, 445, 446, 452, 454, 455, 456, 459, 458, 460, 461, 462, 112, 121, 137, 142, 217, 237, 242, 254, 255, 251, 478, 479, 477, 476, 475, 471, 470, 469, 468, 466, 582, 585, 746, 750, 765, 15, 14, 13, 32, 50, 56, 55, 59, 91, 92, 79, 80, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 396, 397, 398, 411, 420, 421, 439, 436, 457, 458, 4
Shivpuri	Karera	Chhitipur	1125/4, 1125/3, 1125/2, 1125/1, 1107/3, 1107/2, 1107/1, 1106, 1080, 1079, 1077, 1078, 1063, 1066, 1062, 1061, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053/8, 1052, 1051, 721, 720, 719, 722, 718, 717, 306, 295, 307, 308/3, 308/2, 308/1, 311/4, 310, 363, 359, 355, 354, 335, 334, 333, 331, 323, 324, 325, 326, 327, 139, 126, 127, 128, 82, 83, 414, 1127, 1129,	1125/4, 1125/3, 1125/2, 1125/1, 1107/3, 1107/2, 1107/1, 1106, 1080, 1079, 1077, 1078, 1063, 1066, 1062, 1061, 1056, 1057, 1055, 1054, 1053/8, 1052, 1051, 721, 720, 719, 722, 718, 717, 306, 295, 307, 308/3, 308/2, 308/1, 311/4, 310, 363, 359, 355, 354, 335, 334, 333, 331, 323, 324, 325, 326, 327, 139, 126, 127, 128, 82, 83, 414, 1127, 1129, 1132, 1133, 1135, 1137, 1142, 1143,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1132, 1133, 1135, 1137, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1148, 1149, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 707, 708, 715, 714, 710, 711, 709, 364, 365, 371/1, 371/2, 371/3, 373, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 395, 396, 400, 401, 106, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 139, 181, 415, 330, 337, 338, 346, 354, 352, 353, 360, 361, 311/2, 309, 305, 723, 1120, 1039/13, 1052, 1059, 1065, 1081, 1138, 1139, 1147, 1150, 1151, 1225, 1224, 1212, 1160, 1161, 1164, 1165, 1166, 706, 707, 712, 366, 381, 392, 394, 395, 731, 399, 415, 81, 82, 128, 322, 330, 337, 338, 346, 333, 350, 351, 352, 358, 356, 360, 361, 311/2, 309, 305, 302, 723, 1020, 1079/13, 1059, 1065, 1076, 1105, 1081, 1108, 1109, 1124, 1137, 1139, 1141, 1144, 1150, 1151, 1205, 1204, 1203, 1205, 1201, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 706, 705, 366, 381, 394, 392, 384, 395, 405, 731	1144, 1145, 1146, 1148, 1149, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 707, 708, 715, 714, 710, 711, 709, 364, 365, 371/1, 371/2, 371/3, 373, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 395, 396, 400, 401, 106, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 139, 181, 415, 330, 337, 338, 346, 354, 352, 353, 360, 361, 311/2, 309, 305, 723, 1120, 1039/13, 1052, 1059, 1065, 1081, 1138, 1139, 1147, 1150, 1151, 1225, 1224, 1212, 1160, 1161, 1164, 1165, 1166, 706, 707, 712, 366, 381, 392, 394, 395, 731, 399, 415, 81, 82, 128, 322, 330, 337, 338, 346, 333, 350, 351, 352, 358, 356, 360, 361, 311/2, 309, 305, 302, 723, 1020, 1079/13, 1059, 1065, 1076, 1105, 1081, 1108, 1109, 1124, 1137, 1139, 1141, 1144, 1150, 1151, 1205, 1204, 1203, 1205, 1201, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 706, 705, 366, 381, 394, 392, 384, 395, 405, 731
Shivpuri	Karera	Khiriya Punavali	705, 710, 717, 735, 736, 748, 749, 751, 753, 752, 754, 755, 756, 801, 802, 803, 804, 805, 799, 789, 788, 786, 787, 789, 779, 778, 772, 770, 771, 766, 758, 759	705, 710, 717, 735, 736, 748, 749, 751, 753, 752, 754, 755, 756, 801, 802, 803, 799, 789, 788, 786, 787, 780, 779, 778, 772, 770, 771, 766, 758, 759, 798, 708, 709, 735, 791

Part-A

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Daboh-Bhander-Chirgaon (SH-45)	51.15	Bhind,Datia

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bhind	Lahar	Daboh	128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 146, 147, 148, 150, 603, 602, 601/1, 601/2, 602,	128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 146, 147, 148, 150, 603, 602, 601/1, 601/2, 602, 567, 568, 565, 566, 563,

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)		
			567, 568, 565, 566, 563, 564, 565, 559, 560, 561, 149, 157, 616, 163/2, 165, 170, 174, 171, 558, 559, 544, 543, 540, 531, 524, 529, 530, 522, 523, 516, 517, 175, 176, 188, 189, 573, 517, 516, 672, 674, 679, 681, 682, 511, 512, 510, 507, 460, 461, 462, 463, 464, 447, 448, 449, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 732, 733, 734, 739, 378, 761, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 413, 414, 415, 437, 420, 421, 768, 772, 786, 784, 788, 790, 787, 797, 798, 801, 802, 803, 804, 805, 809, 401, 398, 399, 829, 830, 831, 859, 860, 861, 862, 396, 394, 390, 865, 866, 867, 868	559, 560, 561, 149, 154, 156, 157, 158, 161, 162, 163/2, 163/1, 165, 174, 171, 558, 559, 556, 546, 545, 544, 547, 542, 543, 540, 531, 528, 524, 529, 530, 523, 175, 176, 188, 189, 572, 574, 672, 673, 674, 679, 680, 681, 682, 511, 512, 510, 507, 461, 462, 463, 464, 447, 448, 449, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 718, 717, 719, 720, 715, 721, 722, 723, 730, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 738, 760, 761, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 413, 414, 415, 416, 417, 438, 437, 419, 421, 768, 772, 786, 784, 790, 787, 797, 798, 796/4, 801, 802, 803, 804, 805, 809, 401, 398, 399, 829, 830, 831, 859, 860, 861, 862, 396, 394, 390, 863, 865, 866, 867, 868
Bhind	Lahar	Barthara	963, 967, 964, 966, 970, 830, 835, 834, 972, 973, 974	963, 961, 960, 965, 966, 970, 968, 969, 830, 835, 834
Bhind	Lahar	Gora	74, 75, 76, 99, 100, 101, 102, 113, 114, 116, 123, 124, 131, 132, 133, 134, 194, 158, 152, 151, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 284, 265, 266, 267, 273, 274, 278, 275, 276, 277, 328, 265, 264, 263, 280, 269, 285, 284, 286, 295, 296, 297, 327, 331, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 369, 370, 374, 432, 466, 467, 468, 467, 465, 461, 460, 459, 458, 453, 451, 452, 361, 364, 365, 366, 367, 370, 374, 375, 376, 378, 377, 378, 379, 380, 381, 407, 408, 467, 466, 464, 462, 461, 460, 453, 452, 451, 440, 439, 438, 436, 437, 435, 434, 433	74, 75, 76, 78, 99, 100, 96, 101, 102, 113, 114, 115, 116, 123, 124, 131, 132, 130, 133, 134, 194, 159, 158, 152, 153, 151, 149, 150, 160, 148, 146, 145, 144, 143, 142129, 139, 137, 138, 284, 266, 267, 273, 274, 272, 275, 276, 265, 264, 263, 280, 282, 284, 286, 295, 296, 297, 327, 331, 332, 333, 334, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 374, 466, 468, 469, 467, 464, 465, 461, 460, 459, 458, 453, 451, 452, 450, 361, 364, 365, 366, 367368, 370, 374, 373, 375, 376, 378, 377, 378, 379, 380, 381, 407, 408, 409, 431, 428, 383, 467, 466, 464, 462, 461, 460, 459, 458, 453, 450, 454, 452, 440, 439, 438, 437, 435, 434, 433
Bhind	Lahar	Sujabalpura	1, 8, 7, 6, 9, 10, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23	1, 8, 7, 6, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29
Bhind	Lahar	Belma	344, 347,	344, 347, 352, 348,
Bhind	Lahar	Ratanpura	129, 130, 131, 132, 133, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 225, 224, 222, 223, 221, 135, 136, 137, 144, 145, 146, 147, 149, 148, 120, 119/1, 119/2, 47, 46, 45, 42, 41, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29/1, 29/2, 29/3, 28, 113, 112, 110, 109, 108, 90, 89, 88, 67, 68, 66, 61, 59, 48	129, 131, 132, 133, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 225, 224, 223, 221, 220, 135, 136, 137, 138, 144, 145, 146, 147, 150, 149, 148, 152, 153, 120, 119/1, 119/2, 119/3, 46, 45, 42, 41, 36, 34, 33, 32, 31, 30, 29/1, 29/2, 29/3, 28, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 90, 89, 88, 68, 66, 65, 62, 61, 60, 59, 58, 48

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)					Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)								
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)									
Bhind	Lahar	Khuja	91, 86, 84, 83/1, 83/2, 80, 16, 10, 09, 02, 01,							92, 91, 86, 84, 83/1, 83/2, 80, 16, 10, 08, 09, 02, 01						
Datia	Bhander	Sohan	317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 313, 314, 315, 316, 309, 325, 326, 308, 309, 324, 307, 341, 336, 311, 330, 329, 335, 337, 331, 330, 329, 335, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 619, 620, 621, 624, 612, 649, 650, 651, 652, 654, 655, 731, 730, 692, 678, 676, 677, 672, 632, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 623, 624, 649, 650, 651, 652, 654, 656, 672, 675, 676, 677, 678, 679, 676, 677, 672, 673, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 623, 624, 649, 650, 651, 652, 654, 656, 672, 673, 678, 679, 681, 690, 691, 692, 693, 730, 732, 733, 735, 694, 815, 816, 818, 819, 843, 844, 845, 847, 871, 789, 784, 785, 781, 782, 783, 784, 799, 800, 801, 802, 803, 798, 815, 810, 790	314, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 315, 309, 313, 310, 308, 307, 341, 336, 337, 331, 330, 329, 334, 335, 330, 605, 607, 609, 619, 620, 621, 624, 612, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 732, 730, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 726, 816, 818, 848, 871, 789, 785, 783, 780, 781, 782, 783, 800, 803, 798, 815, 810, 814, 790	314, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 315, 309, 313, 310, 308, 307, 341, 336, 337, 331, 330, 329, 334, 335, 330, 605, 607, 609, 619, 620, 621, 624, 612, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 732, 730, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 726, 816, 818, 848, 871, 789, 785, 783, 780, 781, 782, 783, 800, 803, 798, 815, 810, 814, 790	314, 317, 318, 319, 320, 322, 323, 315, 309, 313, 310, 308, 307, 341, 336, 337, 331, 330, 329, 334, 335, 330, 605, 607, 609, 619, 620, 621, 624, 612, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 732, 730, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 726, 816, 818, 848, 871, 789, 785, 783, 780, 781, 782, 783, 800, 803, 798, 815, 810, 814, 790										
Datia	Bhander	Dalpatpura	1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 27, 39, 40, 41, 38, 37, 82, 81, 77, 76, 75, 74, 57, 58, 59, 60, 61, 56, 47, 45, 46, 43, 42,	1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13, 26, 27, 38, 29, 37, 36, 82, 83, 81, 78, 79, 77, 76, 75, 74, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 55, 56, 47, 48, 49, 45, 46, 43, 42	1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 30, 31, 32, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 66, 63, 84, 85, 86, 89, 220, 96, 219, 222, 223, 293, 292, 294, 295, 299, 300, 296, 297, 298	1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 30, 31, 32, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 66, 63, 84, 85, 86, 89, 220, 96, 219, 222, 223, 293, 292, 294, 295, 299, 300, 296, 297, 298										
Datia	Bhander	Kheriya Alam	4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 20, 30, 31, 32, 58, 59, 64, 65, 66, 73, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 220, 219, 222, 221, 293, 294, 295, 296, 297	4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 30, 31, 32, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 66, 63, 84, 85, 86, 89, 220, 96, 219, 222, 223, 293, 292, 294, 295, 299, 300, 296, 297, 298	4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 30, 31, 32, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 66, 63, 84, 85, 86, 89, 220, 96, 219, 222, 223, 293, 292, 294, 295, 299, 300, 296, 297, 298	4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 30, 31, 32, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 66, 63, 84, 85, 86, 89, 220, 96, 219, 222, 223, 293, 292, 294, 295, 299, 300, 296, 297, 298										
Datia	Bhander	Gudaha	7, 8, 9, 76, 75, 74, 73, 71, 70, 77, 78, 82, 81, 83, 84, 85, 86, 87,	7, 8, 9, 10, 11, 12, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 69, 64, 70, 66/1, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 98	7, 8, 9, 10, 11, 12, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 69, 64, 70, 66/1, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 98	7, 8, 9, 10, 11, 12, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 69, 64, 70, 66/1, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 98										
Datia	Bhander	Ramner	81, 85, 86, 88, 87, 93, 94, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 136, 137, 138, 139, 147, 148, 149, 150, 153, 154/1, 155	81, 85, 88, 87, 91, 93, 94, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 136, 137, 138, 139, 140/1, 146/1, 147, 150, 151/1, 152, 153, 154/1, 155	81, 85, 88, 87, 91, 93, 94, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 136, 137, 138, 139, 140/1, 146/1, 147, 150, 151/1, 152, 153, 154/1, 155	81, 85, 88, 87, 91, 93, 94, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 136, 137, 138, 139, 140/1, 146/1, 147, 150, 151/1, 152, 153, 154/1, 155										

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)							Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)							
			(4)							(5)							
(1)	(2)	(3)															
Datia	Bhander	Tor	55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 80, 83, 84, 85/1, 85/2, 90, 100/1, 100/3							55, 56, 61, 63, 64, 65, 72, 73, 77, 79, 80, 84, 85/1, 85/2, 90, 100/1, 101, 102, 99, 100/2, 100/3, 101/1, 102/1, 102/3, 98/1, 99/1, 89							
Datia	Bhander	Pandokhar	398, 431, 425, 427/2049, 427, 428, 429, 430, 399, 397, 432, 433, 434, 438, 972, 673, 712, 713, 714, 715, 745, 746, 747, 778, 752, 751, 758, 753, 754, 756, 804, 805, 806, 807, 808, 438, 459, 460, 461, 463, 465, 466, 480, 467, 468, 541, 542, 543, 550, 556, 558, 559, 832, 834, 838, 839, 0000, 847, 671, 670, 669, 668, 666, 662, 661, 1943, 1880, 1882, 1883, 1884, 1885, 1863, 1886, 1887, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1936, 1887, 1888, 1892, 1894, 1899, 1895, 1896, 1909, 1910, 1935, 1920, 1921, 1927, 1930, 1931, 1941, 1942, 1939, 1938, 1940, 1976, 1997, 1998, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2010, 2013, 2018, 2032, 2036, 2035, 1933, 1934, 1755, 1770, 2037, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045							425, 427/2049, 427, 429, 430, 399, 397, 433, 434, 438, 437, 436, 435, 439, 673, 712, 713, 714, 717, 718, 715, 745, 746, 744, 747, 748, 751, 758, 753, 754, 756, 757, 804, 805, 806, 808, 809, 847, 438, 439, 459, 460, 461, 463, 464, 465, 466, 480, 468, 469, 540, 541, 543, 550, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 832, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 0000, 847, 671, 670, 669, 668, 667, 665, 666, 662, 661, 1943, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1863, 1886, 1860, 1859, 1858, 1857, 1856, 1842, 1941, 1929, 1938, 1936, 1887, 1888, 1892, 1894, 1895, 1896, 1893, 1909, 1910, 1911, 1920, 1921, 1927, 1930, 1931, 1941, 1942, 1939, 1938, 1940, 1976, 1997, 1998, 2004, 2010, 2013, 2018, 2019, 2031, 2032, 2033, 2036, 2035, 1933, 1934, 1770, 1755, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2045, 2046							
Datia	Bhander	Igui	45, 42, 50, 117, 118, 119, 120, 121, 109, 123, 124, 125, 128, 121, 133, 134, 135, 288, 287, 275/1, 275/2, 497, 494, 495, 302, 303, 324, 320, 319, 318, 317, 309, 311, 308, 307, 89, 294, 295, 292, 291, 448, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 492, 489, 558, 494, 511, 512, 607, 592, 590, 566, 587, 586, 585, 584, 583, 581, 577, 492, 493, 629, 626, 627, 628, 620, 621, 622, 619, 617, 616, 615, 614, 612, 610						41, 42, 40, 39, 50, 52, 117, 118, 119, 109, 120, 121, 123, 115, 124, 125, 128, 112, 121, 132, 133, 134, 135, 288, 285, 286, 287, 276, 275/1, 275/2, 497, 494, 495, 496, 302, 303, 323, 320, 319, 318, 317, 313, 309, 311, 306, 308, 307, 294, 298, 295, 292, 291, 448, 451, 452, 453, 454, 455, 489, 458, 459, 450, 494, 509, 510, 513, 511, 512, 607, 596, 592, 597, 590, 591, 566, 588, 587, 586, 585, 563, 581, 577, 492, 498, 490, 629, 628, 612, 613, 616, 617, 619, 610, 611, 639, 640, 641								

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)							Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)						
			(1)	(2)	(3)	(4)				(5)						
Datia	Bhander	Bisalpura	114, 96, 477, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 134, 133, 136, 137, 138, 139, 000, 413, 414, 412, 411, 410, 406, 407, 405, 404, 389, 388, 384, 372, 475, 474, 464, 465, 473, 477, 476, 463, 459, 448, 456, 455, 454, 453, 457, 458, 415, 416, 415, 416, 438, 437, 439, 440, 645, 643, 684, 688, 685, 686, 687, 689, 694, 695, 696, 697, 698, 700, 701, 702, 703, 705, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 705, 709, 710, 711, 712, 371, 370, 776, 370	95, 96, 477, 97, 98, 99, 106, 105, 108, 109, 102, 103, 134, 136, 137, 138, 140, 142, 139, 000, 413, 411, 410, 406, 407, 403, 405, 404, 389, 388, 384, 372, 373, 477, 476, 464, 465, 473, 466, 463, 459, 448, 456, 455, 454, 453, 457, 458, 415, 416, 438, 437, 439, 440, 645, 643, 684, 688, 685, 686, 687, 689, 694, 695, 696, 697, 698, 700, 701, 702, 703, 705, 709, 710, 711, 712, 371, 369,												
Datia	Bhander	Natarra	85, 284, 289, 286, 287, 304, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 539, 540, 541, 542, 757, 758, 759, 761, 762, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 793, 794, 568, 569, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 752, 753, 754, 750, 755, 756, 742, 757, 795, 825, 851, 852, 854, 855, 858, 859, 860, 885, 887, 886, 891, 899, 898, 892, 893	284, 290, 283, 289, 286, 287, 288, 518, 519, 520, 522, 523, 538, 539, 540, 541, 542, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 780, 781, 782, 783, 784, 789, 785, 788, 786, 787, 791, 792, 793, 796, 543, 544, 567, 566, 568, 569, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 752, 753, 754, 750, 751, 755, 756, 741, 742, 824, 825, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 883, 885, 882, 884, 887, 888, 886, 890, 891, 899, 898, 892, 893, 894, 895,												
Datia	Bhander	Simthara	88, 93, 94, 92, 95, 96, 98, 100, 104, 105, 106, 107, 241, 242, 243, 246, 240, 234, 226, 225, 208, 212, 213, 214, 215, 225, 207, 205, 204, 203/1, 202, 200, 199, 198, 197, 196, 195	88, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 104, 106, 107, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 240, 206, 234, 226, 225, 208, 212, 213, 214, 215, 216, 225, 207, 205, 204, 203/1, 203/2, 202, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195												
Datia	Bhander	Devra	4, 3/2, 5/1, 5/2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 26/222, 51, 52, 53, 82, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 88, 120, 121, 122, 140, 147, 148, 149,	4, 3/2, 5/1, 5/2, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 26/222, 51, 53, 54, 58, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 59, 60, 61, 63, 68, 79, 80, 81, 82, 87/1, 87/2, 86, 85, 84, 88, 119, 120, 121, 122, 141, 140, 147, 146, 148, 150, 151, 152, 149, 193												
Datia	Bhander	Chandrol	599, 600, 601, 602, 662, 663, 701, 700, 702, 703, 704, 712, 713, 714, 717, 718, 719,	596, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 662, 663, 701, 700, 666, 702, 703, 704, 712, 713, 711, 714, 715, 716,												

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)					Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
			720, 721, 722, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 749, 753, 754, 801, 802, 803, 806, 805, 807, 808, 809, 810, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830			717, 722, 726, 727, 728, 730, 732, 733, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 743, 749, 753, 754, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 857, 809, 810, 811, 822, 823, 821, 819, 820, 824, 825, 831, 826, 827, 828, 829, 830						
Datia	Bhander	Tighra Kalan	178, 177, 176, 175, 171, 52, 53, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 141, 142/672, 147, 148, 157, 158, 159, 167, 168, 169, 179, 171, 170, 180, 181, 182, 183, 187, 186, 185, 184, 317, 318, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 420, 421, 422, 524, 425, 426, 427, 434, 435, 436, 437, 458, 459, 463, 463, 466, 467, 468, 545, 469, 471, 470, 475, 484, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 469, 470, 485, 483, 487, 488, 489, 492, 493, 494, 495, 496			177, 176, 175, 171, 52, 53, 51, 54, 55, 56, 40, 41, 57, 58, 39, 64, 65, 66, 67, 141, 142, 142/671, 142/672, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 156/670, 156, 157, 158, 159, 160, 167, 164, 166, 168, 171, 196, 180, 191, 192, 189, 182, 188, 187, 186, 317, 319, 320, 413, 414, 321, 322, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 524, 425, 426, 427, 434, 435, 436, 437, 458, 459, 463, 464, 466, 467, 468, 546, 545, 471, 470, 472, 481, 475, 476, 477, 478, 469, 470, 481, 485, 484, 487, 488, 489, 491, 492, 493, 523, 494, 495, 497, 498, 503, 504,						
Datia	Bhander	Bagpura	644, 643, 646, 645, 646, 648, 649, 650, 651, 624, 689, 688, 687, 686, 685, 683, 679, 677, 678, 680, 652, 653, 656, 657, 658, 659, 660, 671, 672, 676, 674			643, 639, 642, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 624, 623, 690, 694, 693, 689, 688, 687, 686, 685, 683, 679, 680, 678, 652, 653, 656, 657, 658, 660, 659, 670, 671, 672, 675, 676, 674						
Datia	Bhander	Bichhretta	132, 131, 130, 124, 115, 114, 113, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 133, 134, 135, 144, 166, 167, 168/2, 168/1, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 238, 239, 240, 242, 274, 275, 276, 287, 286/1, 286/2, 303, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 4233, 434, 435, 436, 428, 427, 426, 424, 423, 425, 415, 440, 44, 439, 438, 442/1, 443, 447, 446, 445, 442/2, 448, 452, 449, 450			132, 131, 129, 130, 124, 116, 115, 117, 114, 113, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 236, 133, 137, 135, 144, 166, 167, 168/2, 168/1, 216, 215, 217, 214, 218, 219, 220, 221, 224, 238, 239, 240, 242, 274, 275, 276, 278, 277, 286/1, 286/2, 43, 303, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 433, 434, 435, 436, 432, 428, 427, 426, 423, 425, 422, 420, 415, 440, 441, 442/1, 445, 442/2, 448, 452, 451, 450, 453, 454						

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)			Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Datia	Bhander	Sikandarpur	954 / 1114, 959, 1009, 1005, 1004, 993, 989, 988, 985, 984, 983, 979, 805, 804, 777, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 739, 737, 738, 736, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 747, 749, 750, 751, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 769, 770, 771, 772, 773, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 1047, 1045, 1046, 1056, 1044, 1042, 1043, 1040, 1041, 1038, 1039, 1028, 1089, 1038, 1089, 1015, 1016, 1017, 1019, 1020, 1028, 1029, 1025, 1028, 1021	954 / 1114, 954 / 1084, 1003, 1002, 1001, 993, 990, 988, 1973, 981, 987, 985, 986, 983, 982, 980, 978, 805, 803, 804, 773, 774, 775, 776, 778, 773, 734, 725, 726, 731, 732, 733, 740, 734, 735, 737, 736, 743, 746, 747, 751, 753, 756, 764, 766, 767, 769, 1051, 1050, 1050, 1053, 1054, 1056, 1061, 1064, 1044, 1045, 1055, 1056, 1040, 1041, 1039, 1036, 1035, 1037, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1027, 1025, 1024, 1023, 1022, 1021				
Datia	Bhander	Bhander	41, 35 / 1 / 1, 35 / 2 / 2, 42, 43, 194, 45, 193, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 169, 174, 170, 185, 153, 180, 181, 175, 176, 177, 178, 173, 155, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 141, 131, 130, 132, 136, 135, 134, 129, 128, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 100, 101, 104, 106, 105, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 103, 124, 125, 221, 144, 145, 143, 146, 147, 148, 149, 210, 208, 205, 206, 202, 203, 204, 200, 198, 195, 196, 104, 111, 110, 108, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 2341, 232, 116, 115, 114, 113	41, 35 / 1 / 2, 40, 35 / 2 / 2, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 54, 169, 174, 170, 185, 153, 180, 181, 175, 176, 177, 178, 173, 155, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 141, 131, 130, 132, 136, 135, 134, 129, 128, 79, 80, 81, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 100, 101, 104, 106, 105, 146, 147, 148, 149, 210, 205, 206, 209, 202, 201, 203, 205 / 261, 200, 198, 195, 196, 111, 110, 108, 116, 115, 114, 113				
Datia	Bhander	Gaddipur	104, 105, 118, 119, 120	103, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 120				
Datia	Bhander	Chak Abdu	20, 21, 19, 74, 75, 17, 18, 16, 15, 77, 76, 80, 82, 99, 100, 101, 102, 103, 1, 14, 03, 13, 04, 11, 12, 104, 105	20, 21, 19, 74, 75, 17, 18, 77, 76, 80, 84, 82, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 01, 03, 13, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 104, 105, 106				
Datia	Bhander	Alapur	7, 8, 9	5, 6, 8, 9, 10, 11, 44, 45, 61, 62, 64				

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)						Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)						
			(4)						(5)						
(1)	(2)	(3)													
Datia	Bhander	Kabulpur	-						1, 2, 3, 4						
Datia	Bhander	Hansapur	1, 62, 61, 59, 57, 54, 53, 50, 49, 48, 47, 63, 64, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 186, 188, 189, 190, 191, 192, 192 / 360, 193, 194, 177, 195, 196, 176, 174, 173	1, 62, 61, 59, 57, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 186, 188, 189, 187, 190, 191, 192, 192, 193, 194, 177, 176, 174, 173											
Datia	Bhander	Bejapara	132, 133, 134, 135, 141, 140, 365, 364, 131, 373, 375 / 1, 376 / 3, 377 / 3, 375 / 3, 127, 128, 129, 129 / 406, 125, 142, 146, 147, 148, 149, 350, 364, 383, 361, 374, 344, 341, 341 / 2, 341 / 3, 340, 339 / 1, 337	132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 140, 365, 373, 375 / 1, 377 / 2, 377 / 3, 375 / 3, 126, 127, 129, 129 / 406, 125, 142, 146, 147, 148, 149, 350, 362, 361, 374, 344, 341, 342, 341 / 2, 341 / 3, 340, 338, 339 / 1, 337											
Datia	Bhander	Bharroli	5, 4, 6, 10, 152, 11, 34, 41, 43, 42, 44, 47, 50, 51, 76, 85, 148, 149, 147, 146, 145, 143, 140 / 663, 140, 139, 135, 138, 137, 134, 159, 153, 154, 168, 169, 170, 171, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 276 / 2, 277, 278, 279, 313, 326, 325, 325, 327, 328, 332, 333, 334, 336, 458, 457, 456, 455, 452, 454, 450, 449, 551, 553, 560, 561, 559, 558, 335, 336, 424, 426, 427, 435, 437, 440, 445, 443, 444, 442, 579, 577, 563, 448, 456, 462, 447	5, 4, 3, 6, 10, 11, 12, 34, 41, 42, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 76, 84, 85, 148, 86, 149, 147, 145, 143, 140, 139, 134, 459, 267, 266, 271, 272, 273, 274, 275, 276 / 2, 276 / 1, 277, 278, 279, 313, 326, 325, 325, 327, 328, 332, 333, 334, 335, 3557, 335, 334, 336, 424, 558, 3557, 335, 334, 336, 424, 425, 426, 428, 427, 435, 436, 437, 440, 443, 441, 442, 579, 578, 577, 563, 576											
Datia	Bhander	Kaimara	15, 16, 17, 18, 19, 20, 49, 50, 51, 52, 53, 73, 74, 76, 77, 57, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 105, 106, 708, 109, 110, 111, 112	15, 16, 17, 18, 19, 20, 50, 51, 52, 53, 73, 74, 77, 57, 78, 79, 80, 82, 86, 87, 105, 106, 107, 109,											
Datia	Bhander	Bichhoudana	4, 14, 15, 16, 18, 19, 52, 54, 887, 56, 57, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 886, 55, 884, 885, 883, 880,	4, 14, 15, 16, 18, 19, 53, 54, 56, 57, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 885, 884, 882, 881, 880, 879, 608, 607, 605											

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)					Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)				
			(4)					(5)				
(1)	(2)	(3)										
			879, 608, 607, 609, 590, 591, 604, 592, 603, 602, 601, 600, 599, 598, 59, 595, 529, 530, 528, 523, 520, 519, 518, 516, 517, 514, 500, 501, 491, 492, 488, 484, 486, 483, 482, 622, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 620, 642, 643, 644, 646, 647, 519 / 1509, 649, 648, 650, 651, 665, 1215, 1216, 1217, 1218, 1227, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1235, 1261, 1308, 1306, 1303, 1302, 1301, 1299, 1300, 1295, 1294, 1292, 1293, 1311, 1312, 1310, 1431, 1432, 1435, 1451, 1452, 1455, 1454 / 1517, 1456, 1445, 1458, 1496, 1497				609, 590, 590, 591, 604, 592, 603, 602, 601, 600, 599, 597, 595, 529, 530, 528, 524, 523, 525, 520, 519, 521, 518, 516, 514, 501, 492 493, 494, 495, 490, 488, 485, 484, 486, 483, 481, 480, 470, 622, 611, 612, 612, 613, 623, 614, 618, 316, 617, 620, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 649, 653, 655, 654, 657, 656, 1215, 1214, 1216, 1217, 1218, 1227, 1226, 1239, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1261, 1308, 1306, 1303, 1302, 1301, 1298, 1299, 1300, 1295, 1294, 1291, 1292, 1293, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316, 1319, 1431, 1432, 1433, 1435, 1434, 1451, 1452, 1453, 1455, 1454, 1454 / 1517, 1456, 1460, 1458, 1496, 1497					

III.**Part-A**

S.No.	Name of State Highway	Total Length (in Km.)	Name of Districts on the way
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gormi-Udotgarh SH-19	16.77	Bhind

Part-B**Details of land in between Building Lines and Control Lines**

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)					Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)				
			(4)					(5)				
(1)	(2)	(3)										
Bhind	Gormi	Gormi	1886, 1887, 1896, 1889, 1892, 1600, 1563, 1564, 1562, 1561, 1557, 1558, 1559, 1560, 1904, 1928, 1926, 1986, 1987, 1990, 1992, 1993, 1999, 1897, 1898, 1901, 1895, 1893, 1917, 1918, 1928, 1929, 1927, 1949, 1985,					1886, 1888, 1889, 1891, 1890, 1600, 1564, 1568, 1565, 1562, 1566, 1567, 1561, 1555, 1556, 1557, 1558, 1999, 1553, 1904, 1926, 1925, 1924, 1923, 1949, 1524, 1525, 1530, 1987, 1893, 1894, 1917, 1918, 1930, 1927, 1929, 1985, 1988, 1987, 1989, 1982, 1992,				

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)					Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)				
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(1)	(2)	(3)										
			1988, 1989, 2000, 2003, 2001, 2077, 2079, 2080, 2081, 2343, 2113, 2111, 2108, 2109, 2107, 2101, 2103, 2102, 2338, 2334, 2335, 2331, 2134, 2297, 2298, 2302, 2279, 2275, 2276, 2277, 2267, 2268, 2269, 2224, 2227, 2226, 2230, 2231, 2232, 2233, 2078, 2100, 2117, 2116, 2106, 2105, 2107, 2333, 2332, 2291, 2292, 2293, 2290, 2275, 2271, 2270, 2269, 2223, 2225, 2208, 2209, 2215, 2218, 563, 564, 562, 560, 568, 563, 562, 561, 556, 555, 554, 552, 420, 419, 421, 422, 426, 423, 424, 425, 446, 447, 452, 451, 455, 417, 416, 415, 405, 418	2000, 2001, 2002, 2077, 2079, 2080, 2081, 2083, 2343, 2091, 2110, 2107, 2101, 2103, 2102, 2339, 2334, 2337, 2336, 2335, 2331, 2329, 2330, 2134, 2296, 2299, 2298, 2301, 2302, 2279, 2277, 2268, 2267, 2263, 2227, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 1998, 1999, 2119, 2117, 2116, 2113, 2112, 2105, 2332, 2290, 2289, 2292, 2283, 2282, 2293, 2275, 2274, 2271, 2270, 2222, 2225, 2208, 2209, 2215, 2214, 2216, 2217, 2218, 563, 564, 562, 560, 561, 556, 557, 554, 552, 421, 427, 429, 430, 426, 447, 444, 452, 454, 455, 412, 413, 417, 414, 415, 405, 418, 403, 398, 397, 396, 395, 371								
Bhind	Gormi	Mohanpura	140, 142, 141, 145, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 284, 283, 282, 274, 275, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 285, 286, 314, 314 / 804, 313, 312, 311, 309, 310, 308, 333, 306, 305, 304, 302, 299, 303, 297, 298, 296, 295, 290, 451, 289, 288, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 491, 505, 506, 504, 503, 502, 501, 508, 500, 497, 496, 495, 492, 481, 462, 461, 464,	140, 135, 142, 141, 139, 145, 143, 146, 147, 148, 149, 151, 150, 152, 153, 119, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 215, 284, 282, 275, 268, 273, 261, 262, 272, 271, 270, 263, 268, 264, 265, 266, 314, 315, 314 / 804, 313, 312, 311, 322, 325, 310, 308, 307, 333, 306, 305, 304, 302, 300, 299, 301, 306, 295, 290, 451, 458, 289, 288, 454, 455, 458, 491506, 504, 503, 502, 508, 509, 500, 497, 496, 495, 492, 481, 490, 462, 461, 463, 464, 458								
Bhind	Gormi	Kutrouli	652, 653, 655, 656, 725, 727, 726, 728, 731, 733, 732, 734, 736, 737, 738, 739, 740, 742, 741, 845, 846, 847, 842, 849, 851, 852, 853, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 869, 877, 878, 879, 880, 881, 883, 884, 885, 886, 889, 890, 891, 897, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 940, 941, 942, 944, 943, 1065, 1066, 1067, 1068, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1078, 1082, 1084, 1086,	652, 651, 653, 655, 654, 656, 725, 727, 726, 728, 728, 731, 732, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 744, 743, 742, 845, 844, 843, 846, 847, 842, 849, 848, 850, 851, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 867, 869, 876, 877, 878, 880, 881, 883, 884, 885, 886, 888, 889, 891, 892, 893, 897, 913, 914, 915, 916, 923, 918, 920, 940, 941, 942, 939, 944, 1065, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1078, 1082, 1084, 1086								
			1753, 1754, 1755, 1756, 1752, 1745, 1743, 1744, 1742, 1740,	1755, 1752, 1751, 1750, 1745, 1744, 1742, 1740, 1741, 1055, 1056, 1057, 1734, 1274,								

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)					Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)				
			(4)					(5)				
(1)	(2)	(3)										
Bhind	Gormi	Kachnav kalan	1741, 1056, 1057, 1734, 1733, 1736, 1780, 1779, 1776, 1777, 1757, 1758, 1759, 1760, 1771, 1058, 1059, 1070, 1071, 1072, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1217, 1216, 1218, 1219, 1220, 1224, 1225, 1226, 1227, 1231, 1228, 1229, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1105, 1097, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 825, 826, 824, 823, 822, 818, 819, 817, 814, 815, 816, 811, 810, 809, 807, 808, 812, 1105, 1214, 1215, 1213, 1106, 1109, 1107, 1108, 1110, 1114, 1115, 1116, 1118, 1125, 1124, 1123, 1119, 1120, 1121, 1122, 1392, 1393, 1391, 1395, 1396, 1397, 1390, 1429, 1431, 1432, 1433, 1436, 1334, 1423, 1425, 649, 650, 647, 648, 646, 642, 581, 583, 552, 551, 575, 574, 577, 576, 578, 1451, 1450, 1449, 1436, 1438, 1437, 1439, 1440, 1382, 1381 / 1379, 1378, 1370, 1369, 1368, 1367, 1366, 1365, 1364, 1354, 1352, 1351, 551, 550, 541, 544, 539, 540, 538, 537, 536, 520, 521, 522, 523, 458, 456, 455, 454, 453, 451, 480, 265, 272, 270, 271, 452, 449, 447, 446, 605, 527, 528, 529, 530, 531, 588, 587, 627, 586, 584, 585,	1733, 1731, 1736, 1781, 1780, 1779, 1778, 1777, 1775, 1758, 1759, 1760, 1771, 1061, 1060, 1058, 1059, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1084, 1081, 1082, 1083, 1085, 1087, 1088, 1090, 1089, 1091, 1092, 1093, 1217, 1216, 1218, 1220, 1224, 1227, 1231, 1228, 1230, 1229, 1261, 1260, 1262, 1263, 1267, 1268, 1271, 1272, 1273, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 826, 824, 823, 822, 821, 818, 819, 820, 817, 813, 814, 815, 816, 810, 809, 807, 808, 1213, 1106, 1111, 1109, 1107, 1110, 1114, 1113, 1117, 1118, 1126, 1125, 1124, 1123, 1393, 1391, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1390, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1334, 1423, 1425, 649, 650, 651, 647, 646, 642, 644, 583, 551, 552, 575, 574, 577, 557, 576, 1451, 1450, 1449, 1452, 1448, 1447, 1438, 1437, 1439, 1440, 1382, 1381, 1380, 1379, 1378, 1376, 1370, 1369, 1368, 1367, 1365, 1364, 1355, 1354, 1352, 1351, 548, 549, 550, 541, 544, 539, 538, 537, 536, 534, 520, 522, 517, 523, 461, 458, 459, 455, 454, 453, 451, 480, 265, 272, 270, 271, 452, 449, 448, 447, 445, 446, 605, 529, 593, 591, 587, 626, 627, 586, 628, 637, 638,								
Bhind	Ater	Shukalpura	1814, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824	1814, 1817, 1816, 1818, 1834, 1819, 1833, 1820, 1821, 1822, 1823, 1827, 1824								
Bhind	Ater	Khadheet	1277, 1278, 1279, 1274, 1253, 1255, 1256, 1259, 1225, 1224, 1275, 1273, 1260, 1261, 1262, 1210, 803, 802, 801, 800, 805, 799, 798, 797, 796, 806, 827845, 828, 830, 831, 832, 833, 844, 843, 844 / 1725, 1044, 1042, 1043, 1041, 1039, 1034, 1033, 638, 660, 661, 663, 664, 665, 666, 667, 677, 676, 678, 679, 687, 686, 684, 688, 726, 792, 793, 780, 781, 782, 767, 727,	1277, 1279, 1274, 1252, 1253, 1255, 1256, 1257, 1259, 1225, 1275, 1276, 1273, 1261, 1262, 803, 802, 800, 804, 805, 799, 798, 806, 826, 827, 828, 829, 830, 834, 833, 843, 1044, 1042, 1043, 1041, 1039, 1036, 1034, 1033, 1032, 638, 660, 661, 663, 662, 665, 667, 668, 726, 725, 727, 730, 729, 728, 766, 767, 768, 790, 791, 789, 784, 793, 780, 778, 783, 722, 677, 678, 679, 681, 680, 686, 685, 688, 1036, 1032, 848, 849, 861, 860, 862, 863, 869, 870,								

District	Tehsil	Village	Details of land (Survey No.) Coming between Building Line (40m. either sides of the road)	Details of land (Survey No.) Coming between Control Line (75m. either sides of the road)
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)		
			728, 766, 847, 848, 861, 862, 863, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 888, 889, 890, 891, 902, 903, 906, 909, 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 539, 540, 540 / 1721, 541, 592, 593, 608, 609, 625, 626, 628, 629, 635, 636, 142, 147, 184, 185, 188, 189, 192, 199, 200, 201, 202, 203, 292, 293, 294, 296, 295, 302, 304, 305, 306, 307, 310, 311, 314, 315, 323, 324, 325, 326 / 1730, 326, 327, 328, 352, 353, 354, 355, 356, 361, 362, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 357, 389, 390, 391, 392, 396, 397, 395, 398, 399	871, 873, 874, 875, 876, 887, 888, 889, 892, 891, 901, 902, 904, 903, 905, 906, 912, 909, 910, 519, 520, 521, 531, 530, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 540, 541, 592, 593, 608, 609, 625, 626, 628, 627, 630, 631, 635, 636, 637, 142, 144, 145, 147, 148, 184, 183, 185, 186, 188, 187, 189, 190, 191, 192, 194, 199, 200, 201, 204, 203, 292, 301, 294, 297, 296, 302, 304, 305, 307, 308, 310, 311, 314, 315, 323, 322, 324, 325, 326 / 1730, 326, 328, 352, 351, 353, 357, 361, 362, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 126, 141, 143, 353, 357, 361, 360, 362, 363, 389, 388, 387, 390, 391, 386, 392, 396, 395, 394, 399, 400
Bhind	Ater	Boodhanpura	74, 68, 69, 67, 66, 65, 60, 58, 59, 57, 51, 52, 53, 54, 50, 122, 122 / 508, 130, 49, 48, 47, 45, 46, 131, 132, 151, 152, 153, 174, 181, 180, 176, 177, 191, 204, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 217, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 44, 229, 43, 39, 38, 32, 31, 30, 29, 28, 26	74, 77, 69, 70, 67, 65, 64, 60, 58, 57, 51, 53, 54, 122, 130, 131, 132, 136, 134, 135, 151, 152, 153, 154, 172, 173, 174, 181, 182, 180, 179, 178, 175, 176, 177, 191, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 213, 217, 222, 223, 224, 225, 227, 229, 43, 41, 42, 40, 39, 37, 38, 33, 32, 31, 28, 26, 24, 25

Under Section 12(2) of Madhya Pradesh Rajmarg Adhiniyam, any or all persons affected by such notification who may wish to make any objection or suggestion with respect to the issue of such notification, may submit their objections or suggestions in writing to the Highway Authority (Managing Director/Divisional Manager M.P. Road Development Corporation Ltd.) or appear before such authority within one month of the publication of the notification in the official Gazette or within 15 days from the date of the publication of the notification in the village, whichever period expires later.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 मार्च 2015

क्र. 797-मंडी निर्वा.-2014-15.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा मंडी अधिनियम की धारा 11(1) (ज) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी नियम 2010 के अंतर्गत छिन्दवाड़ा जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र (1)	मण्डी का नाम (2)	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
1	छिन्दवाड़ा	श्री रघुवीर प्रसाद वर्मा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., छिन्दवाड़ा	11(1)(ज)
2	अमरवाड़ा	श्री टीकाराम चन्द्रवंशी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., छिन्दवाड़ा	11(1)(ज)
3	सौंसर	श्री रामकृष्ण पंढरी वाकोड़े, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., छिन्दवाड़ा	11(1)(ज)
4	पांडुना	श्री मारोत्तराव खवसे, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., छिन्दवाड़ा	11(1)(ज)
5	चौरई	श्री श्याम सिंह, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., छिन्दवाड़ा	11(1)(ज)

महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 18 मार्च 2015

क्र. मंडी निर्वा.-2014-15-2077.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, शिल्पा गुप्ता, कलेक्टर, मुरैना मंडी अधिनियम की धारा 11(1) के नीचे उल्लेखित खण्डों के अन्तर्गत शेष सदस्यों की मंडी समिति में सदस्या तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन नियम 2010 के अंतर्गत मुरैना जिले की कृषि उपज मंडी समिति मुरैना के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करती हूँ :—

क्र (1)	मण्डी का नाम (2)	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता (3)	मण्डी अधिनियम की धारा (4)
1	मुरैना	श्री बल्लभ डण्डौतिया, अध्यक्ष, सहकारी विषयन सोसायटी, मुरैना	धारा 11(1)(इ)
2	मुरैना	जिला मुख्यालय पर पदेन संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मुरैना.	धारा 11(1)(च)
3	मुरैना	श्री शिवमंगल सिंह तोमर, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मुरैना	धारा 11(1)(ज)
4	मुरैना	श्रीमती गीता हर्षनाना, अध्यक्ष जिला पंचायत, मुरैना	धारा 11(1)(ज्र)
5	मुरैना	अध्यक्ष जिला ग्रामीण भूमि विकास सहकारी बैंक, मुरैना पद रिक्त है	धारा 11(1)(झ)

अतः ऊपर उल्लेखित व्यक्तियों/सदस्यों को मंडी अधिनियम की धारा 11 उपधारा 5 के अन्तर्गत राजपत्र में प्रकाशन/अधिसूचित किये जाने हेतु।

क्र. मण्डी निर्वा.-2014-15-2071.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, शिल्पा गुप्ता, कलेक्टर, मुरैना मण्डी अधिनियम की धारा 11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्या तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम 2010 के अन्तर्गत मुरैना जिले की कृषि उपज मण्डी समिति मुरैना के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करती हूँ :—

क्र	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मुरैना	श्री अनूप मिश्रा, लोकसभा सदस्य, संसदीय क्षेत्र मुरैना-श्योपुर	धारा 11(1)(घ)
2	मुरैना	श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, विधानसभा सदस्य, विधानसभा क्षेत्र सुमावली	धारा 11(1)(घ)

अतः ऊपर उल्लेखित व्यक्तियों/सदस्यों को मण्डी अधिनियम की धारा 11 उपधारा 5 के अन्तर्गत राजपत्र में प्रकाशन/अधिसूचित किये जाने हेतु।

शिल्पा गुप्ता, कलेक्टर।

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.), खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 26 मार्च 2015

क्र. 6509-स्था. नि. शा..-2014.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 11(5) के अन्तर्गत खण्डवा जिले की कृषि उपज मण्डी समिति 74 खण्डवा, मण्डी समिति-75 हरसूद एवं मण्डी समिति-76 पंधाना के लिये नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम निम्नलिखित अनुसार अधिसूचित किये जाते हैं :—

01 मण्डी समिति-74 खण्डवा

क्रमांक	नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम/पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)
1	श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री शेरसिंह तंवर निवासी नावली, विधायक प्रतिनिधि विधानसभा क्षेत्र-178 पंधाना।	11(घ)
2	श्री हुक्मचंद दुर्गा प्रसाद यादव, प्रतिनिधि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा	11(1)(ज)

02 मण्डी समिति-75 हरसूद

क्रमांक	नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम/पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)
1	श्री गोकुल पिता श्री रामसिंह, निवासी बोथियाखुर्द, प्रतिनिधि तहसील सहकारी कृषि प्रक्रिया एवं विपणन संघ मर्या., हरसूद।	11(ड)
2	श्री धर्मेन्द्र नगीनचंद भण्डारी, प्रतिनिधि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा	11(1)(ज)

03 मण्डी समिति-76 पंधाना

क्रमांक	नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम/पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)
1	श्री प्रेमलाल मुकुन्द पटेल, प्रतिनिधि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा	11(1)(ज)

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी)।

भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं

OFFICE OF THE JOINT COMMISSIONER OF INCOME TAX, RANGE-2

'Aayakar Bhawan', Hoshangabad Road, Bhopal (Madhya Pradesh)-462011

ORDER

Bhopal, the 12th March 2015

F. No. JCIT-2BPL/(Jurisdiction)/2014-15.—IN VIEW of the jurisdiction assigned to the undersigned vide Notification in F. NO. CIT-1-BPL-Tech-(Jurisdiction)-2014-15-982, dated 15 November 2014 of the Principal Commissioner of Income-tax/Commissioner of Income-tax, Bhopal-1 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), and all other powers enabling the undersigned in this behalf, the Joint Commissioner of Income-tax-Range-2, Bhopal, hereby, makes the following amendments to the Notification dated 15th November, 2014 issued vide F. No. JCIT-2/BPL/(Jurisdiction)/2014-15 with immediate effect, namely :—

In the said Notification,—

1. Against sl. no. 1, the following is inserted below item (b)(ii) in column (4) of the Schedule of the Notification.—

"(c) District of Bhopal-Remaining part (i.e. other than area of Bhopal Municipal Corporation and Kolar Municipality) of Huzur Tehsil of District Bhopal and not specifically covered in the jurisdiction of Principal Commissioner of Income Tax/Commissioner of Income Tax-1/2, Bhopal."

2. Against sl. no. 1, in item (d) in column (5) of the Schedule of the Notification, after the words 'item (b)', the words 'and (c)' is inserted.

3. Against sl. no. 1, in item (e) in column (5) of the Schedule of the Notification, after the words 'item (b)', the words 'and (c)' is inserted.

4. Against sl. no. 1, in item (d) in column (6) of the Schedule of the Notification, after the words 'income returned', the words 'or loss' is inserted.

5. Against sl. no. 3, the following is inserted below item (c) in column (5) of the Schedule of the Notification:—

"(d) Persons other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) & (c) of column (4)."

6. Against sl. no. 3, in item (c) in column (6) of the Schedule of the Notification, after the words 'corresponding entry in item (c)', the words 'and (d)' is inserted.

Sd/-

B. K. GUPTA,
Joint Commissioner of Income-Tax.

निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 मार्च 2015

फा. क्र. 16-निर्वा.-2014-4-162.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82/MP-LA (16/2014) 2015, दिनांक 31 मार्च 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है।

रुही खान, उपसचिव,

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च, 2015—26 फाल्गुन, 1936 (शक)

अधिसूचना

सं. 82-म.प्र.-वि.स.- (16/2014)-2015.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग, एटद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्वाचन याचिका संख्या 16/2014 (पुष्टेन्द्र सिंह हजारी बनाम लखन लाल) जो कि श्री पुष्टेन्द्र सिंह हजारी ने श्री लखन लाल के मध्यप्रदेश के 54-पथरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हेतु नवम्बर, 2013 में हुए निर्वाचन को चुनौती देते हुए दाखिल की थी, में दिनांक 13 फरवरी, 2015 को दिये गये अधिनिर्णय/आदेश को प्रकाशित करता है।

आदेश से

हस्ताक्षर—

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan Ashoka Road, New Delhi—110001

New Delhi, Dated 17th March, 2015—26 Phalgun,
1936 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 82-MP-LA.- (16/2014)-2015.—In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the Judgment / order of the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, dated 13th February 2015 in Election Petition No. 16 of 2014 (Pushpendra Singh Hazari vs. Lakhan Lal) filed by Shri Pushpendra Singh Hazari challenging the Election of Shri Lakhan Lal from 54-Pathariya Legislative Assembly Constituency of Madhya Pradesh held in November, 2013.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

Election Petition No. 16/2014

(Election Petition under Section 80/80-A of the Representation of People Act, 1951)

Petitioner	Pushpendra Singh Hazari, S/o Late Shri Dharmendra Singh Hazari, Aged-56 years, R/o Hazari Ward Hatta Tehsil-Hatta, District Damoh (M.P.)
-------------------	--

Versus

Respondent	Lakhanlal, S/o Shri Babulal, Aged-55 years, R/o Village-Madla, Post-Umari, Tehsil & District-Damoh (M.P.)
-------------------	---

(ELECTION PETITION UNDER SECTION 80/80-A OF THE REPRESENTATION OF PEOPLE ACT, 1951)

1. The Election Petitioner is calling in question the election of respondent who is a returned candidate from 54-Pathariya Assembly Constituency, mainly on the ground mentioned in Section 100 (1) (a) and 100 (d) (I) of Representation of People Act, 1951 (here-in-after referred as Act of 1951). The election petitioner is challenging the election of respondent on the ground that on the date of election he was holding the post of profit, thus was

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
JABALPUR

Election Petition No. 16/2014

Pushpendra Singh Hazari
Vs.
Lakhan Lal

As Per : G. S. Solanki, J.

Shri Arpan J. Pawar, Advocate for the petitioner.

Shri Manoj Sharma with Shri Manish Awasthi, Advocate for the respondent.

Order reserved on : 7-1-2015
Order passed on : 13-2-2015

ORDER

1. This order shall govern disposal of I.A. Nos. 45/2014, 46/2014 and 48/2014

2. I. A. No. 46/2014 has been filed by the respondent under Section 87(1) of the Act of 1951 read with Order 6 Rule 16 of the CPC on the ground that pleadings made in Paragraph Nos. 1, 2, 9, 11, 12, 13 and 14 of the election petition are vague, unnecessary and frivolous, therefore, same are liable to struck-off.

3. The petitioner in the reply of the aforesaid application has denied the contentions raised by the respondent and has submitted that the pleadings of the election petition cannot be termed as scandalous or vexatious. It is further denied that the aforesaid pleadings of the election petition do not disclose any cause of action. It is submitted that the pleadings of the aforesaid paragraphs have nexus and are relevant to resolve the issues involved in the case, therefore, this application is liable to be dismissed.

4. I have gone through the pleadings made in Paragraphs 1, 2, 9, 11, 12, 13 and 14 of the election petition. The pleadings made in Paragraphs 1, 2 and 9 are concise statement of the fact that the petitioner intended to file the election petition on the grounds mentioned under Sections 100(1) (a), 100(d)(i) and 100(1)(d)(iv) of the Act of 1951. In my opinion, such type of pleadings are necessary for making foundation of the petition, therefore, same cannot be said to be vexatious and need not be struck-off.

5. The pleadings of Paragraph No. 11, 13 and 14 have been made in regard to non-compliance of Rules made under the Act of 1951 and they also appear to be necessary and cannot be said to be vexatious irrespective of the fact whether by such type of pleadings cause of action arises or not or such pleadings materially affect the election of the petitioner, therefore, they need not be struck-off under Order 6 Rule 16 of the CPC.

6. So far as pleadings made in Paragraph 12 of the election petition is concerned, the petitioner has pleaded non-compliance of the Notaries Act, which is not covered under Section 100(1) (d)(iv) of the Act 1951. Section 100(1)(d)(iv) of the Act of 1951 reads thus:—

100. Grounds for declaring election to be void. (1) Subject to the provisions of Sub-section (2) if the High Court is of opinion—

- (a)
- (b)

(c)

(d) that the result of the election in so far as it concerns a returned candidate, has been materially affected.

- (i)
- (ii)
- (iii)
- (iv) by any non-compliance with the provisions of the Constitution or of this Act or of any rules or orders made under this Act,

the High Court shall declare the election of the returned candidate to be void.

7. The Rules of Notaries Act are not enacted under the Act of 1951, therefore, the ground of non-compliance of notaries Act cannot be taken and thus the pleadings made in Paragraph 12 of the election petition are unnecessary and liable to be struck-off. The petitioner is directed to delete the pleadings made in Paragraph 12 of the election petition.

8. I. A. No. 45/2014 has been filed by the res[ondent under Section 87(1) of the Representation of People Act, 1951 and I. A. No. 48/2014 has been filed by the respondent under Sections 87(1), 86 and 81(3) of the Representation of People Act, 1951 (hereinafter to be referred to as the Act of 1951) read with Order 7 Rule 11 read with Section 151 of the CPC. Both the aforesaid applications are being considered together.

9. The respondent has filed these two applications on the ground the petitioner has not complied with the mandatory provisions of Section 87(1), 86 and 81(3) of the Act of 1951 because the copy of the election petition served upon the respondent has not attested by the petitioner under his own signature to be a true copy of petition. It is further submitted that the annexures to the petition are the integral part of the petitioner and the same have not been signed by the petitioner. There is a glaring contradiction between the verification of petition and the affidavit filed in support of the petitioner. Photocopy of the petition has been filed as Document-1 for ready reference.

10. It is further submitted that the main plank of attack is that the respondent was holding the office of profit being the President of District Cooperative Bank, Damoh and was disqualified to contest the election but this fact is incorrect on the face of it andasmuch as the returning officer has clearly dealt with it and the relevant legislation covers the covers the field viz; *M.P. Vidhan Mandal Sadasya Nirhata Nivarana Adhiniyam, 1967*

(hereinafter referred to as the Act of 1967) wherein the office of the respondent despite office of profit has not come into the way of being elected as the member of Legislative Assembly due to removal of disqualification under Section 3 of the Act of 1967. Thus the petitioner has no cause of action against the respondent. It is further submitted that no criminal case has been registered against the respondent in the year 2012 and if any case was registered, the charge was not framed, therefore same would not be a disqualification under the Act of 1951. Thus, no cause of action arises in favour of the petitioner. The instant election petition is liable to be dismissed at threshold.

11. In the reply, the petitioner has denied that he has not complied with the provision of Section 81(3) of the Act of 1951 and it is submitted that he has annexed the duly attested copies to the main petition and he has supplied duly attested copy under his own signature to be a true copy to the respondent. It is further submitted that there is no contradiction between the verification and the supporting affidavit.

12. So far as objections in regard to cause of action pertaining to disqualification due to holding of the office of profit by the respondent and non mentioning of criminal case registered against the respondent in the year 2012 are concerned, the petitioner has not specifically denied the aforesaid objections raised by the respondent. It is only averred that the petition does not suffer from any vital defects which are incurable in nature, thus the petition requires trial and does not deserve to be dismissed at threshold therefore the applications are liable to be dismissed.

13. During the course of arguments it is vehemently argued on behalf of the respondent that the petitioner has not supplied him duly signed and attested copy of the petition therefore there is non-compliance of mandatory provision of Section 81(3) of the Act of 1951. He has placed reliance on a decision of Apex Court in **M. Karunanidhi Vs. Dr. H. V. Hande and others (1983) 2SCC 473.**

14. On the contrary learned counsel for the petitioner has submitted that since there is no particular form of attestation prescribed, mere signature without the words like true copy is sufficient attestation under Section 81(3) of the Act of 1951. It is further submitted that true copy of election petition within the meaning of Section 81(3) does not mean absolutely exact copy but it is one which no reasonable person can misunderstand as not being the same as the original. He has placed reliance on the decisions of the Apex Court in **F. A. Sapa etc. Vs. Singora and others etc.-JT 1991 (2) SC 503** and **T. M. Jacob Vs. C. Poulose and others-(1999) 4CC 274.**

15. In *F. A. Sapa etc. etc. Vs. Singora and others etc. (supra)*, it has been observed by the Apex Court that mere signature without the words like true copy, is sufficient attestation under Section 81(3) of the Act of 1951 and *T. M. Jacob Vs. C. Poulose and others (supra)*, it has been held that there should not be any substantial variation of vital nature which can mislead such person to understand and meet the charge. In the instant case, I have perused the copy annexed to the petition as well as the copy which has been supplied to the respondent and same has been preserved as Document No. 1. It reveals that the copies bear signatures of the petitioner on each page of the petitioner. It further reveals that all the annexures annexed with the petition also bear signatures of the petitioner along with the note of verification that these annexures are the photocopies of the original documents. Thus, it cannot be said that the petitioner has not complied with the provision of Section 81(3) of the Act of 1951.

16. Coming to the question of cause of action; learned counsel for the respondent has submitted that petitioner has filed this petition on the sole ground enumerated under Sections 100(1), 100(1)(d)(i) and 100(1)(d)(iv) of the Act of 1951. He has further submitted that petitioner has not denied specifically in regard to the objection regarding disqualification as well as non disclosure of pending criminal cases and further in regard to violation of Rules made under the Act of 1951. It is further submitted that the provision of disqualification in regard to holding the office of profit has already been removed by State enactment namely *The Madhya Pradesh Vidhan Mandal Sadasya Nirhata Nivarana Adhiniyam, 1967* (hereinafter referred to as the Act of 1967). So far as the objection of disclosure of pending criminal cases is concerned, the respondent has already disclosed about pending Criminal Case No. 121/2013 wherein still the charges have not been framed. It is submitted that as per prescribed Proforma Part II, the disclosure of such cases is mandatory wherein the charges have been framed. It is further submitted that if any mistake has been committed in mentioning the year of criminal case, same does not amount to suppression of criminal antecedents from public in general and it will not materially affect the election of the respondent.

17. So far as violation of the Notaries Act is concerned, firstly the respondent has not violated any provision of the aforesaid Act and secondly same cannot be taken as a ground in the election petition. Thus, the petition does not disclose any cause of action, therefore, the instant election petition is liable to be dismissed at threshold. Learned counsel for the respondent has placed reliance on the Act of 1967 and on the decision of Apex Court in **Purno Agitok Sangma Vs. Pranab Mukharjee - (2013) 2 SCC 239.**

18. Learned counsel for the petitioner has submitted that the provisions of the Act of 1967 are not applicable to the case of the respondent because the post of the

President, District Cooperative Bank has not been included in the list of Schedule attached to the Act of 1967 and the District Cooperative Bank does not come under the definition of the Statutory Body, therefore, the instant election petition requires trial. Learned counsel for the petitioner has further submitted that the pleadings made in Paragraphs 11, 12 and 13 of the election petition in regard to non-compliance of the rules made under the Act of 1951 also require trial, therefore, the application are liable to be dismissed.

19. I have heard the learned council for the parties at length and gone through the pleadings made in the election petition. The instant election petition has been filed mainly on three grounds; firstly the respondent was holding the office of profit as the President of District Cooperative Bank, Damoh, therefore, he was not qualified to be chosen to fill seat of 54 Patharia Assembly Constituency, secondly the respondent has not disclosed about the criminal case pending against him and thirdly the respondent has made some alterations/ratification in the affidavit sworn before the Notaries and some columns of the Nomination paper have been left blank. Section 3 (1) of the Act of 1967 reads thus:—

3. Removal of certain disqualifications.- (1) It is hereby declared that none of the offices of profit specified in the Schedule shall disqualify or shall be deemed ever to have disqualified the holder thereof for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly of Madhya Pradesh or the Legislative Council of Madhya Pradesh as the Cas may be.

20. It is true that in the list of offices of profit under the Government mentioned in the Schedule specific word President of District Cooperative Bank has not been mentioned but in Serial No. 17 of the aforesaid list Chairman, or Vice Chairman, President, or Vice President, Managing Director or director of the Statutory Body have been included. The District Cooperative Bank has been created on the basis of the Cooperative Societies and the Societies come under the definition of Statutory Body. The definition of Statutory body as provided under the Act of 1967 reads thus:—

Statutory Body means any corporation board, company society or any other body of persons, whether incorporated or not, established, registered or formed by or under any law for the time being in force of exercising powers and functions under any such law.

21. A bare perusal of the aforesaid definition of Statutory Body makes it clear that the society must be registered or formed under any law for the time being in force of exercising powers and functions under any such law. In the instant case, the District Cooperative Bank is engaged in performing banking functions and is registered under

the M. P. Cooperative Societies Act, 1960 and the President of the aforesaid Society/Bank is covered under the definition of the Statutory Body as mentioned in Serial No. 17 of the Schedule of the Act of 1967. In these circumstances, though the respondent was holding the office of profit on the date of filling the nomination, however, the said disqualification has been removed as per Section 3 of the Act of 1967, therefore, the respondent was eligible to be chosen as a member of 54 Patharia Assembly Constituency, thus no cause of action arose on this ground.

22. So far as the ground of non-disclosure of pending criminal case is concerned, I have gone through the copy of nomination paper, which makes it apparent that the respondent has not suppressed any pending criminal case against him. He has specifically disclosed that Criminal Case No. 121/2013 is pending against him and still the charges have not been framed. The Proforma Part II Serial No. 5 requires disclosure of such criminal cases wherein the charges have been framed but in the case of the respondent still the charges have not been framed, therefore, it cannot be said that the respondent has suppressed the fact of pendency of criminal case. The respondent has specifically disclosed about the pendency of criminal case pending against him, certainly the public at large can perceive that the criminal case is pending against the respondent and despite the pendency of the criminal case, the public has voted in favour of the respondent, in these circumstances on this ground also it cannot be said that the election of the petitioner has been materially affected.

23. Coming to the objection with respect to alteration in the affidavit is concerned, the respondent has made small initials above every alteration thus there is no non-compliance of any provision of the Notaries Act. So far as pleading of non-filling of certain column in the nomination paper is concerned the said nomination paper has been duly verified by the returning officer at the time of scrutiny of nomination paper. I have also gone through the copy of the nomination paper of the respondent, I do not find that any important column has been left blank by the respondent and in my opinion, such non-compliance has not materially affected the election of the petitioner.

24. In view of the aforesaid discussion, in my opinion, the petition does not disclose any cause of action on the basis of the pleadings made in the petition which requires full-dressed trial. Consequently, I. A. Nos. 45/2014 and 48/2014 are hereby allowed. As a consequence thereof, the election petition is hereby dismissed for want of cause of action under Order 7 Rule 11 of the CPC. Parties to bear their own costs as incurred of this petition.

A copy of this order be forwarded to the State Election Commission as well as to the Speaker, Legislative Assembly.

Sd./-
(G. S. SOLANKI)
Judge.

By Order,
Sd./-

NARENDRA N. BUTOLIA
Secretary,
Election Commission of India.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2015

ज्ञाप. क्र. 01-अ-82-14-15-भू.अ.आ. ई.-1-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11(1) के उपबंधों के अनुसार सभी हितबद्ध व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की यह सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किये जाने हेतु प्राधिकृत करता है। चूंकि दाँदी तट नहर के अंतर्गत जुनवानीकला माइनर के निर्माण हेतु अधिकांश भू-अर्जन पूर्व में हो चुका है अब केवल छूटे हुये आंशिक रक्कें का अर्जन किया जा रहा है। अतः इस कारण उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण की तथा धारा 11(3) के तहत इसके सार के प्रकाशन किये जाने की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12(2) द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	सिहोरा	पहरेवा	0.02	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4 सिहोरा.	जुनवानीकला माइनर के निर्माण हेतु।
		प.ह.नं. 73/5			

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परियोजना इकाई क्र. 1 बरगी हिल्स, जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवनारायण रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 23 मार्च 2015

क्र. 615-13-14-प्र. क्र. 03-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में योजना में परासली तालाब योजना से नहर के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—बर्डिया अमरा

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिचित	असिचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बर्डिया अमरा	0.070	0.000	0.070
	योग . .	0.070	0.000	0.070

अनुसूची (2)
परासली तालाब से नहर योजना

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्राम—बर्डिया अमरा						
1	कंवरलाल पिता उकांरलाल कुल्मी निवासी बर्डिया अमरा	910	1.430	0.070	0.000	0.070
		योग . .	1.430	0.070	0.000	0.070

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 621-13-14-प्र. क्र. 04-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में योजना में परासली तालाब योजना के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—परासली

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	परासली	0.040	0.000	0.040
	योग . .	0.040	0.000	0.040

अनुसूची (2)
परासली तालाब योजना

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्राम—परासली						
1	शिवलाल पिता भुवानीसिंह सो. रा. निवासी खाखरी.	156	0.550	0.040	0.000	0.040
	योग . .	0.550	0.040	0.000	0.040	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 627-13-14-प्र. क्र. 05-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में योजना में परासली तालाब योजना से नहर के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—पिपल्यामोहम्मद

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पिपल्यामोहम्मद	0.090	0.000	0.090
	योग . .	0.090	0.000	0.090

अनुसूची (2)
परासली तालाब से नहर योजना

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्राम—पिपल्यामोहम्मद						
1	शंकरलाल पिता उदेराम बलाई निवासी माणकी	61	0.330	0.090	0.000	0.090
		योग . .	0.330	0.090	0.000	0.090

नोट— भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 633-13-14-प्र. क्र. 06-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में योजना में टुगनी तालाब योजना के वेस्टवियर निर्माण के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—टुगनी

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	टुगनी	0.000	0.000	0.000
	योग . .	0.000	0.000	0.000

भूमि का मुआवजा पूर्व में भुगतान किया गया, भूमि पर स्थित कुवे का निर्माण व्यय दिया जाना शेष।

अनुसूची (2)

टुगनी तालाब योजना से वेस्टवियर निर्माण

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्राम—टुगनी						
1	दूगरसिंह पिता कालूसिंह सो. रा. निवासी टुगनी।	414/2	0.360	0.000	0.000	0.000
	योग . .	0.360	0.000	0.000	0.000	0.000

भूमि का मुआवजा पूर्व में भुगतान किया गया, भूमि पर स्थित कुवे का निर्माण व्यय दिया जाना शेष।

नोट— भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 639-13-14-प्र. क्र. 07-अ-82-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में योजना में परेनिया तालाब योजना के लिये आवश्यकता है वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—टुगनी

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	टुगनी	0.000	0.000	0.000
	योग . .	0.000	0.000	0.000

भूमि का मुआवजा पूर्व में भुगतान किया गया, भूमि पर स्थित कुवे का निर्माण व्यय दिया जाना शेष।

अनुसूची (2)

परोनिया तालाब योजना निर्माण

सं. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ग्राम—टुगनी						
1	धापुबाई पिता अमरा गुर्जर निवासी टुगनी.	674	0.660	0.000	0.000	0.000
		योग . .	0.660	0.000	0.000	0.000

भूमि का मुआवजा पूर्व में भुगतान किया गया, भूमि पर स्थित कुवे का निर्माण व्ययः दिया जाना शेष.

नोट।—भूमि का नक्शा (प्लान) निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 23 मार्च 2015

क्र. 2891-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ अंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	फुलाश		1.34				
	रा. नि.म.	बं. नं. 370						
	सिवनी	प.ह.नं. 121.						
		भाग-1.						

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीय अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2893-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ अंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित हैं और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म.	पिंडरई ब. न. 365	0.31	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु.
	सिवनी	प.ह.न. 125			
	भाग-1.				

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 2894-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ अंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म.	बिनेकी ब. न. 415	3.96	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
	सिवनी	प.ह.न. 118			
	भाग-1				

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 2895-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माझनर एवं सब माझनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	चारगांव	3.14	कार्यपालन यंत्री पैंच व्यपवर्तन परियोजना	पैंच व्यपवर्तन परियोजना
	रा.नि.म.	ब. न. 165		नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला	के अंतर्गत सिवनी शाखा
	सिवनी	प.ह.न. 118.		छिंदवाड़ा (म. प्र.).	से निकलने वाली माझनर
	भाग-1.				एवं सब माझनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 2896-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माझनर एवं सब माझनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	सिमरिया	10.90	कार्यपालन यंत्री पैंच व्यपवर्तन परियोजना	पैंच व्यपवर्तन परियोजना
	रा.नि.म.	ब. न. 567		नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला	के अंतर्गत सिवनी शाखा
	सिवनी	प.ह.न. 99.		छिंदवाड़ा (म. प्र.).	नहर के निर्माण हेतु,
	भाग-2.				

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 2897-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची

के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	सुकरी	1.78	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर नहर के निर्माण हेतु.
	रा.नि.म.	ब. न. 583,			
	सिवनी	प.ह.न. 119.			
	भाग-1				

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

क्र. 2898-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	खैरीकला	6.48	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.
	रा.नि.म.	ब. न. 123,			
	बण्डोल.	प.ह.न. 10.			

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।

सिवनी, दिनांक 24 मार्च 2015

क्र. 2932-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	ठरका	3.59	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना	पेंच व्यपवर्तन परियोजना
	रा.नि.म.	ब. न. 235, बण्डोल.	प.ह.न. 13.	नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2933-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	संगई	2.54	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना	पेंच व्यपवर्तन परियोजना
	रा.नि.म.	ब. न. 594, सिवनी	प.ह.न. 116. भाग-1.	नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2934-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	बमोड़ी	6.13	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना	पेंच व्यपवर्तन परियोजना
	रा.नि.म.	ब. न. 397,		नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला	के अंतर्गत सिवनी शाखा
	सिवनी	प.ह.न. 115.		छिंदवाड़ा (म. प्र.).	नहर के निर्माण हेतु.
	भाग-1.				
(2)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.				

क्र. 2936-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	करहैया	4.85	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना	पेंच व्यपवर्तन परियोजना
	रा.नि.म.	ब. न. 48,		नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला	के अंतर्गत सिवनी शाखा
	सिवनी	प.ह.न. 118.		छिंदवाड़ा (म. प्र.).	से निकलने वाली माइनर
	भाग-1.				एवं सब माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2938-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है

है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माझनर एवं सब माझनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	कोहका	0.43	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपर्वतन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपर्वतन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर के माझनर एवं सब माझनर निर्माण हेतु.
	रा.नि.म.	ब. न. 82,			
	सिवनी	प.ह.न. 119.			
		भाग-1.			

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2939-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माझनर एवं सब माझनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	जमुनिया	5.39	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपर्वतन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपर्वतन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली माझनर एवं सब माझनर नहर के निर्माण हेतु.
	रा.नि.म.	ब. न. 196,			
	सिवनी	प.ह.न. 118.			
		भाग-1.			

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2941-जि.भू.अ.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माझनर एवं सब माझनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	पीपरडाही	2.12	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना	पेंच व्यपवर्तन परियोजना
	रा.नि.म.	ब. न. 346,		नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला	के अंतर्गत सिवनी शाखा
	सिवनी	प.ह.न. 120.		छिंदवाड़ा (म. प्र.).	से निकलने वाली माझनर
	भाग-1.				एवं सब माझनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 2942-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माझनर एवं सब माझनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ रा.नि.म.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	गंगई	2.91	कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना	पेंच व्यपवर्तन परियोजना
	रा.नि.म.	ब. न. 149,		नहर संभाग सिंगना तह. चौरई जिला	के अंतर्गत सिवनी शाखा
	सिवनी	प.ह.न. 82.		छिंदवाड़ा (म. प्र.).	से निकलने वाली माझनर
	भाग-1.				एवं सब माझनर के नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 23 मार्च 2015

पत्र क्र. 656-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
				प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	पुरवा	7.500	कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु।

पत्र क्र. 658-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
				प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	कोलहुआरू	2.750	कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु।

पत्र क्र. 660-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्वासस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) गोंद खुर्द	(4) 9.950	कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 662-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) शुभनाथ कोठार	(4) 6.600	कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 664-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1) रीवा	(2) जवा	(3) नगमा	(4) 6.455	कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत महाना वितरक की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 666-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	गोहटा	4.580	कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत महाना वितरक की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 668-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	सितलहा	5.650	कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत महाना वितरक की माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 670-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं, चूंकि

त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) पलहौवा	(4) 2.500	(5) कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 672-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) जवा	(3) चम्पागढ़	(4) 3.110	(5) कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 674-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) कैथी पिंचकटा	(4) 3.100	(5) कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 676-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(4)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) तुर्का गोंदर	2.110	कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.	

पत्र क्र. 678-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(4)		
(1) रीवा	(2) जवा	(3) बड़ाछ कोठार	8.500	कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.	

पत्र क्र. 680-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा

(1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) टंगहा	(4) 8.520	(5) कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु।

पत्र क्र. 682-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) जवा	(3) डोडौ	(4) 3.995	(5) कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु।

पत्र क्र. 684-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) मझगांव पैपखार	(4) 2.690	(5) कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु।

पत्र क्र. 686-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) सिआउर खुर्द	(4) 3.000	(5) कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 688-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) लखवार	(4) 3.720	(5) कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 690-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1) रीवा	(2) त्योंथर	(3) नौवस्ता कोठार	(4) 6.625	(5) कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	(6) त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 692-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं। चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	महुली	2.510	कार्यपालन यंत्री त्योंथर नहर संभाग जल संसाधन विभाग सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
अशोकनगर, दिनांक 24 मार्च 2015

प्र. क्र.-भू-अर्जन-168-2014-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (1) एवं 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अशोकनगर	अशोकनगर	सुमेर	35.500	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, अशोकनगर, जिला अशोकनगर.	बरखेडा छज्जू तालाब निर्माण हेतु।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।—बरखेडा छज्जू तालाब के दूब क्षेत्र के लिये भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकार अशोकनगर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. बी. प्रजापति, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शाजापुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2014

क्र. भू-अर्जन-2014-138.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में उल्लेखित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शाजापुर
- (ख) तहसील—शुजालपुर
- (ग) ग्राम—शंभुपुरा एवं बिनाया
- (घ) क्षेत्रफल—क्रमशः 0.225 हे., एवं 0.180 हे.

कुल 0.405 हे.

खसरा	क्षेत्रफल जो
क्रमांक	अर्जन होना है
	(हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—शंभुपुरा	
242/2	0.225
ग्राम—बिनाया	
1396	0.070
1398	0.110
योग . .	0.180
महायोग . .	0.405

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पोलायकलाँ-रनायल मार्ग पर सेतु निर्माण में आने वाली ग्राम बिनाया व शंभुपुरा की अशासकीय भूमि का अर्जन।

नोट:—भूमि का नक्शा एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 23 जनवरी 2015

प्र. क्र. 04 अ-82-वर्ष 2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—दमोह
- (ख) तहसील—हटा
- (ग) नगर/ग्राम—देवरी फतेहपुर, हरदुआ पंचम क्रमशः
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.85 हेक्टेयर।

खसरा	रकवा
नंबर	(हे. में)
(1)	(2)
171 में से	0.11
173 में से	0.40
172/3 में से	0.05
172/4 में से	0.14
172/5 में से	0.05
174/1 में से	0.16
176/2 में से	0.40
13, 17/2 में से	0.54
योग . .	1.85

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—हटा-विनती-डौली मार्ग में सुनार नदी के हिमपटी घाट पर जलमग्नीय पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण में ग्राम देवरी फतेहपुर एवं हरदुआ पंचम की अर्जन में आने वाली भूमि।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपर्युक्त हटा (दमोह) एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 20 मार्च 2015

क्र. 370-भू-अर्जन-कलेक्टर प्र. क्र. 44-अ-82-2012-13-संशोधन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
- (ख) तहसील—बड़वानी
- (ग) ग्राम—पॉचपुला उत्तर (पुरक प्रकरण) निजी कृषि भूमि
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.810 हेक्टर.

पूर्व में प्रकाशित धारा-6		संशोधित धारा-6		रिमार्क
सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)	
(1)	(2)	(1)	(2)	
252/2, 612/1	0.405	253/2, 612/1	0.405	सर्वे क्रमांक में त्रुटि के कारण
733/2	0.101	733/2	0.101	यथावत्
735/5	0.304	733/5	0.304	सर्वे क्रमांक में त्रुटि के कारण
784/1, 792/2	1.331	विलोपित	विलोपित	पूर्व प्रकरण में सम्मिलित होने से
कुल क्षेत्रफल योग . .	<u>2.141</u>		<u>0.810</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लोअरगोइ परियोजना बड़वानी, बाँध निर्माण से प्रभावित होने के कारण.

नोट:—भूमि के नक्शे (साइट प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी लोअरगोइ परियोजना बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-12 राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 मार्च 2015

पत्र क्र. 622-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) ग्राम—बौना कोठार
- (घ) क्षेत्रफल—1.284 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर)	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(1)	(2)
1	0.204	—	—
2	0.176	—	—
34	0.068	—	—

(1)	(2)	(1)	(2)
35	0.086	53	0.242
39	—	59	0.010
40	0.089	60	0.115
41	0.052	61	0.122
42	0.155	65	—
43	0.015	431/47	0.006
55	0.022	योग	1.809
58	0.147		
59	0.012		
60	0.046		
61	0.190		
कुल योग . .	<u>1.262</u>		
योग . .	<u>1.284</u>		<u>0.022</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 624-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
 - (ख) तहसील—त्योंथर
 - (ग) ग्राम—ककरैला
 - (घ) क्षेत्रफल—1.809 हेक्टेयर.

(1)	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा		(2)
		निजी भूमि	शासकीय भूमि	
41	0.612	—		
42	—	0.015		
44	0.255	—		
47	0.268	—		
48	0.123	—		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 626-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) ग्राम—बघवारी कोठार
- (घ) क्षेत्रफल—2.038 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)	निजी भूमि	शासकीय भूमि	(2)
1		0.271	—
5		0.074	—
6		0.084	—
10		0.244	—
11		0.158	—
12		0.059	—
77		0.135	—
80		0.110	—
81		0.084	—
82		0.104	—
83		0.015	—

(1)	(2)
90	0.024
94	0.057
95	0.071
96	0.026
97	0.071
98	0.050
99	0.086
102	0.018
119	0.181
120	0.116
योग . .	2.038

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 628-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
 - (ख) तहसील—त्योंथर
 - (ग) ग्राम—डोडिया चौहानन
 - (घ) क्षेत्रफल—0.835 हेक्टेयर.

(1)	(2)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
		निजी भूमि
42	0.219	—
43	0.235	—
44	0.058	—
54	0.118	—
56	0.139	—
57	0.066	—
योग . .	0.835	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 630-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—रीवा
 - (ख) तहसील—त्योंथर
 - (ग) ग्राम—सियाउर कला कोठार
 - (घ) क्षेत्रफल—0.951 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)	(4)
184	—	0.162	—
185	—	0.078	—
186	—	0.005	—
190	—	0.244	—
191	—	0.165	—
192	—	0.144	—
193	—	0.099	—
194	—	0.002	—
195	—	0.052	—
योग . .	—	0.951	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 632-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) ग्राम—वेदगांव कोठार
- (घ) क्षेत्रफल—1.347 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

निजी भूमि शासकीय भूमि

(1) (2)

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)		
110	0.369	—	545
114	0.141	—	546
120	—	0.087	551
121	0.289	—	552
124	0.371	—	555
127	0.090	—	556
योग . .	<u>1.347</u>		607
			609
			610
			611
			612
			613
			618
			622
			632
			633
			635
			636
			637
			669
			योग . .
			<u>2.190</u>
			<u>2.218</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 634-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा

(ग) ग्राम—बरेती कला कोठार

(घ) क्षेत्रफल—2.218 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)		
372	0.315	—	
373	0.187	—	
374	0.157	—	
496	0.042	—	
497	0.122	—	
498	0.184	—	
522	0.148	—	
527	0.088	—	
528	0.115	—	
529	0.057	—	
531	0.016	—	
545	0.100	—	
546	0.001	—	
551	0.092	—	
552	0.037	—	
555	0.030	—	
556	0.016	—	
607	0.062	—	
609	0.019	—	
610	0.039	—	
611	0.048	—	
612	0.025	—	
613	0.046	—	
618	—	—	0.028
622	0.121	—	
632	0.036	—	
633	0.001	—	
635	0.047	—	
636	0.029	—	
637	0.002	—	
669	0.008	—	
योग . .	<u>2.190</u>		<u>0.028</u>
कुल योग . .	<u>2.218</u>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 636-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—जवा
- (ग) ग्राम—बरेती कोठार
- (घ) क्षेत्रफल—2.297 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकमा
(हेक्टेयर में)

	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	(3)

764	0.096	—
765	0.106	—
766	0.120	—
776	—	0.047
823	0.010	—
825	0.047	—
826	0.138	—
827	0.069	—
828	0.014	—
830	0.081	—
834	0.047	—
875	0.073	—
876	0.015	—
877	0.130	—
882	0.019	—
884	0.149	—
886	0.058	—
887	0.008	—
888	0.122	—
889	0.076	—
1011	0.018	—
1107	0.026	—
1111	0.106	—
1112	0.081	—
1113	0.075	—
1178	—	0.005

	(1)	(2)
1182	0.068	—
1183	0.116	—
1184	0.015	—
1185	0.185	—
1186	0.027	—
1187	0.048	—
1193	0.022	—
योग .	2.165	0.132
कुल योग .	2.297	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है।

पत्र क्र. 638-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) ग्राम—रैकवारा
- (घ) क्षेत्रफल—2.064 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकमा
(हेक्टेयर में)

	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	
5	0.273	—
6	0.099	—
22	0.166	—
23	0.146	—
24	0.103	—
26	0.070	—
50	0.043	—
51	0.265	—

(1)	(2)	(1)	(2)		
52	0.081	—	196	0.038	—
53	0.081	—	197	0.023	—
72	0.206	—	198	0.065	—
73	0.205	—	199	0.139	—
77	0.145	—	200	0.015	—
78	0.181	—	201	0.005	—
योग . .	<u>2.064</u>	320	0.035	—	
		321	0.057	—	
		324	0.383	—	
		326	0.530	—	
		327	0.150	—	
		328	0.105	—	
		359	0.040	—	
		योग . .	<u>2.293</u>		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 640-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—त्योंथर
 (ग) ग्राम—फूलदेउर
 (घ) क्षेत्रफल—2.293 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
	निजी भूमि	शासकीय भूमि	(2)
(1)			
115	0.055	—	
118	0.057	—	
119	0.067	—	
121	0.137	—	
147	0.045	—	
182	0.041	—	
183	0.049	—	
184	0.101	—	
185	0.013	—	
188	0.046	—	
192	0.079	—	
195	0.036	—	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 642-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—त्योंथर
 (ग) ग्राम—रामपुर कोठार
 (घ) क्षेत्रफल—3.471 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
	निजी भूमि	शासकीय भूमि	(2)
(1)			
652		0.308	—
653		0.451	—
669		0.364	—
673		0.116	—
674		0.166	—

(1)	(2)
144	0.129
148	0.316
149	0.130
150	0.085
152	0.032
154	0.142
155	0.064
•156	0.077
201	0.111
202	0.019
205	0.003
206	0.223
207	0.006
208	0.027
222	0.009
227	0.034
228	0.290
324	0.014
326	0.050
327	0.025
331	0.217
336	0.047
493	0.080
502	0.138
503	0.084
504	0.060
505	0.001
506	0.065
507	0.054
510	0.067
511	0.107
512	0.009
520	0.065
523	0.076
629	0.115
640	0.010
645	0.241
655	0.005
662	0.040
664	0.016
योग . .	4.240
कुल योग. .	4.240

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 648-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर
- (ग) ग्राम—बेदौली खैरहन की कोठार
- (घ) क्षेत्रफल—0.638 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकमा
(हेक्टेयर में)

	निजी भूमि	शासकीय भूमि
(1)	(2)	
4	0.060	-
5	0.197	-
6	0.207	-
8	0.113	-
9	0.061	-
योग . .	0.638	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 650-प्रका.-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—त्योंथर

- (ग) ग्राम—बराती कोठार
 (घ) क्षेत्रफल—0.716 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	निजी भूमि शासकीय भूमि
(1)	(2)	
14	0.380	—
15	0.336	—
योग . .	0.716	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 652-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—त्योंथर
 (ग) ग्राम—घुसुरूम
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.424 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	निजी भूमि शासकीय भूमि
(1)	(2)	
19	—	0.099
21	0.157	—
29	0.143	—
30	0.094	—
32	0.131	—
35	0.016	—
36	0.110	—
38	0.378	—
42	—	0.038
48	—	0.086
49	0.172	
योग . .	1.424	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना

के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 654-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 (क) जिला—रीवा
 (ख) तहसील—त्योंथर
 (ग) ग्राम—डॉडिया भवरहन
 (घ) क्षेत्रफल—1.607 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	निजी भूमि शासकीय भूमि
(1)	(2)	
119	—	0.013
120	—	0.189
121	—	0.125
128	—	0.144
129	—	0.130
130	—	0.192
131	—	0.059
132	—	0.083
133	—	0.058
135	—	0.038
137	—	0.101
138	—	0.094
139	—	0.004
140	—	0.187
141	—	0.048
142	—	0.142
योग . .	—	1.607

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत “त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलोकटर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 23 मार्च 2015

क्र. 2869-भू-अर्जन.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—चारगांव, प.ह.नं. 118, ब.नं. 165, रा.नि.मं. सिवनी भाग-1.
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.39 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15/1	0.39
योग . .	<u>0.39</u>

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर के निर्माण हेतु।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 2892-भू-अर्जन.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—किसनपुर, प.ह.नं. 65, ब.नं. 15, रा.नि.मं. बण्डोल।
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.12 हेक्टेयर।

खसरा नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)

(1) (2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

233/1	0.05
200	0.43
219	0.25
218	0.10
213	0.03
209/2	0.22
212/2	0.11
212/1	0.04
210	0.11
209/1	0.13
265	0.08
143	0.17
142	0.13
141	0.06
139	0.15
137/2	0.04
151	0.05
152	0.07
155/1	0.16
154	0.16
17	0.05
19	0.11
22/5	0.07
22/4	0.07
7/1	0.09
योग . .	<u>2.93</u>

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

256	0.03
201	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
145	0.02	50/2	0.02
146	0.02	50/3	0.08
15	0.04	49/1	0.11
18	0.06	49/2	0.06
	योग . . . 0.19	277/1	0.02
	कुल योग (अ+ब) 3.12	273/1	0.11
		272	0.03
		266	0.01
		271/1	0.08
		271/2	0.01
		270/1	0.05
		267/2	0.06
		265	0.01
		264/1	0.12
		264/2	0.23
		योग . . . 1.08	

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

सिवनी, दिनांक 24 मार्च 2015

क्र. 2931-भू-अर्जन.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
 - (क) जिला—सिवनी
 - (ख) तहसील—सिवनी
 - (ग) नगर/ग्राम—नैनपार, प.ह.नं. 14, ब.नं. 311, रा.नि.मं. बण्डोल।
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.20 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	

66/1 0.08

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

48	0.01
161	0.02
169	0.05
173	0.02
246	0.02
योग (ब) . . . 0.12	
कुल योग (अ+ब) 1.20	

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 2940-भू-अर्जन.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—फेरदा, प.ह.नं. 114, ब.नं. 359, रा.नि.मं.
- सिवनी भाग-1,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.02 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल
	(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
-----	-----

(अ) निजी भूमि का विवरण

204	0.17
200/3	0.10
200/4	0.04
200/5	0.08
200/2	0.01
200/6	0.04
200/7	0.05
200/1	0.01
198	0.07
197	0.10
196	0.16
103	0.11
104/1	0.06
104/3	0.05
104/2	0.09
60	0.08
57/1	0.15
57/2	0.17
51	0.10
52/1	0.09
53/1	0.15
53/3	0.11
योग . .	1.99

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

97	0.03
योग (ब) . .	0.03
कुल योग (अ+ब)	2.02

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 2943-भू-अर्जन.-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी
- (ग) नगर/ग्राम—सिमरिया, प.ह.नं. 113, ब.नं. 572, रा.नि.मं. सिवनी भाग-1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	अर्जित क्षेत्रफल
	(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
-----	-----

157/1	0.12
157/2	0.17
योग . .	0.29

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर से निकलने वाली माइनर नहर के निर्माण में आने वाली निजी भूमि, शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील-चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।